

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 17—जनवरी 23, 2015 (पौष 27, 1936)

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 17—JANUARY 23, 2015 (PAUSA 27, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सं. दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2015

सेना शाखा

सं. 7, दिनांक 24 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं !

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले0 कर्नल

आई सी सं०	नाम	आर्म / सर्विसिज
65069	मनोज चौधरी	इंफैंट्री

—02 मई 2014

आई सी सं.	नाम	आर्म	ले0 कर्नल दिनांक से
56494	प्रवीन सिंह भदुरिया	इंफैंट्री	04 मई 2014
56497	मृत्युंज कुमार सिंह	ए ओ सी	04 मई 2014
56500	सिबी थोमस	इंफैंट्री	04 मई 2014
56501	अजय डोबाल	मेक इंफैंट्री	04 मई 2014

आई सी सं.	नाम	आर्म	ले0 कर्नल दिनांक से
56502	स्वपन कुमार सक्सेना	आर्टी	04 मई 2014
56504	दीपक शर्मा	सिग्नल्स	04 मई 2014
56505	मयंक सहाय	ए सी	04 मई 2014
56506	सुरेश कुमार	ई एम ई	04 मई 2014
56508	सत्या प्रिया सक्सेना	मेक इंफैंट्री	04 मई 2014
56509	के आर कोडांडा रमन	इंफैंट्री	04 मई 2014
56522	मोहित निगम	ए ई सी	04 मई 2014
56523	अलिप कुमार रॉय	इंजिनियर्स	04 मई 2014
56524	नीतिन हंस	इंफैंट्री	04 मई 2014
56525	अमित कुमार छेतरी	इंफैंट्री	04 मई 2014
56526	अनुराग शर्मा	आर्टी	04 मई 2014
64971	अभिषेक सिंह	ए सी	02 मई 2014
64972	नारायण सिंह भाटी	इंफैंट्री	02 मई 2014
64974	रजनीश कुमार	ए ए डी	02 मई 2014
64975	अतीक अहमद मोहम्मद कासिम सिद्धिकी	आर्टी	02 मई 2014
64976	एच सबरीनाथ	इंफैंट्री	02 मई 2014
64977	मनीश ठाकुर	सिग्नल्स	02 मई 2014
64978	अरुण कुमार चोबे	ई एम ई	02 मई 2014
64979	तरवेनी प्रसाद शर्मा	इंफैंट्री	02 मई 2014
64980	के पूर्ण चन्द्र रॉव	इंजिनियर्स	02 मई 2014
64981	गिरिश अवस्थी	मेक इंफैंट्री	02 मई 2014
64982	सुमित सबरवाल	आर्टी	02 मई 2014
64984	देवेंदर आनन्द	आर्टी	02 मई 2014
64985	परवीन कुमार	इंफैंट्री	02 मई 2014
64987	गोरख सिंह सेंगर	इंफैंट्री	02 मई 2014
64988	सुनील कुमार	ए सी	02 मई 2014
64990	विवेक सिंह चुण्डावत	इंफैंट्री	02 मई 2014
64993	गुरिंदर पाल सिंह अमोल	आर्टी	02 मई 2014
64994	शशी भुषण जाट	ए ए डी	02 मई 2014
64995	शैलेन्द्र कुमार सिंह	इंफैंट्री	02 मई 2014
64996	दीपक कुमार सिंह मेहरा	ए ए डी	02 मई 2014
64997	संदीप दुग्गल	ए सी	02 मई 2014
64998	अद्वितिय कुमार सिंहा	ए एस सी	02 मई 2014
64999	विशाल राणा	इंफैंट्री	02 मई 2014
65000	देब राज भट्टाचार्य	इंफैंट्री	02 मई 2014
65001	आलोक शुक्ला	आर्टी	02 मई 2014
65002	गगन मल्होत्रा	आर्टी	02 मई 2014
65004	पवन सिंह	ई एम ई	02 मई 2014
65005	अनुज सुडान	ए सी	02 मई 2014

आई सी सं.	नाम	आर्म	ले0 कर्नल दिनांक से
65006	समीर भारती	इंफैंट्री	02 मई 2014
65007	गुलरेज हसन	आर्टी	02 मई 2014
65008	आशीष खन्ना	मेक इंफैंट्री	02 मई 2014
65010	संजय यादव	आर्टी	02 मई 2014
65011	विकास	इंफैंट्री	02 मई 2014
65012	दिलीप आर	ई एम ई	02 मई 2014
65014	वी सिवारमन	इंजिनियर्स	02 मई 2014
65015	सुभाष सिंह चौहान	इंफैंट्री	02 मई 2014
65016	समबीत कुमार साहु	आर्टी	02 मई 2014
65018	हर्ष वर्धन सिंह राठौर	ए ओ सी	02 मई 2014
65021	आशोक कुमार मिश्रा	इंफैंट्री	02 मई 2014
65022	दिनेश सिंह तंवर	इंफैंट्री	02 मई 2014
65023	इंद्रजीत घोष	इंफैंट्री	02 मई 2014
65024	नरेन्द्र सिंह शेखावत	इंजिनियर्स	02 मई 2014
65025	शौरभ शर्मा	आर्टी	02 मई 2014
65026	समीर अवस्थी	आर्टी	02 मई 2014
65027	विजय सिंह	इंफैंट्री	02 मई 2014
65029	अमित खंडारी	इंफैंट्री	02 मई 2014
65031	अश्विनी कुमार लाल	इंजिनियर्स	02 मई 2014
65032	प्रदीप शर्मा	इंजिनियर्स	02 मई 2014
65033	शैलेश सत्यार्थी	आर्टी	02 मई 2014
65034	दीपक चौधरी	ए ए डी	02 मई 2014
65035	शैलेश पी रॉव	इंफैंट्री	02 मई 2014
65038	सुखदीप सिंह	इंफैंट्री	02 मई 2014
65039	नरेश पराशर	ए ए डी	02 मई 2014
65040	प्रशन्नजीत बासु	इंफैंट्री	02 मई 2014
65041	नीलगगन सिंह कथुरिया	मेक इंफैंट्री	02 मई 2014
65042	शउर अंजुम	ई एम ई	02 मई 2014
65044	पंकज रावत	इंजिनियर्स	02 मई 2014
65045	जगदीप सिंह	इंफैंट्री	02 मई 2014
65048	नरेंद्र प्रसाद	इंफैंट्री	02 मई 2014
65050	किशन सिंह मेहरा	आर्टी	02 मई 2014
65051	हेरॉल्ड थोमस	आर्टी	02 मई 2014
65052	अमरप्रीत सिंह	आर्टी	02 मई 2014
65053	राहुल ननजप्पा	इंफैंट्री	02 मई 2014
65054	दुबाश फिरदोश परवेज	इंफैंट्री	02 मई 2014
65055	जोगिंदर पाल सिंह	इंफैंट्री	02 मई 2014
65056	कैलाश बिष्ट	ए एस सी	02 मई 2014
65057	नामित मिनोचा	आर्टी	02 मई 2014

आई सी सं.	नाम	आर्म	ले0 कर्नल दिनांक से
65058	भानू प्रताप सिंह	इंफैंट्री	02 मई 2014
65059	महेन्द्र सिंह धारीवाल	इंफैंट्री	02 मई 2014
65060	अमित कुमार कर्णवाल	आर्टी	02 मई 2014
65061	जीस्सांतो के	इंट	02 मई 2014
65062	कशिश वाधवा	इंफैंट्री	02 मई 2014
65063	जेररी मनोहर	इंट	02 मई 2014
65064	राजबीर सिंह	इंफैंट्री	02 मई 2014
65065	संतोष कुमार सिंह	इंफैंट्री	02 मई 2014
65066	अनीश कटोच	आर्टी	02 मई 2014
65067	गुरमिंदर सिंह	आर्टी	02 मई 2014
65068	मानिक त्रेहन	ए सी	02 मई 2014
65070	जावेद अबदी	आर्टी	02 मई 2014
65071	रवी जी रैना	आर्टी	02 मई 2014
65072	श्रवण कुमार अग्रवाल	इंट	02 मई 2014
65073	गुरुमयम रनजीत शर्मा	इंफैंट्री	02 मई 2014
65074	विजय अब्राहम थम्पी	इंजिनियर्स	02 मई 2014
65076	शलभ चौधरी	इंफैंट्री	02 मई 2014
65077	महावीर सिंह	आर्टी	02 मई 2014
65078	अनुभव गैरोला	ए सी	02 मई 2014
65080	विक्रान्त	ए ओ सी	02 मई 2014
65081	डिसूजा जॉर्ज रुजे	इंफैंट्री	02 मई 2014
65082	अरुण कुमार दत्ता	इंजिनियर्स	02 मई 2014
65083	मनीश मोहन सिंहा	ए एस सी	02 मई 2014
65085	अदीप पॉल पानेसर	ई एम ई	02 मई 2014
65086	नीसीथ थाप्लियाल	इंफैंट्री	02 मई 2014
65088	जे शेररी	इंजिनियर्स	02 मई 2014
65089	सम्राट नागर	मेक इंफैंट्री	02 मई 2014
65090	प्रवीण कुमार	ई एम ई	02 मई 2014
65091	समीर सोमन	आर्टी	02 मई 2014
65093	रवि राजा	इंफैंट्री	02 मई 2014
65096	शल्य चौधरी	इंफैंट्री	02 मई 2014
65098	भुपिंदर सिंह संधु	इंफैंट्री	02 मई 2014
65099	पी प्रमोथ	आर्टी	02 मई 2014
65100	आलोक कुमार सिंहा	इंफैंट्री	02 मई 2014
65101	शौरभ खन्ना	आर्टी	02 मई 2014
65102	धीरज मोडगिल	जैग	02 मई 2014
65103	मनीश कुमार	इंफैंट्री	02 मई 2014
65104	दिनेश चन्द्र वशिष्ट	ए ओ सी	02 मई 2014
65105	अमित अवरथी	इंफैंट्री	02 मई 2014

आई सी सं.	नाम	आर्म	ले0 कर्नल दिनांक से
65108	शमन कुमार	इंफैंट्री	02 मई 2014
65110	इशान राजावरपु	आर्टी	02 मई 2014
65791	दत्ता बीजीतेष बीभाश	ई एम ई	08 मई 2014
65793	रतन सैन सिंह	सिग्नल्स	08 मई 2014
65794	नीरज डडवाल	ई एम ई	08 मई 2014
65795	अजय कुमार शर्मा	इंजिनियर्स	08 मई 2014
65796	देबाशीश सिंहा	ई एम ई	08 मई 2014
65797	फजलूल बारी शरशार	इंजिनियर्स	08 मई 2014
65798	गगनदीप सिंह	ई एम ई	08 मई 2014
SS-39976	तपन मिश्रा	इंजिनियर्स	08 मई 2014
58764	पेनुकोन्डा फिरोज अली खान	ए एस सी	12 जून 2014
59697	आशीष टंडन	इंजिनियर्स	10 जून 2014
60109	लोक बहादुर माल	ए ओ सी	09 जून 2014
60401	गौरव नारंग	इंजिनियर्स	09 दिसम्बर 2013
60445	अभिजीत कुशवाहा	गार्ड मेक	09 जून 2014
62443	जितेन्द्र कुमार वर्मा	इंजिनियर्स	21 अक्टूबर 2013
64833	संजय कुमार	इंजिनियर्स	04 मई 2014
00297	मंजानाथ	ए सी	
00298	अविजित दास	ए एस सी	
00300	संजीव एन	इंफैंट्री	
00302	मधुसुधानन बी वी	ए ओ सी	
00303	थाम बहादुर श्रेष्ठा	इंफैंट्री	
00304	दिलबाग सिंह राणा	आर्टी	
00305	के अन्नादुरई	इंफैंट्री	
00307	बच्चे सिंह	आर्टी	
00308	एम मानिक राज	इंफैंट्री	
00309	प्यार सिंह बिटोइया	इंफैंट्री	
00310	दामोदरन पी	आर्टी	
00312	एच सुकुर	ए ए डी	
00313	विनोद कुमार	ए सी	
00314	लक्ष्मण सिंह भंदर	आर्टी	
00315	विनय गुरंग	मेक इंफैंट्री	
00316	ए सिंगराज	इंफैंट्री	
00317	शंकरानारायनंत	आर्टी	
00319	महेन्द्र सिंह	इंफैंट्री	

00320	गुणाकुर बारिक	ए ओ सी
00324	तरशेम लाल	ए ओ सी
00325	परोतम सिंह	आर्टी
00326	नारायणन ई वी	आर्टी
00327	नरेन्द्र सिंह यादव	ए सी
00328	जी वेतरीवेल मुरुगन	इंफैंट्री
00330	होशियार सिंह	ए एस सी
00331	सुरेश चन्द्र जोशी	इंफैंट्री
00332	यशपाल सिंह	इंफैंट्री
00333	पवन सिंह	ए ए डी
00334	लखविंदर सिंह	इंफैंट्री
00335	तेज बहादुर थापा	इंफैंट्री
00336	महेन्द्र कुमार	ए एस सी
00337	अजय कुमार	ए एस सी
00339	विरेंद्र कुमार शर्मा	इंफैंट्री
00340	नंदा कुमार सी बी	इंफैंट्री
00341	जशवीर सिंह	इंफैंट्री
00342	सुनील कुमार दहिया	ए सी
00343	अक्षय कुमार दास	इंफैंट्री
00344	लक्ष्मण सिंह गुसाईं	इंफैंट्री
00347	रामकृष्ण रंगराव वाघ	ए ओ सी
00349	अजय कुमार सिंह	इंफैंट्री
00350	रमन कुमार	ए एस सी
00352	रमेश चन्द्र	मेक इंफैंट्री
00353	तरशेन लाल शर्मा	आर्टी
00356	गुलाम मोहम्मद खान	इंफैंट्री
00357	गंग बहादुर थापा	इंफैंट्री
00359	किशोरी बंशीलाल	ए एस सी
00361	कुलदीप सिंह	ए एस सी
00362	एस अब्दुल कलुन	ए ओ सी
00365	प्रवता कुमार घाल	इंफैंट्री
00366	के लक्ष्मीनारायण	आर्टी
00369	नंदा बल्लभ	इंफैंट्री
00370	शशी भुषण	इंफैंट्री
00371	जय प्रकाश जोशी	आर्टी

00372	विष्णु कुमार मोर्या	ए ए डी
00373	मैथ्यु के ए	इंफैंट्री
00376	रंधीर सिंह गिल	इंफैंट्री
00380	चाको वी डी	मेक इंफैंट्री
00381	रतन सिंह ठुकरान	इंफैंट्री
00383	मुफती मसुद अहमद	ए सी
00385	कल्याण सुदरम एस	आर्टी
00387	अर्जुन प्रसाद	इंफैंट्री
00389	किशोर कुमार सिंह	इंफैंट्री
00391	सुनील पिल्लई	ए सी
00394	रूप लाल पनहोतरा	ए एस सी

— 09 जून 2014

एस एल सं०	नाम	आर्म	दिनांक से
04822	विक्रम एस धयाल	ए पी टी सी	11 दिसम्बर 2006

शंकर बसु
उप निदेशक
एम एस 8 सी

सेना शाखा

सं. 8, दिनांक 26 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले० कर्नल

आई सी सं०	नाम	आर्म/सर्विसिज
47029	भगत पी कमल	इंफैंट्री

—16 दिसम्बर 2004

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले० कर्नल दिनांक से
53272	जगन्नाथ बी निसोन्को	इंजिनियर्स	21 अक्टूबर 2013
55384	सवालगे विकास बी	ए एस सी	21 अक्टूबर 2013
55737	अनिल कुमार चौहान	ए ओ सी	21 अक्टूबर 2013
56057	एस कुशवाहा	इंफैंट्री	21 अक्टूबर 2013
56261	मन मोहन सिंह	आर्टी	21 अक्टूबर 2013
56268	नीतिन सहाय	आर्टी	21 अक्टूबर 2013
56290	राजीव कुमार	ई एम ई	21 अक्टूबर 2013
56337	प्रवीण जैन	ई एम ई	21 अक्टूबर 2013

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले० कर्नल दिनांक से
56377	गुरमिंदर पाल सिंह	ई एम ई	21 अक्टूबर 2013
56431	कंवलजीत सिंह बाजवा	इंट	21 अक्टूबर 2013
56452	कलींटन रियोबेन	इंफैंट्री	21 अक्टूबर 2013
56484	नीरज कुमार	सिग्नल्स	21 अक्टूबर 2013
56514	वंदना तिवारी	ए ई सी	21 अक्टूबर 2013
57535	अमनदीप सिंह	ए सी	21 अक्टूबर 2013
58414	हरीश चन्द्र पंत	ई एम ई	21 अक्टूबर 2013
58492	मनीष सिंह बिष्ट	इंफैंट्री	21 अक्टूबर 2013
58533	गोविंद आर फरिया	ई एम ई	21 अक्टूबर 2013
59053	मनोज कुमार सिंह	इंजिनियर्स	21 अक्टूबर 2013
59182	ओम प्रकाश मिश्रा	इंफैंट्री	21 अक्टूबर 2013
59259	एस सुनील रेडडी	सिग्नल्स	21 अक्टूबर 2013
59455	दिवाकर कुमार	ए एस सी	21 अक्टूबर 2013
59458	देव कुमार सिंह	इंफैंट्री	21 अक्टूबर 2013
59468	जे नवीन कुमार	आर्टी	21 अक्टूबर 2013
59740	संदीप कुमार	ए एस सी	21 अक्टूबर 2013
59822	दीपक कुमार	ए एस सी	10 जून 2013
59849	टी एन उन्नीकृष्णन	इंफैंट्री	21 अक्टूबर 2013
59857	नरेश कुमार	इंफैंट्री	21 अक्टूबर 2013
59901	सान्तनू दास	सिग्नल्स	10 जून 2013
59915	दीपक डोबरियाल	ए एस सी	21 अक्टूबर 2013
59972	हिमांशु	आर्टी	21 अक्टूबर 2013
60071	अत्रे देवदत्ता प्रभाकर	इंजिनियर्स	21 अक्टूबर 2013
60269	पुनीत शर्मा	इंजिनियर्स	09 दिसम्बर 2013
61253	संजय मलिक	इंजिनियर्स	21 अक्टूबर 2013
61993	के एस सिल्वा कुमार	सिग्नल्स	21 अक्टूबर 2013
64840	आलोक शुक्ला	जैग	04 नवम्बर 2013
64844	शकुम कम्बोज	ई एम ई	04 नवम्बर 2013
64847	वी राय	इंफैंट्री	04 नवम्बर 2013

आई सी सं०	नाम	आर्म	ले० कर्नल दिनांक से
64878	तुशार पारे	इंफैंट्री	04 नवम्बर 2013
64909	पी सुरेश	आर्टी	04 नवम्बर 2013
64931	प्रसाद संतोष कृष्णा	आर्टी	04 नवम्बर 2013
डब्ल्यु एस—00654	एस सहगल	सिग्नल्स	21 अक्टूबर 2013
एस सी—00117	थनकन एम के	इंट	21 अक्टूबर 2013
एस सी—00137	राजिन्दर कुमार शर्मा	इंफैंट्री	21 अक्टूबर 2013
एस सी—00189	योगेन्द्र पाल	इंजिनियर्स	21 अक्टूबर 2013
एस सी—00195	प्रकाश के टी	ए एस सी	21 अक्टूबर 2013
एस सी—00248	हरकेश कुमार	ई एम ई	21 अक्टूबर 2013
एस सी—00272	ग्रेसियन सैक्यूरा	ई एम ई	10 जून 2013
एस सी—00275	जे मैथ्यू	ई एम ई	21 अक्टूबर 2013
एस सी—00277	डी के त्रिपाठी	सिग्नल्स	21 अक्टूबर 2013
एस सी—00288	रधुनाथ सिंह	इंफैंट्री	21 अक्टूबर 2013
एस सी—00296	शाजु टी जे	मेक इंफैंट्री	09 दिसम्बर 2013
59759	वी ए रस्तोगी	इंफैंट्री	10 जून 2013
59961	पवार जयेश मधुकर	ए सी	10 जून 2013
60456	सचिन पाण्डये	इंजिनियर्स	09 दिसम्बर 2013
आई सी—59823	हरतेज पाल सिंह	सिग्नलस	10 जून 2013
आई सी—62477	शिव शंकर सिंह हजारी	इंजिनियर्स	11 जून 2013
एस एल—04542	विक्रम सिंह चिकारा	एस एल बी/आर	21 अक्टूबर 2013
60135	सुनील कुमार	इंजिनियर्स	09 दिसम्बर 2013
60156	अजीत कुमार रेडडी	ई एम ई	09 दिसम्बर 2013
60158	पुनीत चौहान	इंजिनियर्स	09 दिसम्बर 2013
60170	अमनिन्दर सिंह बेंस	इंफैंट्री	09 दिसम्बर 2013
60333	ओमपाल सिंह	ए सी	09 दिसम्बर 2013
60352	कमलेश सिंह राठोर	आर्टी	09 दिसम्बर 2013
60390	ललित मोहन मिश्रा	इंफैंट्री	09 दिसम्बर 2013
60428	उपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	आर्टी	09 दिसम्बर 2013
60465	गगन दीप सिंह	ए एस सी	09 दिसम्बर 2013
62936	मंदर चन्द्रशेखर कोडनीकर	इंजिनियर्स	10 दिसम्बर 2013
62937	रजनीश शुक्ला	इंट	10 दिसम्बर 2013

डब्ल्यू एस सं०	नाम	आर्म	ले० कर्नल दिनांक से
00693	के वी सुधा	इंजिनियर्स	07 मार्च 2014
00702	इंदरजीत कोर	ई एम ई	07 मार्च 2014
00703	अग्रवाल अनुपमा ओमप्रकाश	इंजिनियर्स	07 मार्च 2014
00727	सिमी बशीर	सिग्नलस	07 मार्च 2014
00732	नमरिता वागरे	ई एम ई	07 मार्च 2014
00734	अमरिता सिंह	ई एम ई	07 मार्च 2014
आई सी-64855	आस्था कोटनाला	ए ई सी	02 मार्च 2014

विहग स्नेहल
उप निदेशक
एम एस 8 सी

सेना शाखा

सं. 9, दिनांक 29 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:—

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

कप्तान से मेजर

आई सी सं	नाम	आर्म	मेजर दिनांक से
आई सी — 66535	गुरविन्दर सिंह भाटी	इंजिनियर्स	17 अक्टूबर 2010
आई सी — 66688	संतोश कुमार भरमोरिया	इन्फैन्ट्री	17 अप्रैल 2013
आई सी — 66689	रंजीत सिंह	एसी	17 अप्रैल 2013
आई सी — 66690	चंदन खरयाल	आर्टी	17 अप्रैल 2013
आई सी — 66691	एडविट पटनायक	इन्फैन्ट्री	17 अप्रैल 2013
आई सी — 67973	कुलदीप कुमार डबराल	इन्फैन्ट्री	10 जून 2012
आई सी — 69117	कनाडे अमेय दिलीप	आर्टी	09 जून 2013
आई सी — 69162	अजय बेनीवाल	इन्फैन्ट्री	09 जून 2013
आई सी — 69510	कार्तिक सूद	ए ई सी	09 जून 2013
आई सी — 69658	कार्थिकराज पी	ए एस सी	10 दिसम्बर 2013
आई सी — 69694	सुमंत महाजन	आर्टी	10 दिसम्बर 2013
आई सी — 69748	वरुणेश राव	ए ए डी	10 दिसम्बर 2013
आई सी — 69749	ए चौधरी	इंजीनियर्स	10 दिसम्बर 2013
आई सी — 70015	मो हयात	आर्टी	10 दिसम्बर 2013
आई सी — 70103	मानिक पंवार	मैक इन्फैन्ट्री	10 दिसम्बर 2013
आई सी — 73323	शक्ति पुनिया	इंजीनियर्स	22 अप्रैल 2014
आई सी — 73331	राजेन्दर सिंह फर्तयाल	इंजीनियर्स	22 अप्रैल 2014
आई सी — 73432	अमित भारद्वाज	आर्टी	22 अप्रैल 2014
एस एस — 42695	तिवारी संदीप कुमार श्रीराम	इंजीनियर्स	22 अप्रैल 2014
एस एस — 42728	आशुतोष रावत	इंजीनियर्स	22 अप्रैल 2014
एस एस — 42810	रूपेश चक्रवर्ती	इंजीनियर्स	22 अप्रैल 2014

आई सी सं	नाम	आर्म
70182	वैभव सिन्हा	ए सी
70183	रुद्र प्रताप सिंह राणा	इंफैन्ट्री
70185	दीपक चंद्र झा	ए ओ सी
70186	लेकेश शुक्ला	इंफैन्ट्री
70187	राजा जी	इंफैन्ट्री
70188	संदीप करवासरा	इंफैन्ट्री
70189	टी शेकर	इंजीनियर्स
70190	अवनीश कुमार पायल	ए ए डी
70191	उमेश फलसवाल	ए एस सी
70192	राजेन्दर कुमार	इंजीनियर्स
70193	निखिल मोहन	मैक
70194	सुमीत भारद्वाज	सिग्नल्स
70195	अमित खारे	आर्टी
70196	विकास	इंफैन्ट्री
70197	संदीप कुमार पुनिया	इंफैन्ट्री
70198	निरज कुमार सिंह	इंफैन्ट्री
70199	विकास कुमार रेवार	आर्टी
70200	निसाल राहुल तुकाराम	आर्टी
70201	नय्यर सिद्दिकी	आर्टी
70202	दिनेश यादव	इंफैन्ट्री
70203	शिवम गोस्वामी	मैक
70204	विवेकबाला बी	आर्टी
70205	करमजीत सांगवान	ए सी
70206	सूरज सिन्हा	इंजीनियर्स
70207	अरुणकुमार नामादेव बानासोदे	इंफैन्ट्री
70208	कपिल कुमार	ई एम ई
70209	भूपेन्द्र त्यागी	इंफैन्ट्री
70210	प्रदीप पुनिया	इंफैन्ट्री
70211	अवध गुंजन	इंफैन्ट्री
70212	सुनिल कुमार	आर्टी
70213	प्रशांत सिंह बघेल	इंफैन्ट्री
70214	शिवेश तिवारी	इंफैन्ट्री
70215	नवीन कुमार	ए ए डी

आई सी सं	नाम	आर्म
70216	प्रशांत चन्नप्पा मुराल	आर्टी
70217	काने हर्षद सुरेश	आर्टी
70218	प्रवीण पी के	इंफैन्ट्री
70219	सिद्धार्थ सिंह	इंफैन्ट्री
70220	आदित्या शर्मा	ए सी
70221	हिमाशु भंडारी	आर्टी
70222	आशीष रंजन	आर्टी
70223	राजू मंडल	इंफैन्ट्री
70224	अभिषेक कुमार	इंफैन्ट्री
70225	नितिन सेहरावत	इंफैन्ट्री
70226	गुरभेज सिंह	आर्टी
70227	राजेश कुमार	आर्टी
70228	सत्येन्द्र पांडे	आर्टी
70229	अभिषे सिन्हा	इंफैन्ट्री
70230	राजीव यादव	ई एम ई
70231	अश्विन एस	आर्टी
70232	पुलीन उपमन्यु	ए सी
70233	श्याम किशोर द्विवेदी	आर्टी
70234	योगेश कुमार	ए ओ सी
70235	सात्विक पतजोशी	आर्टी
70236	अभिषेक सिंह गोबरी	सिग्नल्स
70237	प्रफुल कुमार भारद्वाज	इंफैन्ट्री
70238	अंकुश राणा	आर्टी
70239	सुनील कुमार फोगट	ए ओ सी
70240	सिद्धार्थ यादव	इंजीनियर्स
70242	मनोज कुमार	ए एस सी
70243	राहुल मंडल	आर्टी
70244	राजीव कुमार	मैक
70245	पंकज बिष्ट	इंफैन्ट्री
70246	कुशाग्र अरोडा	मैक
70247	संगम कुमार	इंफैन्ट्री
70248	प्रशांत भट	आर्टी
70249	शुभम त्रिपाठी	आर्टी

आई सी सं	नाम	आर्म
70250	प्रवीण कुमार सोंकर	इंजीनियर्स
70251	करन लांग	आर्टी
70252	विक्रमजीत सिंह खन्ना	इंफैन्ट्री
70253	आलोक कुमार	इंफैन्ट्री
70254	अंकित सक्सेना	आर्टी
70255	सुजीत कुमार स्वैन	आर्टी
70256	साना पवन कुमार	आर्टी
70257	हृदय कान्त भारद्वाज	इंफैन्ट्री
70258	सोमेन्द्र कुमार	इंफैन्ट्री
70259	सुराम सिंह	इंफैन्ट्री
70260	आषीश शर्मा	आर्टी
70261	हरविन्दर सिंह चीमा	आर्टी
70262	दीपक चौहान	ए सी
70263	संदीप कुमार यादव	इंफैन्ट्री
70264	अजय कांत भदौरिया	ए एस सी
70265	गौरव जुनेजा	ई एम ई
70266	हर्ष भटनागर	ए ए डी
70269	अमन कुमार	मैक
70270	मंदन ओझा	इंफैन्ट्री
70271	गनेश आर	इंफैन्ट्री
70272	हरेन्दर सिंह रौतेला	इंजीनियर्स
70273	विकास सिंह दाहिया	सिग्नल्स
70274	निरज मेहता	इंफैन्ट्री
70275	अविनाश कुमार	इंफैन्ट्री
70276	हर्षल दनियानदेव बोरोले	इंफैन्ट्री
70277	शुभम लखेरा	इंफैन्ट्री
70278	तथागत होता	ए ए डी
70279	कुलदीप सिंह मनोला	इंफैन्ट्री
70280	पाटिल कृष्णा तुकाराम	इंजीनियर्स
70281	विजय कुमार पांडे	आर्टी
70282	सूर्यनारायण पात्रा	इंफैन्ट्री
70283	नीरज सिंह बघेल	आर्टी
70284	किशोर कुमार सिंह	ए सी

आई सी सं	नाम	आर्म
70285	विनोद गुरुंग	ए ओ सी
70286	चिलवाल मोहित पानसिंह	आर्टी
70287	अमृतपाल सिंह	इंफैन्ट्री
70288	जैकब पनिक्कर एम	इंफैन्ट्री
70289	नीतिन बाबू एस	आर्टी
70290	शैलेश थापा	मैक
70291	राहुल कटियार	इंफैन्ट्री
70292	अरविन्तन के एस	इंफैन्ट्री
70293	अंकित त्यागी	आर्टी
70294	हिमांशु पांडे	ए एस सी
70295	अमित कुमार मलिक	इंजीनियर्स
70296	मनीष पोखरिया	इंफैन्ट्री
70297	राजेश कुमार	आर्टी
70298	मनोज मथपाल	इंफैन्ट्री
70299	सौम्य रंजन पाती	इंफैन्ट्री
70300	अभिनव शर्मा	ए ओ सी
70301	बिजेन्द्र प्रसाद सिंह	आर्टी
70302	हेमंत कुमार	ए ओ सी
70303	गगन जेटली	इंफैन्ट्री
70304	आतिश रंजन	ए ए डी
70305	आनंद सिंह	आर्टी
70306	ब्रिजपाल सिंह विर्क	ए सी
70307	तरुण कालाकोटी	सिग्नल्स
70308	प्रशांत अग्रवाल	ई एम ई
70309	वेंकट सुधीर बाबू पी	इंफैन्ट्री
70310	करन ठाकुर	इंजीनियर्स
70311	किरण नायर	इंफैन्ट्री
70312	अनिमेश मंडल	आर्टी
70313	पवन शर्मा	ई एम ई
70314	अंशित श्रीवास्तवा	आर्टी
70315	सिद्धार्थ भारद्वाज	आर्टी
70316	पवन कुमार जयसवाल	इंफैन्ट्री
70317	आशीष नेगी	ई एम ई

आई सी सं	नाम	आर्म
70318	रोहन कन्हाई	आर्टी
70319	के प्रवीण कुमार	इंफैन्ट्री
70320	मनीष भंडारी	इंफैन्ट्री
70321	शर्मा समरकान्त राजनीकांत	इंफैन्ट्री
70322	आशीष सिंह	मैक
70323	पंकज कुमार यादव	ए ओ सी
70324	विनीत कुमार चेत्री	ए एस सी
70325	प्रदीप कुमार सांगवान	इंफैन्ट्री
70326	मोहम्मद करम अब्बासी	ए ए डी
70327	अमित सरन आनंद	इंफैन्ट्री
70328	दिनेश कुमार एस	इंजीनियर्स
70329	सुनील कुमार धनकड़	ए सी
70330	मो नूरुद्दिन अहमद	इंफैन्ट्री
70331	राहुल राणा	इंफैन्ट्री
70332	दिग्विजय पटानिया	ए सी
70333	अवधेश सिंह	इंफैन्ट्री
70334	अभिषेक दत्ता	आर्टी
70335	अमृत कुमार साव	इंफैन्ट्री
70336	तायो च्युम तयुम	इंफैन्ट्री
70337	दलजीत सिंह	इंफैन्ट्री
70338	वैभव अम्माना रायानाडे	सिग्नल्स
70340	अभिजीत प्रकाश पवार	ए सी
70341	प्रशांत कुमार	इंफैन्ट्री
70342	अनिर्बन घोष	आर्टी
70343	निरज कुमार	इंफैन्ट्री
70344	नवोम चौहान	इंफैन्ट्री
70345	गौरव सिंह राघव	इंजीनियर्स
70346	ब्रिजेश थपलियाल	इंफैन्ट्री
70347	हिमांशु पंत	आर्टी
70348	पंकज शर्मा	आर्टी
70349	रोहित रंजन	इंफैन्ट्री
70351	प्रेम राज सिंह	ए सी
70352	जिजेश के पी	ए सी

आई सी सं	नाम	आर्म
70353	अमरदीप सिंह देहल	इंजीनियर्स
70354	सुमित जोशी	मैक
70355	अमरदीप सिंह गिल	इंफैन्ट्री
70356	रजत भाटिया	इंफैन्ट्री
70357	दीपक जोशी	आर्टी
70358	मुकुल जेठवानी	आर्टी
70359	धामी चंदर शेखर	ए ओ सी
70360	शिव कुमार सांगवान	इंफैन्ट्री
70361	प्रणय काला	आर्टी
70362	श्रीनिवास गुरुराज वैद्य	इंफैन्ट्री
70363	प्रेम सिंह	आर्टी
70364	अतुल सिंह	इंफैन्ट्री
70365	विकल्प चनाना	आर्टी
70366	रोहित लियोनिल रस्किन्ह	ए सी
70367	मनोज राठी	इंफैन्ट्री
70369	आदित्या ठाकुर	इंफैन्ट्री
70370	संजीव बालियान	इंफैन्ट्री
70371	निरज भाषी	ए ए डी
70372	रविन्दर सिंह पुंडीर	इंजीनियर्स
70373	नितिन कुमार	इंफैन्ट्री
70374	नवीन कुमार शर्मा	आर्टी
70375	दीपक बदोनी	इंजीनियर्स
70376	अंकुर माथुर	इंफैन्ट्री
70377	अमित कुमार	ए सी
70378	मुथु कृष्णन यू	इंफैन्ट्री
70379	चंद्र प्रकाश	इंफैन्ट्री
70380	सुमित छाबरा	आर्टी
70381	शिशिर शुक्ला	इंफैन्ट्री
70382	आलोक प्रसाद	ए ओ सी
70383	राजेन्द्र सिंह नेगी	इंफैन्ट्री
70384	कुलदीप कुमार शर्मा	आर्टी
70386	उदय रंजन	ए ओ सी
70387	चिकाने अखिल युवराज	मैक

आई सी सं	नाम	आर्म
70388	अजय विक्रम सिंह	इंफैन्ट्री
70389	अंकित चतुर्वेदी	आर्टी
70390	तखेल्लमबम सेंगोई सिंह	इंफैन्ट्री
70391	रोहित कुमार मिश्रा	आर्टी
70392	मयंक पुन	आर्टी
70393	पंकज भट्ट	आर्टी
70394	जंग बहादुर छत्री	आर्टी
70395	विराज सुनील कांबले	सिग्नल्स
70396	कमलेश कुमार	इंफैन्ट्री
70398	उदय सिंह राणा	इंफैन्ट्री
70399	गजय सिंह तनवर	इंफैन्ट्री
70400	मुदालियार रोहन जगदीश	ए ए डी
70401	विपुल सिंह परिहार	इंफैन्ट्री
70402	एम एस मनुराज	आर्टी
70403	अमित विजय माने	इंफैन्ट्री
70405	जितेन्द्र तोमर	आर्टी
70406	सोनू राय	ए ओ सी
70407	रोहित शर्मा	इंफैन्ट्री
70408	जय किशन नारंग	ए ओ सी
70409	बिरेन्द्र सिंह	आर्टी
70410	स्वपनिल पोपटराव जेन्डे	आर्टी
70411	स्विन्दर सिंह	मैक
70412	रमेश कुमार शर्मा	ई एम ई
70413	अमन दीप सिंह	इंफैन्ट्री
70414	एम एस अरुण	ए सी
70415	अंशुल असवाल	ए ओ सी
70416	अजय कुमार शर्मा	ए सी
70417	विक्रम सिंह शेखावत	ए ए डी
70418	बशीम अहमद	आर्टी
70419	सरबजीत सिंह	आर्टी
70420	दुर्गोश चंद्र गौर	इंजीनियर्स
70421	पुष्पेन्द्र कुमार सिंह	आर्टी
70422	प्रियांशु गोयल	आर्टी

आई सी सं	नाम	आर्म
70423	अविनाश ललानिया	इंफैन्ट्री
70424	राहुल शर्मा	आर्टी
70426	करण शर्मा	मैक
70427	स्वतंत्र सिंह कश्यप	इंफैन्ट्री
70428	वरुण खजुरिया	इंफैन्ट्री
70429	शिरिश अशोक सायंकर	इंफैन्ट्री
70430	नितेश तेओतिया	सिग्नल्स
70431	सुधांशु मिश्रा	आर्टी
70432	वैभव विशेष	इंफैन्ट्री
70433	नितिन नरुला	इंजीनियर्स
70434	सतेन्द्र सिंह	इंट
70435	निकेतन सिंह	ए ओ सी
70436	पंकज शर्मा	ए ए डी
70437	कर्णवीर राजावत	ए एस सी
70438	बीरेश्वर रे	इंफैन्ट्री
70439	विकास कुमार	आर्टी
70440	सव्यसाची खेती	मैक
70441	आकाश कुमार	ए एस सी
70442	गौरव सिंह	आर्टी
70443	शिवम पांडे	आर्टी
70444	सुदीप सिंह कंवर	ई एम ई
70445	कन्नाओ स्वपनिल शुधाकर	इंफैन्ट्री
70446	प्रमोद कुमार प्रसाद	इंफैन्ट्री
70447	प्रवीण कुमार सिंह	आर्टी
70448	शशि कुमार झा	इंफैन्ट्री
70449	चंदर प्रकाश सिंह	इंफैन्ट्री
70450	कपिसथालम जी गौतम	इंजीनियर्स
70451	सौरभ सिंह कथैत	इंफैन्ट्री
70452	नितिन कुमार	ए सी
70453	संदीप कुमार	इंफैन्ट्री
70454	सुभाष भाकल	इंफैन्ट्री
70455	ठाकुर सूरज प्रकाश	इंफैन्ट्री
70456	युवराज सिंह	इंफैन्ट्री

आई सी सं	नाम	आर्म
70457	अमित मधुकर	ए एस सी
70458	स्वरूप पी	आर्टी
70459	जगदीप कुमार वशिष्ट	इंफैन्ट्री
70460	अर्जुन कुमार बुतोला	इंफैन्ट्री
70461	नील कांत स्वरूप सकसेना	ए ओ सी
70462	सागर पद्माकर जोशी	इंट
70463	सतावलेकर श्रीनिवास सुरेश	इंफैन्ट्री
70464	वरुण कुमार	इंजीनियर्स
70465	विरेन्द्र सिंह चौहान	इंफैन्ट्री
70466	अजित सिंह राठोर	इंफैन्ट्री
70467	जुबीन सोलंकी	इंफैन्ट्री
70468	पोनप्पा एन एन	ए ओ सी
70469	रिषभ श्रीवास्तवा	इंफैन्ट्री
70470	खडका उपेन्द्र खडक	इंफैन्ट्री
70471	गौरी शंकर पांडे	इंजीनियर्स
70472	राहुल	आर्टी
70473	प्रेम अनंत जे	आर्टी
70474	अनुज शर्मा	ए सी
70476	मानस दास	सिग्नल्स
70477	तुषार मेनन	इंफैन्ट्री
70478	राकेश कुमार	इंफैन्ट्री
70479	सौरभ सिंह बोरा	आर्टी
70480	प्रशांत कुमार	इंफैन्ट्री
70481	मंदीप साव	इंफैन्ट्री
70482	पलविन्दर सिंह मनहास	इंफैन्ट्री
70484	वैभव अग्रवाल	इंफैन्ट्री
70485	गगनदीप सिंह	ए एस सी
70486	वैभव साह	इंफैन्ट्री
70487	महेन्दर कुमार	सिग्नल्स
70488	अमित दुग्गल	ए सी
70489	विक्रांत शर्मा	इंफैन्ट्री
70490	आयुष खत्री	इंफैन्ट्री
70491	संतोष साहेबराव घाडगे	ई एम ई

आई सी सं	नाम	आर्म
70492	अनुवंश रावत	इंफैन्ट्री
70494	राजिन्दर सिंह	आर्टी
70495	मो इर्शाद खान	मैक
70496	हर्षेन्दु जयचंद	ए सी
70497	गुरपाल सिंह गिल	ए एस सी
70498	महादेव सिंह राठौर	ए सी
70499	साहेन्दर कुमार	इंफैन्ट्री
70500	पठानिया मुकुल रघु	इंफैन्ट्री
70501	संजीव शर्मा	मैक
70502	अमित शाह	इंजीनियर्स
70503	अंशुमान भारद्वाज	आर्टी
70504	आशुन रेधू	इंफैन्ट्री
70505	संदीपराहा रॉय	ए ओ सी
70506	आदित्या बेनीवाल	ए ए डी
70507	सयान्तन दास	आर्टी
70508	हिमांशु पांडे	आर्टी
70509	मनीष कुमार सिंह	इंफैन्ट्री
70510	महुली ओमकार मोहन	आर्टी
70511	दीपक सिंह	इंजीनियर्स
70512	सिद्धार्थ पांडे	आर्टी
70513	लव श्रीवास्तवा	आर्टी
70514	रवि भूषण	इंफैन्ट्री
70515	वरुण कुमार देवरानी	आर्टी
70516	कमल किशोर	आर्टी
70517	अंकोलेकर प्रशांत कृष्णा	आर्टी
70518	शशि भूषण सिंह	ई एम ई
70519	मो फजल हक	आर्टी
70520	मनीष कुमार	इंफैन्ट्री
70521	अभिषेक कुमार सिंह	ए सी
70522	मयंक दलाल	सिग्नल्स
70523	केसर प्रसाद राय	इंफैन्ट्री
70524	सुखप्रीत सिंह सलुजा	इंजीनियर्स
70525	विश्वामित्र कुशवाहा	आर्टी

आई सी सं	नाम	आर्म
70526	रोहित जतैन	इंफैन्ट्री
70527	अजय कुमार	मैक
70528	प्रांजल एस पारादकर	इंफैन्ट्री
70529	दिवाकर शर्मा	ए सी
70530	हिमांशु बिष्ट	इंफैन्ट्री
70531	मनोज कुमार सिंह	ए ए डी
70532	के सचीन सिंहा	आर्टी
70533	विशाल गोयल	आर्टी
70534	तुलसी शंकर के	ए एस सी
70536	अभिजीत देवरी	इंफैन्ट्री
70537	सुनील कुमार	इंफैन्ट्री
70538	अनुराग कुमार गुप्ता	मैक
70539	ददा संतोष कुमार	इंफैन्ट्री
70540	प्रशांत यादव	इंफैन्ट्री
70541	दोंगरे अमेय अनिल	आर्टी
70542	राकेश रौशन	इंफैन्ट्री
70543	मोहन सिंह राठोर	इंफैन्ट्री
70544	सोमनाथ मिश्रा	इंफैन्ट्री
70545	अश्वनी कुमार झा	इंफैन्ट्री
70546	जनार्दन शर्मा	इंफैन्ट्री
70547	सुदीप कृष्णा	आर्टी
70548	शशांक कुमार भारद्वाज	इंफैन्ट्री
70549	ताओरम बिरजीत कुमार	इंफैन्ट्री
70550	कबरा अतुल अरविंद कुमार	आर्टी
70551	दीपू मूलाइल	ई एम ई
70552	रविन्द्र सिंह राजपूत	आर्टी
70553	अनिरुद्ध धनकर	इंफैन्ट्री
70554	मोहित सक्सेना	ए ओ सी
70555	कबीर दत्त	ए सी
70556	उदय पांडुरंग बरोते	आर्टी
70557	सौरभ बनर्जी	आर्टी
70558	जीतू सिंह चौहान	ए ओ सी
70559	निरज कुमार	इंफैन्ट्री

आई सी सं	नाम	आर्म
70560	विवेक चतुर्वेदी	इंफैन्ट्री
70561	प्रशांत रावत	इंफैन्ट्री
70562	राकेश मलहोत्रा	ए ओ सी
70563	शिवयोगी शिवराज पाटिल	ई एम ई
70564	मनोज परमार	इंफैन्ट्री
70565	पुलकितेन्द्रकर सिंह	आर्टी
70566	आषीश कुकरेती	आर्टी
70567	भूपेन्द्र सिंह छिकारा	इंफैन्ट्री
70568	विश्वेश कुमार मिश्रा	ए सी
70569	आशीष महाजन	आर्टी
70570	विगनेश जगदाले जी	इंजीनियर्स
70571	बिनोद कुमार सिंह	इंफैन्ट्री
70572	दीपक सेनी	इंफैन्ट्री
70573	प्रदीप सिंह	ए सी
70574	हंस राज सिंह	मैक
70575	मयंक शर्मा	इंफैन्ट्री
70576	कंवल प्रीत	इंफैन्ट्री
70577	शुभम त्रिपाठी	आर्टी
70579	विश्व बंधू शर्मा	इंजीनियर्स
70580	अभिजीत बनर्जी	सिग्नल्स
70581	जीतेन्द्र वर्मा	मैक
70583	कुमार गौरव	इंफैन्ट्री
70584	गैरी मैथ्यू	इंफैन्ट्री
70585	शोभित अवस्थि	इंजीनियर्स
70586	आलोक मेहता	ए ए डी
70587	रोशन फ्रांसिस अलापत	इंफैन्ट्री
70588	विपुल कुमार	आर्टी
70589	विकास मिश्रा	आर्टी
70590	रितेश बाजपेई	इंफैन्ट्री
70591	ललेश कुमार सिंह	इंफैन्ट्री
70592	राहुल यादव	इंजीनियर्स
70593	डेनिस	ई एम ई
70594	प्ररित कपूर	ए ओ सी

आई सी सं	नाम	आर्म
70595	अक्षय घोडपडे	इंफैन्ट्री
70596	संदीप कुमार	ए ओ सी
70598	विष्णु आर चिक्कोरदे	आर्टी
70599	संतोष कुमार सिंह	ए एस सी
70600	रविश दुआ	आर्टी
70601	नितिन कुमार चौधरी	ए ओ सी
70602	सुतार अलौकिक विजय	इंजीनियर्स
70603	अवनीश गोस्वामी	मैक
70604	मंगेश रघुनाथ देशमुख	इंजीनियर्स
70605	संदीपन डे	आर्टी
70606	जय नैथानी	सिग्नल्स
70607	राहुल श्रीवास्तवा	ई एम ई
70608	कुलदीप सिंह नागरा	सिग्नल्स
70609	आनंद झा	आर्टी
70610	आदित्या प्रकाश मौर्या	ई एम ई
70611	विक्रम शाही	इंफैन्ट्री
70612	पुष्पेंद्र नाथ घोष	इंजीनियर्स
70613	राजन सिंह	ई एम ई
70614	मराठे अक्षय अरुण	आर्टी
70615	इकबालजीत सिंह ढिल्लन	इंफैन्ट्री
70616	संजय कुमार यादव	इंजीनियर्स
70617	मोहित अरोडा	ए एस सी
70618	वी संदीप	इंफैन्ट्री
70619	सुधीर रंजन बेहेरा	इंफैन्ट्री
70620	विभोर जैन	इंजीनियर्स
70621	शैलेश अनिल जोशी	आर्टी
70622	प्रतीक मेहता	इंजीनियर्स
70623	आशीष छिकारा	ए एस सी
70624	माने स्वपनिल सतीष	ई एम ई
70625	शेखर ओहलान	ए सी
70626	अंकित अग्रवाल	ए ए डी
70627	गौरव ठाकुर	ई एम ई
70628	सूरज पाल	इंफैन्ट्री

आई सी सं	नाम	आर्म
70629	सुमित कुमार	आर्टी
70630	विवेक सिंह चौहान	सिग्नल्स
70631	भावी कुलश्रेष्ठा	इंफैन्ट्री
70632	विक्रमादित्य सिंह	ए सी
70633	नितेश भारद्वाज	सिग्नल्स
70634	रोहित चुध	ई एम ई
70635	झा अभिषेक कुमार	मैक
70636	रामाकांत यादव	ए सी
70637	मानस वाजपेयी	सिग्नल्स
70638	समरत सिंह ढिंडसा	आर्टी
70639	विनय गुप्ता	इंजीनियर्स
70640	सौरभ गोस्वामी	इंफैन्ट्री
70641	वरुण सेगन	ए सी
70642	प्रतीक सिंह चौहान	इंफैन्ट्री
70643	अमल साली	इंफैन्ट्री
70644	संजीव महापात्रा	आर्टी
70645	आर कृष्णा चैतन्या	इंफैन्ट्री
70647	लेकेश अहलावत	आर्टी
70648	रुचित सिंह	इंफैन्ट्री
70649	प्रशांत ललोत्रा	इंजीनियर्स
70650	शलभ सक्सेना	ए ए डी
70651	एस हर्षवर्धनन	ए ओ सी
70652	सौगात नंदी	सिग्नल्स
70653	पी आदित्या दीपक	इंजीनियर्स
70654	मुरलीकृष्णा के	ए सी
70655	आनंद वर्धन	इंजीनियर्स
70656	अंशुल बहल	ई एम ई
70657	श्याम जी मिश्रा	ए ओ सी
70658	लैचोमबम मनीसाना सिंह	इंट
70659	प्रदीप कुमार	आर्टी
70661	भास्कर सिंह	आर्टी
70662	विनय चंदशेखर करगुदरी	ई एम ई
70664	कार्तिक एम	इंफैन्ट्री

आई सी सं	नाम	आर्म
70665	चवन राहुल विष्णु	इंफैन्ट्री
70666	इंद्र प्रताप सिंह	ए सी
70667	ए रियाज खान	आर्टी
70668	नितिन रविन्द्रन	सिग्नल्स

—07 जून 2014

72683	अमानत जगजीत सिंह	ए सी
72684	डी कृष्ण कुमार	इंजीनियर्स
72685	मनिकान्दन एम	ए सी
72686	वैकार आनंद दीपक	ई एम ई
72687	बानाहट्टी करण सिंह	इंजीनियर्स
72688	राहुल देव ए	आर्टी
72689	अभयजीत मेहलावत	सिग्नल्स
72690	देबमल्य मुखर्जी	आर्टी
72691	अनुभव पंत	इंफैन्ट्री
72692	रिषि आर	मैक इंफैन्ट्री
72694	सिमान्त कमल दत्ता	ए ए डी
72695	जगदीश शेठेप्पा नंदिहल	इंजीनियर्स
72696	तिलानी निमेश चिमनलाल	इंजीनियर्स
72697	अतुल थापा	सिग्नल्स
72699	भव्या सिंह सिसोदिया	ई एम ई
72700	सिमरत पाल सिंह थिंड	ई एम ई
72701	अनुज सिंह चौहान	इंजीनियर्स
72702	अंकुर श्रीवास्तवा	सिग्नल्स
72703	सिमरनजीत सिंह	ई एम ई
72704	ऋषभ यादव	सिग्नल्स
72706	नितेश कुमार सांगवान	ए ओ सी
72707	करन वासुदेव	आर्टी
72708	गौरव मित्तल	सिग्नल्स
72709	संजीव सिंह	ई एम ई
72710	दिनश कुमार यादव	ई एम ई
72711	राज कुमार	ई एम ई
72712	अंकित सिंह रावत	ई एम ई
72713	एम दीपक	ई एम ई

आई सी सं	नाम	आर्म
72714	बिरेन्द्र सिंह	इंजीनियर्स
72715	हरप्रीत सिंह लिह्र	इंजीनियर्स
72716	आदित्य कौशिक	सिग्नल्स
72717	रवि जामवाल	ई एम ई
72718	मंजुल राज	इंजीनियर्स
72719	निखिल शर्मा	ई एम ई
72720	सचिन धिमन	ई एम ई
72721	रविन्दर सिंह जोधा	ए एस सी
72722	बिभूती भूषण बोरबोरुआ	इंजीनियर्स
72723	रविन्द्र सिंह माहला	इंजीनियर्स
72724	उदित चतुर्वेदी	सिग्नल्स
72725	दुर्गा प्रसाद मिश्रा	सिग्नल्स
72726	सतनाम सिंह	इंजीनियर्स
72727	अभिनव शर्मा	इंजीनियर्स
72728	प्रनो रॉबर्ट	इंजीनियर्स
72729	श्याम बिहारी त्रिपाठी	सिग्नल्स
72730	मोहित	ए ओ सी
72731	शैलेन्द्र सेवाल	सिग्नल्स
72732	ऋषभ सूद	सिग्नल्स
72733	संकल्प डोगरा	सिग्नल्स
72734	अभिनव चौहान	इंजीनियर्स
72735	दिलदीप सिंह चहल	ए सी
72737	विकास कुमार श्रीवास्तवा	इंजीनियर्स
72738	मयंक माथुर	इंजीनियर्स
72739	अमित कुमार झा	ई एम ई
72740	अनिमेश दुबे	सिग्नल्स
72741	तपन सोढी	ई एम ई
72742	सुशांत द्विवेदी	सिग्नल्स
72743	दीपक बोहरा	मैक इंफैन्ट्री
72744	कुमार अमित यादव	सिग्नल्स
72745	थिम्मैया आई बी	इंजीनियर्स
72746	नागेन्द्र प्रताप सिंह	इंजीनियर्स
72747	अमिष थम्पी जॉन	ई एम ई

आई सी सं	नाम	आर्म
72748	हर्षवर्धन सिंह सलाथिया	सिग्नल्स
72749	राधवेन्द्र प्रसाद जी एम	ई एम ई
72750	सैयद नजीम मेहदी	ए ए डी
72751	रोशन वर्मा	इंजीनियर्स
72752	साकेत झा	मैक इंफैन्ट्री
72753	कुलदीप कुमार	इंजीनियर्स
72754	अंकुश शर्मा	ए सी
72755	गुरप्रीत सिंह फेंग	ए ए डी
72756	सुचित पांडे	इंजीनियर्स
72758	भारत मोहन	इंफैन्ट्री
72759	सचिन सिंह रावत	इंफैन्ट्री
72760	यशवंत सुहाग	ई एम ई
72761	अभय कुमार सिंह	सिग्नल्स
72763	अतुल परासर	इंजीनियर्स
72764	गौरव कठैत	आर्टी
72765	शिशिर मकवाना	इंजीनियर्स
72766	नवनीत गोपीनाथन	ई एम ई
72767	अभाष शर्मा	ई एम ई
72768	देपिन्दर धनजल	सिग्नल्स
72770	हरि शंकर आर नायर	सिग्नल्स
72771	अभय सिरोही	ई एम ई
72772	जेरिन मार्टिन	ए ए डी
72773	क्रांति कनाल	आर्टी
72774	शेखर कुमार	इंजीनियर्स
72775	यजुवेन्द्र कुमार गौतम	इंजीनियर्स
72776	रत्तन भंडारी	इंजीनियर्स
72777	मनीष मखलोगा	ए ए डी
72778	भृगू व्यास पात्रो	ए एस सी
72779	विरेन्दर चौधरी	इंजीनियर्स
72780	अभिमन्यु महाजन	ई एम ई
72781	ओंकार उदय भडमडे	इंजीनियर्स
72782	अरुण पुंडिर	ई एम ई
72784	अंकुर त्यागी	ई एम ई

आई सी सं	नाम	आर्म
73318	कनिष्का गौर	इंफैन्ट्री
73319	आशुतोष त्रिपाठी	इंट
73320	नवीन निरोलाण एस सी	इंफैन्ट्री
73321	अमृतपाल सिंह औलख	इंफैन्ट्री
73322	अजीत पाल सिंह	इंफैन्ट्री
73324	जर्सन जॉर्ज	ए ए डी
73327	एस शक्ति कोमहान	आर्टी
73328	टिकेन ओइनम	इंफैन्ट्री
73330	इंद्रजीत गोथवाल	इंफैन्ट्री
73332	धर्मेद्र सिंह चौहान	इंफैन्ट्री
73333	समीर कौशल	इंफैन्ट्री
73334	अनिल उर्स	इंफैन्ट्री
73336	चुंग थुंग जमाथिया	इंजिनियर्स
73337	कडक स्वपनिल अनिल	इंफैन्ट्री
73338	शक्ति सिंह नेगी	इंजिनियर्स
73339	दीपक चौधरी	आर्टी
73340	संदीप सिंह डढवाल	इंफैन्ट्री
73341	दीपक समबरिया	इंफैन्ट्री
73342	विपुल नारायण	इंफैन्ट्री
73343	अभय गुप्ता	इंफैन्ट्री
73344	सरताज गुलेरिया	आर्टी
73345	तुषार शर्मा	ए सी
73346	नितिन कुमार तिवारी	इंफैन्ट्री
73347	पुष्प राज	इंफैन्ट्री
73348	प्रदीप यू के	इंफैन्ट्री
73349	सुर्य प्रताप सिंह	आर्टी
73350	सिद्धांत छिब्वर	इंफैन्ट्री
73353	प्रभात उनियाल	सिगन्ल्स
73354	मनीष कुमार	इंफैन्ट्री
73355	अमन कुमार नैन	इंफैन्ट्री
73356	शिवेन्द्र सिंह	इंफैन्ट्री
73358	रिज्वाइस फाओमी	इंफैन्ट्री
73360	सन्नी गुसाई	इंफैन्ट्री

आई सी सं	नाम	आर्म
73361	मनोज जोशी	इंफैन्ट्री
73362	परमजीत सिंह	सिगन्ल्स
73363	पनीक्कर शिवाकुमार उन्नीकृष्णन	इंफैन्ट्री
73364	समरजीत	इंफैन्ट्री
73365	विनायक अय्यर	इंफैन्ट्री
73366	भानु प्रताप सिंह	इंफैन्ट्री
73367	मोहित कुमार बंसल	इंफैन्ट्री
73368	अमित चौधरी	इंफैन्ट्री
73369	शिशिर शेटी	ई एम ई
73370	मनोज कुमार संखायन	इंफैन्ट्री
73372	सिलस सिंजली	ए ओ सी
73374	शोजाब रहमान	इंफैन्ट्री
73375	विशाल छेत्री	इंफैन्ट्री
73376	प्रवेश शाह	इंफैन्ट्री
73378	नवनीत सिंह	इंफैन्ट्री
73379	लोकेन्द्र सिंह	आर्टी
73382	दीपक कुमार बिष्ट	इंफैन्ट्री
73385	अरुण जॉर्ज अब्राहम	इंफैन्ट्री
73387	हरिश यादव	इंफैन्ट्री
73389	नितिन सलाथिया	इंफैन्ट्री
73392	अनुपम यादव	आर्टी
73393	सरोज कुमार बैठा	ए एस सी
73394	झा अमितकुमार भोगरा	सिगन्ल्स
73395	थ्युंग शतसंग	इंफैन्ट्री
73396	प्रणीत सिंह	इंफैन्ट्री
73398	करनवीर साहदरा	इंफैन्ट्री
73399	सनमीत सिंह ग्रेवाल	ए सी
73400	विजय सिंह	जैग
73401	आदित्य कपिला	ए ए डी
73402	नितिन शर्मा	ए ओ सी
73403	गोविन्द सिंह	आर्टी
73405	अर्जुन शर्मा	आर्टी
73406	हिमांशु कुमार	इंफैन्ट्री

आई सी सं	नाम	आर्म
73408	अमित सिंह	आर्टी
73409	कोम्माराजू अविनाश राव	इंफैन्ट्री
73410	नितेश कटवाल	इंफैन्ट्री
73411	राजेश मलिक	आर्टी
73412	सुमैल अहमद सिद्दिकी	ए सी
73413	प्रितोम चौधरी	इंफैन्ट्री
73414	राकेश आर कृष्ण एस सी	इंफैन्ट्री
73415	आफताब मंसूरी	आर्टी
73416	रविन्दर कुमार	इंफैन्ट्री
73419	सुन्दर सिंह	इंफैन्ट्री
73420	अभिषेक शुक्ला	इंफैन्ट्री
73421	दीपक शर्मा	इंफैन्ट्री
73423	जितेन्दर कुमार सिंह	इंफैन्ट्री
73424	सुकेश चौधरी	इंफैन्ट्री
73425	अरविन्द कुमार शिवरैन	मैक
73427	दीपक तिवारी	इंजिनियर्स
73428	आशीश विजयवर्गीया	आर्टी
73430	प्रशांत शर्मा	ए ओ सी
73431	विशाल कुमार	जैग
73433	सन्नी वैद्य	इंफैन्ट्री
73434	गौरव वर्मा	जैग
73436	विक्रम डैक्स	ए सी
73438	मिश्रा कृष्णा कुमार हीरालाल	इंफैन्ट्री
73439	पार्थसारथी एन	आर्टी
73441	रोहित कर	आर्टी
73442	सौगरकपम जितेश्वर सिंह	इंफैन्ट्री
73443	अमय खन्ना	इंफैन्ट्री
73444	रौनक शर्मा	ए ए डी
73445	सुदिप्ता सान्याल	सिगन्ल्स
73447	अभिषेक रावत	इंफैन्ट्री

स्थाई कमीशन (डब्ल्यू एस ई एस)

कप्तान से मेजर

आई सी सं	नाम	आर्म	मेजर दिनांक से
73296	पसीने मोनल निखिलकुमार	जैग	17 मार्च 14
73310	पारुल	ए ई सी	22 मार्च 14
73311	सिमरजीत कौर	ए ई सी	22 मार्च 14
73312	निशा वत्स	ए ई सी	22 मार्च 14
73313	रेणु यादव	ए ई सी	22 मार्च 14

अल्पकालीन सेवा कमीशन (मैन)

कप्तान से मेजर

एए एस सं	नाम	आर्म	प्रारंभिक वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	मेजर दिनांक से
42662	जय कुमार मिश्रा	मैक	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42663	बालामुरुगन आर	ए सी	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42673	सतीष मंगलमूर्ती गाडरे	ए ओ सी	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42693	सचीन अंडोत्रा	ए एस सी	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42717	गोसावी कुनाल मुन्नागीर	आर्टी	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42719	विशाल राकसे	सिग्नल्स	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42724	नरेन्द्र सिंह	जैग	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42727	भवानी सिंह	ए सी	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42730	के टॉनी जोसेफ	सिग्नल्स	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42731	सचेन्द्र सिंह	आर्टी	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42733	एस मानीकावेल	ए ए डी	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42736	संजय गुलेरिया	ए सी	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42738	पावेलजीत सिंह	ए ओ सी	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42759	पवन सेठी	मैक	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42762	एस साजन चक्रवर्ती	इंफैन्ट्री	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42777	सोन्सी जोसेफ	ई एम ई	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42778	निशांत शुक्ला	ई एम ई	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42785	आशोक कुमार खंडेलवाल	ए ए डी	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42791	कैलाश वी	सिग्नल्स	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42795	आशीष बेनीवाल	ए एस सी	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42817	धर्मन्दर कुमार	ए सी	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14

एए एस सं	नाम	आर्म	प्रारंभिक वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	मेजर दिनांक से
42828	संदीप साही	मैक	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14
42831	अमित मोहन शर्मा	आर्टी	22 सितम्बर 07	एस एस सी 84 (एन टी)	22 अप्रैल 08	22 अप्रैल 14

अल्पकालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यू ए ए ई एस)

कप्तान से मेजर

डब्ल्यू एस सं	नाम	आर्म	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	मेजर दिनांक से
डब्ल्यू एस 1280	अनुपेक्षा रावत	सिगनल्स	डब्ल्यू ई एस ओ -29 (एन टी)	17 मार्च 2008	17 मार्च 2014
डब्ल्यू एस 1283	नेहा जैन	ए ए डी	डब्ल्यू ई एस ओ -29 (एन टी)	17 मार्च 2008	17 मार्च 2014
डब्ल्यू एस 1285	प्रियंका कंडपाल	ए ओ सी	डब्ल्यू ई एस ओ -29 (एन टी)	17 मार्च 2008	17 मार्च 2014
डब्ल्यू एस 1287	दीपिका सैनी	ए एस सी	डब्ल्यू ई एस ओ -29 (एन टी)	17 मार्च 2008	17 मार्च 2014
डब्ल्यू एस 1297	आशा कुंतल	ए ओ सी	डब्ल्यू ई एस ओ -29 (एन टी)	17 मार्च 2008	17 मार्च 2014
डब्ल्यू एस 1313	चारुल भट्ट	जैग	डब्ल्यू ई एस ओ -29 (एन टी)	17 मार्च 2008	17 मार्च 2014
डब्ल्यू एस 1322	संगीता	ए एस सी	डब्ल्यू ई एस ओ -29 (एन टी)	17 मार्च 2008	17 मार्च 2014
डब्ल्यू एस 1323	वैशाली शर्मा	जैग	डब्ल्यू ई एस ओ -29 (एन टी)	17 मार्च 2008	17 मार्च 2014
डब्ल्यू एस 1330	विजय पद्मजा	ए ओ सी	डब्ल्यू ई एस ओ -29 (एन टी)	17 मार्च 2008	17 मार्च 2014
डब्ल्यू एस 1331	रितिका शर्मा	ए ओ सी	डब्ल्यू ई एस ओ -29 (एन टी)	17 मार्च 2008	17 मार्च 2014
डब्ल्यू एस 1343	रितु सोलंकी	ए एस सी	डब्ल्यू ई एस ओ -29 (एन टी)	17 मार्च 2008	17 मार्च 2014
डब्ल्यू एस 1348	आराधना	ए एस सी	डब्ल्यू ई एस ओ -29 (एन टी)	17 मार्च 2008	17 मार्च 2014
डब्ल्यू एस 1350	उपासना यादव	ए एस सी	डब्ल्यू ई एस ओ -29 (एन टी)	17 मार्च 2008	17 मार्च 2014

स्थायी कमीशन

ले. से कप्तान

आई सी नं.	नाम	आर्म	कप्तान दिनांक से
66535	गुरविन्दर सिंह भट्टी	इंजिनियर्स	17 अक्टूबर 2006
66688	संतोष कुमार भरमौरिया	इन्फैन्ट्री	17 अप्रैल 2009
66689	रंजीत सिंह	ए सी	17 अप्रैल 2009
66690	चन्दन खरयाल	आर्टी	17 अप्रैल 2009
66691	अद्वित पटनायक	इन्फैन्ट्री	17 अप्रैल 2009
73135	कृपा शंकर शर्मा	आर्टी	16 अप्रैल 2009

आई सी नं.	नाम	आर्म
73639	अरविंदर सिंह सी	मैक
73643	अनिलनेहरा	आर्टी
73645	दिग्विजय सिंह चौहान	इन्जीनियर
73646	भूपेश कुमार	आर्टी

आई सी नं.	नाम	आर्म
73648	राकेश कुमार कंडारी	आर्टी
73650	प्रशान्त जानकर	आर्टी
73651	देसाई आदित्य सतीश	इन्जीनियर
73652	नरेन्द्र सिंह	ए ए डी
73653	वरुण कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
73655	ऋतुराज अहलावत	इन्फैन्ट्री
73658	चन्द्र शेखर गिरि	आर्टी
73660	कुमार सुमंत	आर्टी
73663	ग्रौवर इंद्रजीत सिंह सूरजीत सिंह	इन्फैन्ट्री
73664	आशुतोष श्रीवास्तव	आर्टी
73665	विजेन्द्र कुमार	ए ए डी
73666	राजीव शर्मा	ए सी
73667	रिशिव स्लाथिया	आर्टी
73668	लुनकिम पाओलेन्यागें खोंगसाई	इन्फैन्ट्री
73670	जगबीर सिंह बिदावत	आर्टी
73673	जगजीत सिंह	इन्फैन्ट्री
73674	शशि कुमार	इन्फैन्ट्री
73675	आदित्य शर्मा	ए ए डी
73676	काशी त्रिनाथ नेट्टि	ए सी
73677	अभितोष	आर्टी
73678	कृष्णकुमार	ए सी
73680	विवेक यादव	मैक
73681	एम सन्तोष	आर्टी
73682	वी वेंकटराघावन	आर्टी
73683	टैलिनवीर सिंह ढिल्लो	इन्फैन्ट्री
73685	राहुल सिंह बघेल	ए सी
73686	आशीष सिद्धावत	इ एम इ
73688	राजन कुमार	इन्फैन्ट्री
73689	पुष्पेन्द्र प्रताप भट्ट	आर्टी
73690	एस किरण	इ एम इ
73693	पीयूष कुमार त्रिपाठी	आर्टी
73694	विजेन्द्र एस यादव	ए सी
73697	सुनिल कुमार टाडी	आर्टी
73698	लौरेम्बम बिस्वाप्रेम मैतैई	आर्टी
73699	संजेश कुमार भवनानी	मैक

आई सी नं.	नाम	आर्म
73700	गोमित दुबे	इन्फैन्ट्री
73702	रवि प्रताप सिंह	इ एम इ
73704	आलोक सिंह	ए सी
73705	महेश कुमार जाखड़	आर्टी
73706	परीक्षित पंवार	इन्फैन्ट्री
73710	विनीत छिल्लर	आर्टी
73712	के कार्तिक	आर्टी
73713	जावेद हुसैन	आर्टी
73714	सांतनु हरडे	इन्फैन्ट्री
73715	के एच शेम	इन्फैन्ट्री
73717	अवतार सिंह	ए ए डी
73718	नामैराकपम दीपक सिंह	इन्फैन्ट्री
73719	रविन्द्र सिंह सैनी	इन्फैन्ट्री
73720	गुरप्रीत सिंह सोखी	आर्टी
73721	अजय सिंह	आर्टी
73722	चंदन सिंह	आर्टी
73723	दीपक कनवासी	ए सी
73724	सत्येन्द्र	इन्जीनियर
73726	अजय लोचब	इन्फैन्ट्री
73727	चवन निखील अरविंद	ए ए डी
73728	गोखले केतन दिलीप	इन्फैन्ट्री
73729	रजनीश प्रताप सिंह	इन्फैन्ट्री
73731	विवेक सिंह	आर्टी
73732	अमित शर्मा	आर्टी
73734	अरनब घोषाल	ए सी
73736	शषांकगौड़	आर्टी
73737	कार्तिक सैनी	इन्फैन्ट्री
73738	शक्ति सिंह	इन्फैन्ट्री
73739	विशाल तिवारी	इन्फैन्ट्री
73740	विनोद कुमार पाण्डेय	आर्टी
73741	दुष्यंत बिशनोई	इन्फैन्ट्री
73743	इरफान अहमद खान	ए ए डी
73744	कंचन कुमार	इन्फैन्ट्री
73748	शिवा सैगल	आर्टी
73751	गौतम सिंह	इन्फैन्ट्री

आई सी नं.	नाम	आर्म
73753	भारतेन्दु गौतम	आर्टी
73754	विरेन्द्र सिंह चन्देल	इन्फैन्ट्री

—20 अप्रैल 2011—

आई सी सं.	नाम	आर्म
76421	भानु प्रताप सिंह मनकोटिया	ए सी
76422	संदीप कुमार यादव	इंजीनियर्स
76423	उदय भान सिंह चन्देल	इंजीनियर्स
76424	राममोहम्मद सिंह	ए सी
76425	अभय शर्मा	इन्फैन्ट्री
76426	मोरे संदीप कुमार	ए ओ सी
76427	अभिषेक आनन्द	इन्फैन्ट्री
76428	प्रियंकू सिंह	ए ए डी
76429	अनुज सूद	मैक
76430	शषांक सिंह	इन्फैन्ट्री
76431	एन हरीश	ई एम ई
76432	विक्रान्त विश्वासराव देशमुख	इन्फैन्ट्री
76433	अर्जुन थापा	इन्फैन्ट्री
76434	नवीन सिगड़	इन्फैन्ट्री
76435	विनीत यादव	सिग्नल्स
76436	करणी प्रताप सिंह	इन्फैन्ट्री
76437	रवि कुमार राठी	ए एस सी
76438	लोध ओमकार भावेश	आर्टी
76439	त्रिवेन्द्र सिंह चौधरी	आर्टी
76440	टी प्राओ	इन्फैन्ट्री
76441	विजय सिंह ठाकुर	इन्फैन्ट्री
76442	विनोद कुमार शर्मा	इन्फैन्ट्री
76443	पुलिपाण्डियन आर	इन्फैन्ट्री
76444	विमलेश कुमार	आर्टी
76445	देबप्रतिम दास	ए ए डी
76446	अभिलेख मिश्रा	इन्फैन्ट्री
76447	प्रियेश वाघेला	ए एस सी
76448	आशीष छिकारा	इन्फैन्ट्री
76449	येंखोम दुर्गेश सिंह	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म
76450	यकुंश अहलावत	आर्टी
76451	रवि रंजन कुमार	आर्टी
76452	सागर कुमार	इन्फैन्ट्री
76453	जपनप्रीत सिंह	ए सी
76454	वासु गुप्ता	मैक
76455	अंशुल टोरा	इन्फैन्ट्री
76456	युवराज प्रताप सिंह परमार	मेक
76457	बी संतोष	ई एम ई
76458	निखिल यादव	इंजिनियर्स
76459	विवेक कुमार तिवारी	आर्टी
76460	यिमवोलोंग एओ	ए एस सी
76461	रोहित कुमार	आर्टी
76462	चोनजगिन लुन्किम	एविएशन
76463	सौरभ कुमार देवा	आर्टी
76464	अजय सिंह	इन्फैन्ट्री
76465	दिपिन दूहन	इन्फैन्ट्री
76466	विक्रम सिंह डांगी	ए सी
76467	मनीष कुमार	ए ओ सी
76468	मानव गुरुंग	इंट
76469	अच्युत गुप्ता	आर्टी
76470	रचित सोनी	आर्टी
76471	संतोष सी	आर्टी
76472	रवि कुमार	इन्फैन्ट्री
76473	कृष्ण कुमार	ए ओ सी
76474	देबराज दास	आर्टी
76475	वंशज पाटिल	इन्फैन्ट्री
76476	अश्विन वसंत शेटी	ए ए डी
76477	प्रतीक पंवार	इन्फैन्ट्री
76478	गौरव भारद्वाज	इन्फैन्ट्री
76479	उत्कर्ष सिंह परीहार	इन्फैन्ट्री
76480	सुधीर पराशर	इन्फैन्ट्री
76481	रोबिन कुमार	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म
76482	किशोर कुणाल	इन्फैन्ट्री
76483	रोहित	इन्फैन्ट्री
76484	बलविन्दर सिंह	सिग्नल्स
76485	विवेक कुमार	ए एस सी
76486	वरिन्दर सिंह	ई एम ई
76487	अभिषेक चौहान	आर्टी
76488	सचिन सन्धू	इन्फैन्ट्री
76489	सिद्धान्त मलिक	इन्फैन्ट्री
76490	धीरज रणजीत निमबालकर	इन्फैन्ट्री
76491	सचिन मिश्रा	ए सी
76492	आलोक ठाकुर	एविएशन
76493	सिद्धांत शेखर	आर्टी
76494	हेमंत कुमार सिंह	ए सी
76495	निशांत थापा	आर्टी
76496	आकाश पटानिया	मैक
76497	एस के रहमत अली	आर्टी
76498	अनीष आनंद	आर्टी
76499	पसला अन्वेश	ए ए डी
76500	रामीज राजा	इन्फैन्ट्री
76501	गौरव बरार	ए ओ सी
76502	निशांत शर्मा	इन्फैन्ट्री
76503	अरुण कुमार बाल्याण	इंजीनियर्स
76504	प्रतिवाड़ा प्रदीप कुमार	आर्टी
76505	संतोष कुमार ओझा	इन्फैन्ट्री
76506	आशीष खंडका	इन्फैन्ट्री
76507	तेजपाल सिंह	ए एस सी
76508	सुमित श्रीधरराव पवार	इन्फैन्ट्री
76509	सिद्धांत सक्सेना	आर्टी
76510	मृदुल शर्मा	इन्फैन्ट्री
76511	सुमित डोगरा	आर्टी
76512	पुष्पेन्द्र गुरुंग	इंट
76513	ब्रह्मानंद मिश्रा	मैक

आई सी सं.	नाम	आर्म
76514	सूरज सिंह तोमर	इन्फैन्ट्री
76515	संदीप क्षेत्री	ए ओ सी
76516	राम नारायण डुकिया	इन्फैन्ट्री
76517	जितेन्द्र पुनिया	इन्फैन्ट्री
76518	रनपाल सिंह	ए सी
76519	अनिरुद्ध कोहली	ए सी
76520	विशाख नम्पूथरी	आर्टी
76521	अभिलाष पुण्डीर	सिग्नल्स
76522	सम्राट सोनबा दिवेकर	आर्टी
76523	जेकब चेरियन	ई एम ई
76524	रोजिन राजन	आर्टी
76525	संजय घोष	आर्टी
76526	सौरभ कुमार	ए एस सी
76527	संदीप कुमार	ए ए डी
76528	महेन्द्र सिंह राठोड	इन्फैन्ट्री
76529	मोहित सिंह चौहान	इन्फैन्ट्री
76530	सोनू कुमार	इन्फैन्ट्री
76531	विवेक राय	ए ए डी
76532	सोहेल बावा	आर्टी
76533	चन्द्र शेखर	सिग्नल्स
76534	अमितेश रंजन	इन्फैन्ट्री
76535	प्रदीप कुमार	आर्टी
76536	आदित्य सहाय	आर्टी
76537	गौरव वर्मा	मैक
76538	अमनदीप सिंह	आर्टी
76539	रंगानी संजय जिवराजभाई	आर्टी
76540	सौरभ कुमार	इन्फैन्ट्री
76541	रणविजय कुमार	ए सी
76542	अवनीश यादव	इन्फैन्ट्री
76543	आदित्य कुमार	आर्टी
76544	दिनेश कुमार	इन्फैन्ट्री
76545	निर्मल आर	आर्टी

आई सी सं.	नाम	आर्म
76546	दविन्दर पाल सिंह	इन्फैन्ट्री
76547	भारत मिश्र	इन्फैन्ट्री
76548	अँकुश लूथरा	ए एस सी
76549	शषांक शर्मा	इन्फैन्ट्री
76550	सुमन कुमार यादव	ए ओ सी
76551	भुवन एम एस	आर्टी
76552	राधव सूरी	इंजिनियर्स
76553	धर्मेन्द्र सिंह	ए सी
76554	बिजेन्दर सिंह	ए ओ सी
76555	राजपाल सिंह राठौड़	इन्फैन्ट्री
76556	पंकज	इन्फैन्ट्री
76557	रतनकुमार एच एस	आर्टी
76558	धीरज कुमार विवेक	आर्टी
76559	मिश्रा दीपक उमाशंकर	आर्टी
76560	कुशल सिंह राणा	ए ए डी
76561	ओमप्रकाश सिंह	ई एम ई
76562	नवदीप सिंह शान	सिग्नल्स
76563	चव्हाण प्रणय प्रकाश	इन्फैन्ट्री
76564	अक्षत अग्निहोत्री	इन्फैन्ट्री
76565	हिजाम इबोहल सिंह	इन्फैन्ट्री
76566	भोपिन्दर सिंह सूदन	मैक
76567	प्रखर अरोड़ा	एविएशन
76568	दीपांशु गौड़	इन्फैन्ट्री
76569	विष्णु आर जे	आर्टी
76570	पार्थ सरीन	इन्फैन्ट्री
76571	मनीष कुमार सुपाकर	आर्टी
76572	प्रीत जोशी	इन्फैन्ट्री
76573	अमृत पाल सिंह खैरा	इन्फैन्ट्री
76574	राहुल गुप्ता	मैक
76575	नागराज सुभास यमभटनल	ए ए डी
76576	अतुल कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
76577	सुरिन्दरपाल सिंह	ए सी

आई सी सं.	नाम	आर्म
76578	धनंजयन एल	आर्टी
76579	मुकेश जोशी	इन्फैन्ट्री
76580	दीपक कुमार	आर्टी
76581	प्रणव चौनी	इंजीनियर्स
76582	लाल बहादुर यादव	आर्टी
76583	कमलेश पान्डे	इन्फैन्ट्री
76584	तुषार	आर्टी
76585	निशान्त कौशिक	ए ए डी
76586	चन्द्रकान्त मिश्रा	ए ओ सी
76587	अमित कुमार सोनी	आर्टी
76588	अभिषेक दुबोलिया	आर्टी
76589	मनोज सिंह भोज	इन्फैन्ट्री
76590	प्रशांत किशोर	ई एम ई
76591	अंकित होदकासिया	आर्टी
76592	रोहित कुमार शर्मा	इन्फैन्ट्री
76593	निपुल कटोच	इन्फैन्ट्री
76594	नितेश कुमार	इन्फैन्ट्री
76595	जे अभिमन्यु	आर्टी
76596	वैभव ममगैन	ए एस सी
76597	लाइरेनलाकपम सुरनदेव सिंह	इन्फैन्ट्री
76598	हरप्रीत सिंह	ए सी
76599	नीरज कुमार	इन्फैन्ट्री
76600	अनुज यादव	इन्फैन्ट्री
76601	सुमित ग्रोहवाल	इन्फैन्ट्री
76602	गांधी युमनाम	इन्फैन्ट्री
76603	रोहित अहलावत	ए ओ सी
76604	अभिषेक कुमार	आर्टी
76605	सुभम मित्तल	सिग्नल्स
76606	पंकज सिंह	आर्टी
76607	अंकित तिवारी	ए सी
76608	नवीन कुमार	ए ए डी
76609	भदोरिया अजयसिंह जयपालसिंह	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म
76610	कराम्बेलकर सलिल सुनील	ए एस सी
76611	अतुल शर्मा	इन्फैन्ट्री
76612	अभिषेक महाजन	इन्फैन्ट्री
76613	विभूति वैभव	ए एस सी
76614	राकेश वशिष्ठ	एविएशन
76615	संजीव रान्टा	मैक
76616	सापटणेकर नरेन्द्र सुहास	इन्फैन्ट्री
76617	विशाल कुमार यादव	इन्फैन्ट्री
76618	कौशिक कुमार दत्ता	ए ओ सी
76619	अखिल राज आर वी	इन्फैन्ट्री
76620	नीरज सिंह कोश्यारी	ए सी
76621	प्रशान्त कुमार	आर्टी
76622	पुष्कर सिंह रोतेला	इन्फैन्ट्री
76623	आशीष कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
76624	सुमित बम्मी	इन्फैन्ट्री
76625	श्रीकान्त प्रसाद	ई एम ई
76626	एस लवजॉय बाइते	आर्टी
76627	अनिरुद्ध सिंह राठौड़	ए एस सी
76628	हिमाशु चंद्र सिन्हा	इन्फैन्ट्री
76629	नवनीत कौशिक	इन्फैन्ट्री
76630	सदानन्द सिन्हा	इंजीनियर्स
76631	सुशांत चन्द्रकांत जाधव	इन्फैन्ट्री
76632	गंगेश कुमार	आर्टी
76633	विकास कुमार	इन्फैन्ट्री
76634	हिमांजन सर्मा	आर्टी
76635	कौशिक मित्रा	ए ए डी
76636	वैद्य सचिन रमेश	आर्टी
76637	अमित कुमार	इन्फैन्ट्री
76638	बलवंत सिंह राणा	आर्टी
76639	शिव कुमार	ए सी
76640	मनीओ फ्रांसिस पी एफ	इन्फैन्ट्री
76641	जितेन्द्र	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म
76642	दीपक कुमार	इन्फैन्ट्री
76643	निखिल मैथु जॉर्ज	आर्टी
76644	महेश कदम	ए सी
76645	आदर्श कुमार	इन्फैन्ट्री
76646	अंकुश ठाकुर	इन्फैन्ट्री
76647	अमित कुमार राय	इन्फैन्ट्री
76648	विक्रम उत्तम इंगले	मैक
76649	विवेक ठाकुर	ए एस सी
76650	राम निवास	आर्टी
76651	सुजित थापा	आर्टी
76652	सागर दिलीप महात्मे	आर्टी
76653	नन्दाकुमार पी	ई एम ई
76654	निरज रामराव जादव	इन्फैन्ट्री
76655	रावत नरेशकुमार प्रतापसिंह	आर्टी
76656	कार्ले अभिषेक अभय	इन्फैन्ट्री
76657	कोनथौजम रोशनकुमार सिंह	ए एस सी
76658	ई कृष्णा चन्द्रन	ए ए डी
76659	नीतिश डोगरा	इन्फैन्ट्री
76660	समित कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
76661	वीरेन्द्र सिंह	मैक
76662	नीरज शर्मा	इन्फैन्ट्री
76663	सुमीत बावा	इन्फैन्ट्री
76664	अदित	इन्फैन्ट्री
76665	मयूर कुमार पटेल	ए ए डी
76666	अम्मिरेड्डी कर्री	इंजीनियर्स
76667	चन्द्र वीर सिंह	आर्टी
76668	नीरज रखोलिया	इन्फैन्ट्री
76669	विकास कुमार गुप्ता	आर्टी
76670	राहुल वर्मा	आर्टी
76671	सौरभ शुक्ला	इन्फैन्ट्री
76672	गौरव सिंह रावत	इन्फैन्ट्री
76673	रोहित सिंह कुशवाहा	ई एम ई

आई सी सं.	नाम	आर्म
76674	कृश्यप राजोरा	इन्फैन्ट्री
76675	गौतम मिश्रा	ए सी
76676	दीपेन्द्र सिंह गुसाँई	इंजीनियर्स
76677	प्रभाकर कुमार	इन्फैन्ट्री
76678	योगेन्द्र सिंह नरवरीया	आर्टी
76679	नवीन चौहान	इन्फैन्ट्री
76680	मनूप के एम	सिग्नल्स
76681	आशीष तिवारी	आर्टी
76682	भानु प्रताप सिंह	ए सी
76683	निशांत कुमार तिवारी	ए ओ सी
76684	निखिल खुराना	मैक
76685	श्रीकांत सिंह	एविएशन
76686	गुरप्रीत सिंह	आर्टी
76687	मनजीत सिंह साँगवान	ए एस सी
76688	देवेश विक्रम सिंह	इंट
76689	नेत्रपाल	इन्फैन्ट्री
76690	भूषणसिंह अमरसिंह पाटील	इन्फैन्ट्री
76691	नूकाल अदवैया रेड्डी	इन्फैन्ट्री
76692	अमित कुमार प्रजापति	आर्टी
76693	विवेक कुमार सिंह	ए ए डी
76694	रवेनेला देव	ए सी
76695	सिंह रणजीत रामानन्द	सिग्नल्स
76696	राजीव रंजन भारती	इन्फैन्ट्री
76697	पवन कुमार	आर्टी
76698	सुमुख स्वरूप सी आर	इंजिनियर्स
76699	एलिसन वाई जामी	इन्फैन्ट्री
76700	गौरव कुमार मिश्रा	इंट
76701	रंजीत कुमार	इन्फैन्ट्री
76702	तरुण वर्मा	इन्फैन्ट्री
76703	साहिल मसन्द	इन्फैन्ट्री
76704	खवैराकपाम विक्टरजित	आर्टी
76705	पवन कुमार शर्मा	आर्टी

आई सी सं.	नाम	आर्म
76706	सुखविन्दर पाल सिंह	इन्फैन्ट्री
76707	राकेश जी वाडकर	आर्टी
76708	क्षितिज सेम्यूल मेस्टन	इन्फैन्ट्री
76709	भुवन प्रताप सिंह	ए सी
76710	श्यामकुमार एम एस	ए एस सी
76711	गिरीश कुमार	ई एम ई
76712	लवकुश सिंह	मैक
76713	शशि काँत सिंह	ए ए डी
76714	शशीकांत शिवाजी गायकवाड	आर्टी
76715	मयंक गोवित्रीकर	इन्फैन्ट्री
76716	लाईश्राम रोबाटसन सिंह	इन्फैन्ट्री
76717	अंकुर सोढ़ी	इंट
76718	अंकित शर्मा	आर्टी
76719	गोन्सालविस ग्रेगरी	ए एस सी
76720	तुहिन डे	ए एस सी
76721	शान्तनू सिन्हा	इन्फैन्ट्री
76722	अभिनव कुमार	ए ओ सी
76723	कपिल अधिकारी	इन्फैन्ट्री
76724	सरवेश्वर शुक्ला	ए सी
76725	इज़हार अहमद खॉ	ए सी
76726	दीपक धवन	आर्टी
76727	अनूप सिंह पाल	इंजिनियर्स
76728	परमजीत सिंह	आर्टी
76729	चन्दन कुमार गौड़ा	ए एस सी
76730	राहुल शर्मा	इन्फैन्ट्री
76731	मनोज ढौढियाल	इन्फैन्ट्री
76732	विनय कुमार	इन्फैन्ट्री
76733	अजय कुमार तिवारी	इन्फैन्ट्री
76734	सुधीरकृष्ण चन्नप्पा पुजारी	आर्टी
76735	गुरजीत सिंह मलही	ए ए डी
76736	गौरवेन्द्र प्रताप सिंह परमार	मैक
76737	सुजीत साहा	आर्टी

आई सी सं.	नाम	आर्म
76738	मनोज सारस्वत	एविएशन
76739	दीपक यादव	ई एम ई
76740	विक्रम मानवेन्द्र सिंह	आर्टी
76741	दिनूज एन	ए ओ सी
76742	नीरज बंधराल	इन्फैन्ट्री
76743	सोलोमन जॉन	इन्फैन्ट्री
76744	आर प्रवीन	इंजिनियर्स
76745	अनुपम चौधरी	इन्फैन्ट्री
76746	संजीत पोद्दार	ए ओ सी
76747	अनिकेत सिंह	इन्फैन्ट्री
76748	किरण कुमार येन्डा	आर्टी
76749	अरवा लक्ष्मीकान्त	ए ओ सी
76750	सतिन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
76751	गौतम राय	आर्टी
76752	रोहित सद्दी	आर्टी
76753	राहुल रावत	ए सी
76754	रवि कुमार	आर्टी
76755	शिरोटे अभिनंदन अन्नसो	आर्टी
76756	अमन चौधरी	आर्टी
76757	सुदेश रावत	इन्फैन्ट्री
76758	अरविन्द कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
76759	संदीप	इन्फैन्ट्री
76760	राहुल मेहता	इन्फैन्ट्री
76761	विपिन कुमार सिंह	आर्टी
76762	संदीप कुमार	ई एम ई
76763	प्रतीक शर्मा	ए सी
76764	रंजित के पी	ए एस सी
76765	मनीष कुमार	इन्फैन्ट्री
76766	अनुराग वर्मा	आर्टी
76767	नीरज कुमार पाण्डेय	इन्फैन्ट्री
76768	विनीत कुमार पाण्डेय	सिग्नल्स
76769	अभिज्ञान पटनायक	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म
76770	रधुनाथ	इन्फैन्ट्री
76771	दिव्य कान्त शर्मा	ए एस सी
76772	वरुण वशिष्ट	ए ए डी
76773	विजय कुमार यादव	इंजिनियर्स
76774	विवेक कुमार गौड़	इन्फैन्ट्री
76775	बलबिन्दर सिंह चौहान	आर्टी
76776	अंशुमन झा	एविएशन
76777	रोहित गम्भीर	इन्फैन्ट्री
76778	पवन कुमार शर्मा	मैक
76779	सर्वेश शर्मा	ए ए डी
76780	नवीन भरत कवला	आर्टी
76781	मयंक गुसाई	ए एस सी
76782	अमृत राज	इन्फैन्ट्री
76783	सतविंदर सिंह गिल	ई एम ई
76784	बृजेश त्रिपाठी	इंट
76785	अंजनी कुमार	ए ओ सी
76786	रणवीर सिंह चौहान	आर्टी
76787	रीतेश कुमार	आर्टी
76788	संतोष कुमार जे	आर्टी
76789	जशपाल सिंह	इन्फैन्ट्री
76790	अनुराग मिश्रा	इन्फैन्ट्री
76791	विपिन कुमार सिंह	ए ए डी
76792	निखिल कर्माचंद्रन	इन्फैन्ट्री
76793	कृष्णाकुमार के	सिग्नल्स
76794	युवराज खुशालराव गजभिये	इंजिनियर्स
76795	धर्म कुमार दीक्षित	ए एस सी
76796	करन परमार	आर्टी
76797	प्रशांत यादव क्षिरसागर	इन्फैन्ट्री
76798	सौरभ सुशान्त	इन्फैन्ट्री
76799	वरुण गौड़	ए सी
76800	अनुराग कर्वर	इन्फैन्ट्री
76801	अजीम अहमद सिद्दीकी	ए ओ सी

आई सी सं.	नाम	आर्म
76802	शहारे विरेन्द्र किशोर	आर्टी
76803	मुरलीधर	आर्टी
76804	गौरव पंवार	मैक
76805	मोहिते संतोष बालासाहेब	इन्फैन्ट्री
76806	रिपूदमन सिंह राठौड़	इन्फैन्ट्री
76807	हरजिन्दर सिंह तोमर	एविएशन
76808	वरुण सलारिया	इन्फैन्ट्री
76809	संदीप कुमार तिवारी	सिग्नल्स
76810	सन्जु कुरियन जेकब	इन्फैन्ट्री
76811	आदित्य कुमार	इन्फैन्ट्री
76812	विश्व प्रताप सिंह	आर्टी
76813	सौरभ बाजपेयी	आर्टी
76814	अद्वैत पी वी	इन्फैन्ट्री
76815	नैमिष एम बादवा	ए सी
76816	साहिल निश्चल	ए सी
76817	अर्जुन आर	इन्फैन्ट्री
76818	सुमन सौरभ	ए ओ सी
76819	हेमन्त बागरी	एविएशन
76820	गिरीश भारद्वाज	ए ओ सी
76821	रविन्द्र कुमार	आर्टी
76822	योगेश तोमर	मैक
76823	संजय सिंह ठाकुर	इंजिनियर्स
76824	शंकर दयाल सिंह	इन्फैन्ट्री
76825	अंशुल तिवारी	इन्फैन्ट्री
76826	प्रतीक रॉय	इन्फैन्ट्री
76827	कविश कुमार	इन्फैन्ट्री
76828	दीपक तिवारी	इन्फैन्ट्री
76829	सुमित रंजन जेना	ए एस सी
76830	गौरव सक्सेना	इन्फैन्ट्री
76831	मधुसूदन शर्मा	ए सी
76832	रवि कुमार पंत	ए एस सी
76833	गौरव कुमार	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म
76834	नन्दित जॉर्ज	इन्फैन्ट्री
76835	अंगद एंथोनी मलिक	आर्टी
76836	पांडे साकेत शांताराम	ए ए डी
76837	विपिन शर्मा	इंजिनियर्स
76838	अंकित सेठी	ई एम ई
76839	अमित रौतेला	आर्टी
76840	असीत कृष्णनन् सी	मैक
76841	हिमांशु	इन्फैन्ट्री
76842	अंकुर श्रीवास्तव	ए ए डी
76843	हरज्योत सिंह ढिल्लों	आर्टी
76844	प्रशांत कुमार वर्मा	इन्फैन्ट्री
76845	भावुक शर्मा	इन्फैन्ट्री
76846	प्रियम जेना	ई एम ई
76847	राज्यवर्धन सिंह राठौड़	ए सी
76848	सिद्धार्थ बहादुर	इन्फैन्ट्री
76849	रूपेश कुमार	इन्फैन्ट्री
76850	विनय कुमार	आर्टी
76851	नवेन्दु शेखर	ए ए डी
76852	पियुष कुमार	आर्टी
76853	अमित कुमार चौबे	आर्टी
76854	पवन शर्मा	इन्फैन्ट्री
76855	बिग्यानचन्द्र राजकुमार	आर्टी
76856	संदीप कुमार सिंह	आर्टी
76857	ए श्रीनिवास रेड्डी	इन्फैन्ट्री
76858	मोहम्मद अब्दुल्लाह कुरेशी	ए ओ सी
76859	हरविंदर सिंह	मैक
76860	अनमोल मेहता	इन्फैन्ट्री
76861	राहुल अरोड़ा	ए एस सी
76862	रणजीत सिंह	आर्टी
76863	अपूर्व गुप्ता	सिग्नल्स
76864	परमेश्वर तिवारी	आर्टी
76865	मनीष चक्रवर्ती	आर्टी

आई सी सं.	नाम	आर्म
76866	डी प्रवीण	आर्टी
76867	रवि कुमार रावत	इन्फैन्ट्री
76868	चैतन्य शर्मा	ए सी
76869	अभिषेक महाजन	सिग्नल्स
76870	नितिन डढ़वाल	इंजिनियर्स
76871	तुषार बालासाहेब जगदाले	इंजिनियर्स
76872	चिन्मय एस घारपुरे	इंजिनियर्स
76873	बिनीत	इन्फैन्ट्री
76874	कमल कौशिक	इंजिनियर्स
76875	तरुण राठी	सिग्नल्स
76876	ईज्जापू रेड्डी चंदन	ई एम ई
76877	विकास भाम्भू	एविएशन
76878	रोहित उनियाल	इंजिनियर्स
76879	अजय अंतिल	सिग्नल्स
76880	विनय कुमार दहिया	ए सी
76881	सुदर्शन नरेद्र गायकवाड	इंजिनियर्स
76882	सुशान्त शर्मा	सिग्नल्स
76883	राजीव द्विवेदी	सिग्नल्स
76884	नीरज सैनी	आर्टी
76885	रोहित रावत	सिग्नल्स
76886	सुमित कुमार गंगवार	ई एम ई
76887	गौरांग दीक्षित	इंजिनियर्स
76888	ताहिर अहमद खान	आर्टी
76889	तेजस शिवाजी मोरे	इंजिनियर्स
76890	विवेक चौधरी	ई एम ई
76891	प्रवीन कुमार सोलंकी	सिग्नल्स
76892	प्रवीण दिनकर पाटिल	इन्फैन्ट्री
76893	राजशेखर कामिदि	ई एम ई
76894	हरनीत सिंह बादशाह	आर्टी
76895	रूपेश कुमार	आर्टी
76896	चित्तरंजन कुमार गर्ग	सिग्नल्स
76897	राम चन्द्र यादव	ई एम ई

आई सी सं.	नाम	आर्म
76898	प्रताप सिंह	इंजिनियर्स
76899	एन इमानदार सिंह	इंट
76900	नीरज कुमार सिंह	इंजिनियर्स
76901	अंशु कुमार	सिग्नल्स
76902	आशीष दूहन	इंजिनियर्स
76903	अमित कुमार ढांडा	ई एम ई
76904	प्रियेश त्रिपाठी	सिग्नल्स
76905	नीरज कुमार शर्मा	इन्फैन्ट्री
76906	विनीत सांगवान	ई एम ई
76907	रूपेन्द्र दहिया	इंजिनियर्स
76908	नीरज कोकाटे	सिग्नल्स
76909	अमित खत्री	ए ए डी
76910	जतिन्द्र प्रीत सिंह	आर्टी
76911	राजन कुमार	सिग्नल्स
76912	कुलविंदर सिंह औलख	सिग्नल्स
76913	भोईटे वैभव सुनिल	ई एम ई
76914	मैथ्यूस एम शेफर्ड	इंजिनियर्स
76915	भुवनेन्द्र सिंह चौहान	ई एम ई
76916	अरविन्द कुमार	इन्फैन्ट्री
76917	बेरड हर्षल भगवान	ई एम ई
76918	सुरज सोपान गायकवाड़	इंजिनियर्स
76919	नितिन कुमार चौधरी	ई एम ई
76920	अनुभव चौधरी	मैक
76921	संदीप सिवाच	इन्फैन्ट्री
76922	दीपक सिंह बोहरा	इंजिनियर्स
76923	तुषार शर्मा	इन्फैन्ट्री
76924	रवि कुमार सिंह	इंजिनियर्स
76925	रवि कुमार सॉवरिया	इन्फैन्ट्री
76926	जसवीर गिल	इन्फैन्ट्री
76927	आदित्य जगन्नाथ	ए ए डी
76928	सनत कोन्डल	ई एम ई
76929	सिद्धान्त शर्मा	सिग्नल्स

आई सी सं.	नाम	आर्म
76930	नीलकमल शर्मा	सिगनल्स
76931	रत्नेश सिंह पंवार	ए सी
76932	अंशुमान सिंह चौहान	इंजिनियर्स
76933	गुरकिरपाल सिंह	ई एम ई
76934	अनिल शर्मा	इन्फैन्ट्री
76935	नरेन पाण्डेय	ए ए डी
76962	बिबेक प्रधान	ए ई सी
77009	राजीव कुमार रॉय	ए ई सी
77059	संजीत सिंह रनधावा	ए ई सी
77071	एस श्रीजित	ए ई सी

—09 जून 2014

78120	प्रतीक धनखड़	सिगनल्स
78121	सौरभ माइति	इंजिनियर्स
78122	प्रभजोत सिंह विरक	एसी
78123	अभिषेक सिंह भदौरिया	आर्टी
78124	उपमन्यु गौड़	इंजिनियर्स
78125	अपूर्व गुप्ता	आर्टी
78127	प्रदीप बलहारा	इन्फैन्ट्री
78128	इशान राजदान	इन्फैन्ट्री
78129	अगंद सिंह बराड़	एसी
78130	यशवन्त	इन्फैन्ट्री
78131	जगदीश जोशी	इन्फैन्ट्री
78132	अमन नन्दा	एसी
78134	प्रदीप कुमार कादयान	मैक
78135	नलिन राम	ईएमई
78136	स्वप्निल चन्द्रा	सिगनल्स
78137	अभिनव ठाकरे	आर्टी
78138	विनीत राय	इंजिनियर्स
78139	शशी श्योराण	आर्टी
78140	जगन्नाथ विठ्ठल् ए एस्	एसी
78141	अभिनव शर्मा	आर्टी
78142	कुमार रोहित	इंजिनियर्स
78143	संदीप सिंह सिद्धु	ईएमई
78144	नेत्रोजीत गोहयन	एसी

आई सी नं.	नाम	आर्म
78145	विकसित सचदेवा	ईएमई
78146	अदित्य चंद्र रॉय	ईएमई
78147	राहुल कुमार पुण्डीर	आर्टी
78148	राहुल काला	ईएमई
78149	नितिन चौधरी	इन्फैन्ट्री
78150	रविन्द्र सिंह पनेसर	मैक
78151	आशीष धौचक	इन्फैन्ट्री
78152	हिमोशु सिंह	इंजिनियर्स
78153	अतुल जेम्स	इंजिनियर्स
78154	निशांक शर्मा	सिगनल्स
78155	दमनप्रीत सिंह	आर्टी
78156	स्नेहाशिष चक्रवर्ती	आर्टी
78157	सत्येन्द्र कुमार	सिगनल्स
78158	अतुल सिंह परिहार	ईएमई
78159	हरप्रीत सिंह	इन्फैन्ट्री
78160	अमित दलाल	सिगनल्स
78162	रवि गोयल	ई एम ई
78163	आशीष भारद्वाज	इंजिनियर्स
78164	हरीश रामचन्द्र मगदुम	इंजिनियर्स
78165	अहद बजाज	ईएमई
78166	अरुण अत्तिक्कल	एविएशन
78167	पंकज बिष्ट	आर्टी
78168	विकास सिंह	इन्फैन्ट्री
78169	अभिनव माथुर	इन्फैन्ट्री
78170	प्रतीक सिंह	ईएमई
78171	यश जोशी	सिगनल्स
78172	सांवत आशीष प्रदीप	इन्फैन्ट्री
78173	राहुल जग्गी	आर्टी
78174	नवीन राठी	सिगनल्स
78175	प्रतीक सिंह बेदी	आर्टी
78176	मयंक यादव	एएडी
78177	अंकित शर्मा	सिगनल्स
78178	मोहम्मद शाहिद	एएडी
78179	ईशान वर्मा	सिगनल्स
78180	सचिन सिंह चौहान	इन्फैन्ट्री

आई सी नं.	नाम	आर्म
78181	अभिनव शर्मा	ईएमई
78182	कुंभार सिद्धेश दत्ता	ईएमई
78183	गौरीशंकर ईशान सिंह	एएससी
78184	विवेक भगत	इंजिनियर्स
78185	श्रीवास्तव उज्जवल प्रदीपकुमार	इंजिनियर्स
78186	अनुराग कुमार	सिगनल्स
78187	दीपक अधाना	ईएमई
78188	एफ दरेन्द्र सिंहा	ई एम ई
78189	विपिन नाथ	इंजिनियर्स
78190	विश्वेन्द्र सिंह सिसोदिया	एएडी
78191	परवीन कुमार	ई एम ई
78192	हेमन्त राणा	इन्फैन्ट्री
78193	विष्णु देव	आर्टी
78194	पंकज पाण्डे	ईएमई
78195	गुरसिमर सिंह	एएडी
78196	शिवराज वी उदमेशी	आर्टी
78197	गौरव कलसोत्रा	इंजिनियर्स
78198	करन पाल सिंह छिना	इन्फैन्ट्री
78199	सतीश सायखोम	इंजिनियर्स
78200	अंकुर लघाटे	इंजिनियर्स
78201	उज्जवल गुप्ता	इन्फैन्ट्री
78202	रक्षित देशपाण्डे	इन्फैन्ट्री
78203	अक्षत दुरेहा	सिगनल्स
78206	मांडवगडे मोहन यशवन्त	एएडी
78207	कुमार प्रसेनजीत सरकार	सिगनल्स
78208	अभय प्रताप सिंह नेगी	इंजिनियर्स
78209	हिमांशु शर्मा	इंजिनियर्स
78210	विक्रम सिंह सिकरवार	एओसी
78211	लोकेश सोगरवाल	मेक
78212	दीपक पाण्डेय	इन्फैन्ट्री
78213	अनंत महेश्वरी	आर्टी
78215	कंवरतेज सिंह उप्पल	ईएमई
78216	संगमेश पाटिल	सिगनल्स
78217	रोहित वत्स	ईएमई
78218	विनोद के	इन्फैन्ट्री

आई सी नं.	नाम	आर्म
78219	आदित्य वीर सिंह	सिगनल्स
78220	गुरयोग सिंह घुमन	मैक
78221	शुभम शुक्ला	ई एम ई
78222	कुनाल वी जोशी	इंजिनियर्स
78223	अभिषेक सिंह	आर्टी
78224	दीपिन्दर सिंह औजला	ईएमई
78225	संजय भट्ट	इंजिनियर्स
78226	जितेन्द्र यादव	एएससी
78227	विशाल भसीन	इन्फैन्ट्री
78228	अरुल वी भराथी	इन्फैन्ट्री
78229	आशुतोष सिंह	एएडी
78230	आनन्द यु	इन्फैन्ट्री
78231	जसप्रीत सिंह आनंद	एओसी
78232	संकल्प द्विवेदी	इन्फैन्ट्री
78233	सौम्य प्रतीक	एएससी
78234	निशॉत रॉय	इन्फैन्ट्री
78235	सदासिवुनी विजयेश मूर्ति	ईएमई
78236	विशाल वेनुगोपल	इन्फैन्ट्री
78238	आकाश चौधरी	मैक
78239	जगदीप यू	सिगनल्स
78240	अभिषेक राजेश ठक्कर	इंजिनियर्स
78241	सचिन तोमर	इन्फैन्ट्री
78242	शुक्ला शिवम रमाकान्त	ईएमई
78243	कपिल यादव	इंजिनियर्स
78244	दीपेन्द्र सिंह तेतरवाल	सिगनल्स
78245	बोपन्ना के के	इन्फैन्ट्री
78246	हिमाशु वर्मा	एएससी
78247	देबशिष दाश	इन्फैन्ट्री
78248	मुकुल मोहले	आर्टी
78249	कमलेन्द्र सिंह राव	आर्टी
78250	अमरदीप	इंजिनियर्स
78251	मनीषकुमार यादव	इंजिनियर्स
78252	नवजोत सुहाग	इन्फैन्ट्री
78253	सौरभ हलदर	आर्टी
78254	मयंक कुमार शर्मा	इन्फैन्ट्री

आई सी नं.	नाम	आर्म
78255	रनदीप सिंह	सिगनल्स
78256	अभिनव यादव	एसी
78258	नरेन्द्रन डी	आर्टी
78259	अनुरूप सिन्हा	आर्टी
78260	आकाश बैनर्जी	इंजिनियर्स
78261	सुधीर कुमार राय	ईएमई
78262	ललित कुमार शिशौदिया	ईएमई
78263	हनीत सिंह सूदन	इन्फैन्ट्री
78264	अमरिन्दर सिंह चौहान	सिगनल्स
78265	शशांक सिंह	ईएमई
78266	विनय कुमार शर्मा	आर्टी
78267	राहुल यादव	आर्टी
78268	पंकज कुमार	इन्फैन्ट्री
78269	आशीष अहलुवालिया	ईएमई
78272	हिमांशू चौबे	ईएमई
78273	विद्याशंकर बालासुर्बमन्या अय्यर	ईएमई
78274	अंकुर अजय बंसल	सिगनल्स
78275	पानीग्रही अरुण रबिन्द्र	इंजिनियर्स
78276	शंहशाह जाफरी	इन्फैन्ट्री
78277	विजेष टी	इंजिनियर्स
78278	जगमित सिंह	इन्फैन्ट्री
78279	कमलेश्वर भट्टाचरजी	इंजिनियर्स
78280	चरणजीत सिंह	आर्टी
78281	वरुण	सिगनल्स
78282	समीर पात्रो	सिगनल्स
78283	कबटियाल प्रशांत रजनीकान्त	ईएमई
78284	दंडवते रोहन नरेश	मैक
78285	अरिजोत बोस	एओसी
78286	अनिवेश कुमार सिंह	आर्टी
78287	सन्नी सिंघल	इंजिनियर्स
78288	गोगीनेनी किरीट प्रसाद	ईएमई
78289	अविनाश शर्मा	आर्टी
78290	गोकुल एल	ईएमई
78291	अलकेश तिवारी	इंजिनियर्स
78292	आकाश दुबे	एओसी

आई सी नं.	नाम	आर्म
78293	ऋषि आर्य	इन्फैन्ट्री
78294	मुनेश कुमार कौशिक	सिगनल्स
78295	करन प्रीत सिंह अरोरा	आर्टी
78296	अभिषेक खोवाला	ईएमई
78297	आकाश कदम	इंजिनियर्स
78298	नागेश देशवाल	एओसी
78299	निकेत कुमार मिश्रा	सिगनल्स
78300	आर्यन	इन्फैन्ट्री
78302	अभिषेक व्यास	एएससी
78303	उदय शंकर राय	इंजिनियर्स
78304	दीपराज सिंह मखलोगा	सिगनल्स
78305	दिव्योशु चतुर्वेदी	इन्फैन्ट्री
78306	प्रसाद शैलेन्द्र महात्मा	इंजिनियर्स
78307	रौशन कुमार	एएससी
78308	परिमल कुमार	ईएमई
78309	भूपेन्द्र सिंह	सिगनल्स
78310	इन्द्रजीत सिंह	ईएमई
78311	नितीश कुमार ओझा	इन्फैन्ट्री
78312	ईशान चौहान	आर्टी
78313	आन्नद मिश्रा	आर्टी
78314	इंदरप्रीत सिंह चाहल	एसी
78315	प्रवीन कुमार बोहरा	ईएमई
78316	नवप्रीत सिंह	एविएशन
78317	अजय बी एन	आर्टी
78318	जनार्धन जी वी वी	एएससी
78320	निखिल सकलानी	एओसी
78321	सुशील कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
78322	मनकर धनंजय दत्तात्रय	एओसी
78323	अशोक आर	इंजिनियर्स

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (एस.सी.)
ले. से कप्तान

एस सी सं.	नाम	आर्म
00675	विनोद कुमार शर्मा	ए सी
00676	अमिर्थनाथन जे	इन्फैन्ट्री
00677	रविन्द्र आर सालुंखे	इंजिनियर्स
00678	एजिलारसन वी	आर्टी
00679	किरशन कुमार, एस एम	ए ओ सी
00680	उमा शंकर पिल्लै	इन्फैन्ट्री
00681	संजय सिंह रावत	ई एम ई
00682	सुशान्त थापा	इंट
00683	जोगिन्द्र सिंह	मैक
00684	बृज लाल	ए ए डी
00685	अमित सिंह	मैक
00686	प्रदीप कुमार	आर्टी
00687	विकाश शाही	ई एम ई
00688	राजदीप	ए एस सी
00689	जे गोपू	सिग्नल्स
00690	बलवन्त सिंह	इन्फैन्ट्री
00691	सौरपु मल्लिकार्जुना	आर्टी
00692	प्रदीप सिंह रावल	इन्फैन्ट्री
00693	टि. एकाँबर रेड्डी	इंजिनियर्स
00694	नितिन जमवाल	इन्फैन्ट्री
00695	संजय कुमार सामल	आर्टी
00696	नवीन कुमार	इन्फैन्ट्री
00697	आशीष गुरुंग	ए ए डी
00698	किशोर वर्गीस	इन्फैन्ट्री
00699	कुन्दन कुमार	इंजिनियर्स
00700	दीपक कुमार	इन्फैन्ट्री
00701	शंकर वी बोरगावी	इंजिनियर्स
00702	बीरेश्वर डेका	आर्टी
00703	सेवॉंग दोरजी	इन्फैन्ट्री
00704	संतोष कुमार तिवारी	सिग्नल्स
00705	जय सिंह	आर्टी

एस सी सं.	नाम	आर्म
00706	विशाल शाही	ई एम ई
00707	राकेश पाणी	सिग्नल्स
00708	हरी चन्द्रा	आर्टी
00709	पंकज कुमार	इन्फैन्ट्री
00710	भास्कर विजय तुकाराम	इन्फैन्ट्री
00711	गुरविन्दर सिंह नागरा	आर्टी
00712	गौरव जीत	ए सी
00713	अजिमोन सी ए	ए ओ सी
00714	लाड उत्कर्ष वसन्तराव	ए एस सी
00715	अनिल कुमार	इन्फैन्ट्री

—09 जून 2014

शंकर बसु
उप निदेशक
एम एस 8सी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 17th January 2015

No. 7, dated 24th December 2014—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

MAJ TO BE LT COL

PERS NO	NAME	ARMS
IC-65069	MANOJ CHAUDHARY	INF

---02 MAY 2014

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
56494	PRAVEEN SINGH BHADAURIA	INF	04 May 2014
56497	MRITUNJAY KUMAR SINGH	AOC	04 May 2014
56500	SIBY THOMAS	INF	04 May 2014
56501	AJAY DHOBAL	M/INF	04 May 2014
56502	SWAPAN KUMAR SAXENA	ARTY	04 May 2014
56504	DEEPAK SHARMA	SIGS	04 May 2014
56505	MAYANK SAHAI	AC	04 May 2014
56506	SURESH KUMAR	EME	04 May 2014
56508	SATYA PRIYA SAXENA	M/INF	04 May 2014
56509	KR KODHANDA RAMAN	INF	04 May 2014
56522	MOHIT NIGAM	AEC	04 May 2014
56523	ALIP KUMAR ROY	ENGRS	04 May 2014
56524	NITIN HANS	INF	04 May 2014
56525	AMIT KUMAR CHHETRI	INF	04 May 2014
56526	ANURAG SHARMA	ARTY	04 May 2014
64971	ABHISHEK SINGH	AC	02 May 2014
64972	NARAYAN SINGH BHATI	INF	02 May 2014
64974	RAJNEESH KUMAR	AAD	02 May 2014
64975	ATIQUE AHMED MOHD KASIM SIDDQUI	ARTY	02 May 2014
64976	H SABARINATH	INF	02 May 2014
64977	MANISH THAKUR	SIGS	02 May 2014
64978	ARUN KUMAR CHAUBEY	EME	02 May 2014
64979	TARVENI PARSHAD SHARMA	INF	02 May 2014
64980	K PURNA CHANDRA RAO	ENGRS	02 May 2014
64981	GIRISH AWASTHY	MECH INF	02 May 2014
64982	SUMIT SABHARWAL	ARTY	02 May 2014
64984	DEVENDER ANAND	ARTY	02 May 2014
64985	PARVEEN KUMAR	INF	02 May 2014
64987	GORAKH SINGH SENER	INF	02 May 2014

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
64988	SUNIL KUMAR	AC	02 May 2014
64990	VIVEK SINGH CHUNDAWAT	INF	02 May 2014
64993	GURINDER PAL SINGH AMOLE	ARTY	02 May 2014
64994	SHASHI BHUSHAN JAT	AAD	02 May 2014
64995	SHAILENDRA KUMAR SINGH	INF	02 May 2014
64996	DEEPAK KUMAR SINGH MEHRA	AAD	02 May 2014
64997	SANDEEP DUGGAL	AC	02 May 2014
64998	ADWITIYA KUMAR SINHA	ASC	02 May 2014
64999	VISHAL RANA	INF	02 May 2014
65000	DEBARAJ BHATTACHARYA	INF	02 May 2014
65001	ALOK SHUKLA	ARTY	02 May 2014
65002	GAGAN MALHOTRA	ARTY	02 May 2014
65004	PAWAN SINGH	EME	02 May 2014
65005	ANUJ SUDAN	AC	02 May 2014
65006	SAMIR BHARTI	INF	02 May 2014
65007	GULREZ HASAN	ARTY	02 May 2014
65008	ASHISH KHANNA	M/INF	02 May 2014
65010	SANJAY YADAV	ARTY	02 May 2014
65011	VIKAS	INF	02 May 2014
65012	DILEEP R	EME	02 May 2014
65014	V SIVARAMAN	ENGRS	02 May 2014
65015	SUBHASH SINGH CHAUHAN	INF	02 May 2014
65016	SAMBIT KUMAR SAHU	ARTY	02 May 2014
65018	HARSH VARDHAN SINGH RATHORE	AOC	02 May 2014
65021	ASHOK KUMAR MISRA	INF	02 May 2014
65022	DINESH SINGH TANWER	INF	02 May 2014
65023	INDRAJIT GHOSH	INF	02 May 2014
65024	NARENDRA SINGH SHEKHAWAT	ENGRS	02 May 2014
65025	SAURABH SHARMA	ARTY	02 May 2014
65026	SAMEER AWASHTHI	ARTY	02 May 2014
65027	VIJAY SINGH	INF	02 May 2014
65029	AMIT KANDARI	INF	02 May 2014
65031	ASHWINI KUMAR LAL	ENGRS	02 May 2014
65032	PRADEEP SHARMA	ENGRS	02 May 2014
65033	SHAILESH SATYARTHI	ARTY	02 May 2014
65034	DEEPAK CHOUDHARY	AAD	02 May 2014
65035	SHAILESH P RAO	INF	02 May 2014

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
65038	SUKHDEEP SINGH	INF	02 May 2014
65039	NARESH PARASHAR	AAD	02 May 2014
65040	PRASENJIT BASU	INF	02 May 2014
65041	NEELGAGAN SINGH KATHURIA	MECH INF	02 May 2014
65042	SHAUOOR ANJUM	EME	02 May 2014
65044	PANKAJ RAWAT	ENGRS	02 May 2014
65045	JAGDEEP SINGH	INF	02 May 2014
65048	NARENDER PRASAD	INF	02 May 2014
65050	KISHAN SINGH MEHRA	ARTY	02 May 2014
65051	HAROLD THOMAS	ARTY	02 May 2014
65052	AMARPREET SINGH	ARTY	02 May 2014
65053	RAHUL NANJAPPA	INF	02 May 2014
65054	DUBASH FIRDOSH PERVEZ	INF	02 May 2014
65055	JOGINDER PAL SINGH	INF	02 May 2014
65056	KAILASH BISHT	ASC	02 May 2014
65057	NAMIT MINOCHA	ARTY	02 May 2014
65058	BHANU PRATAP SINGH	INF	02 May 2014
65059	MAHENDRA SINGH DHARIWAL	INF	02 May 2014
65060	AMIT KUMAR KARNWAL	ARTY	02 May 2014
65061	JISSANTO K	INT	02 May 2014
65062	KASHISH WADHWA	INF	02 May 2014
65063	JERRY MANOHAR	INT	02 May 2014
65064	RAJBIR SINGH	INF	02 May 2014
65065	SANTOSH KUMAR SINGH	INF	02 May 2014
65066	ANISH KATOCH	ARTY	02 May 2014
65067	GURMINDER SINGH	ARTY	02 May 2014
65068	MANIK TREHAN	AC	02 May 2014
65070	JAVED ABDI	ARTY	02 May 2014
65071	RAVI JI RAINA	ARTY	02 May 2014
65072	SHRAVAN KUMAR AGRAWAL	INT	02 May 2014
65073	GURUMAYUM RANJIT SHARMA	INF	02 May 2014
65074	VIJAY ABRAHAM THAMPY	ENGRS	02 May 2014
65076	SHALABH CHAUDHARY	INF	02 May 2014
65077	MAHAVIR SINGH	ARTY	02 May 2014
65078	ANUBHAV GAIROLA	AC	02 May 2014
65080	VIKRANT	AOC	02 May 2014
65081	DISOUZA GEORGE RUJAY	INF	02 May 2014
65082	ARUN KUMAR DUTAA	ENGRS	02 May 2014
65083	MANISH MOHAN SINHA	ASC	02 May 2014
65085	ADEEP PAUL PANESAR	EME	02 May 2014

IC NO	NAME	ARM	Date of Promotion
65086	NISHEETH THAPLIYAL	INF	02 May 2014
65088	J SHERRY	ENGRS	02 May 2014
65089	SAMRAT NAGAR	MECH INF	02 May 2014
65090	PRAVEEN KUMAR	EME	02 May 2014
65091	SAMEER SOMAN	ARTY	02 May 2014
65093	RAVI RAJA	INF	02 May 2014
65096	SHALYA CHAUDHARY	INF	02 May 2014
65098	BHUPINDER SINGH SANDHU	INF	02 May 2014
65099	P PRAMOTH	ARTY	02 May 2014
65100	ALOK KUMAR SINHA	INF	02 May 2014
65101	SAURABH KHANNA	ARTY	02 May 2014
65102	DHIRAJ MODGIL	JAG	02 May 2014
65103	MANISH KUMAR	INF	02 May 2014
65104	DINESH CHANDER VASHISTA	AOC	02 May 2014
65105	AMIT AWASTHI	INF	02 May 2014
65108	SHAMAN KUMAR	INF	02 May 2014
65110	ISHAN RAJAVARAPU	ARTY	02 May 2014
65791	DUTTA BIJITESH BIBHAS	EME	08 May 2014
65793	RATAN SAIN SINGH	SIGS	08 May 2014
65794	NEERAJ DADWAL	EME	08 May 2014
65795	AJAY KUMAR SHARMA	ENGRS	08 May 2014
65796	DEBASISH SINHA	EME	08 May 2014
65797	FAJLUL BARI SARSHAAR	ENGRS	08 May 2014
65798	GAGANDEEP SINGH	EME	08 May 2014
SS-39976	TAPAN MISHRA	ENGRS	08 May 2014
IC-58764	PENUKONDA FERAZ ALI KHAN	ASC	12 Jun 2014
IC-59697	ASHISH TANDON	ENGRS	10 Jun 2014
IC-60109	LOK BAHADUR MALL	AOC	09 Jun 2014
IC-60401	GAURAV NARANG	ENGRS	09 Dec 2013
IC-60445	ABHIJAT KUSHWAHA	GUARD MECH	09 Jun 2014
IC-62443	JITENDRA KUMAR VERMA	ENGRS	21 Oct 2013
IC-64833	SANJAY KUMAR	ENGRS	04 May 2014

SC NO	NAME	ARM
SC00297	MANJANATH	AC
SC00298	AVIJIT DAS	ASC
SC00300	SANJEEV N	INF
SC00302	MADHUSOODHANAN BV	AOC
SC00303	THAM BAHADUR SHRESTHA	INF
SC00304	DILBAG SINGH RANA	ARTY

SC NO	NAME	ARM
SC00305	K ANNADURAI	INF
SC00307	BACHE SINGH	ARTY
SC00308	M MANICKARAJ	INF
SC00309	PIAR SINGH BEATOIA	INF
SC00310	DAMODARAN P	ARTY
SC00312	H SHUKOOR	AAD
SC00313	VINOD KUMAR	AC
SC00314	LAXMAN SINGH BHANDAR	ARTY
SC00315	VINAY GURUNG	MECH INF
SC00316	A SINGARAJ	INF
SC00317	SANKARANARAYANANT	ARTY
SC00319	MAHENDRA SINGH	INF
SC00320	GUNAKAR BARIK	AOC
SC00324	TARSAM LAL	AOC
SC00325	PROTAM SINGH	ARTY
SC00326	NARAYANAN EV	ARTY
SC00327	NARENDER SINGH YADAV	AC
SC00328	G VETRIVEL MURUGAN	INF
SC00330	HOSHIYAR SINGH	ASC
SC00331	SURESH CHANDRA JOSHI	INF
SC00332	YESHPAL SINGH	INF
SC00333	PAWAN SINGH	AAD
SC00334	LAKHVINDER SINGH	INF
SC00335	TEJ BAHADUR THAPA	INF
SC00336	MAHENDRA KUMAR	ASC
SC00337	AJAY KUMAR	ASC
SC00339	VIRENDER KUMAR SHARMA	INF
SC00340	NANDA KUMAR CB	INF
SC00341	JASVIR SINGH	INF
SC00342	SUNIL KUMAR DHAIYA	AC
SC00343	AKSHYA KUMAR DASH	INF
SC00344	LAKSHMAN SINGH GUSAIN	INF
SC00347	RAMKRUSHNA RANGRAO WAGH	AOC
SC00349	AJAY KUMAR SINGH	INF
SC00350	RAMAN KUMAR	ASC
SC00352	RAMESH CHANDER	MECH INF
SC00353	TARSEN LAL SHARMA	ARTY
SC00356	GULAM MOHAMMAD KHAN	INF
SC00357	GANGA BAHADUR THAPA	INF
SC00359	KISHORI BANSILAL	ASC
SC00361	KULDEEP SINGH	ASC

SC NO	NAME	ARM
SC00362	S ABDUL KALOON	AOC
SC00365	PRAVATA KUMAR DHAL	INF
SC00366	K LAXMINARAYANA	ARTY
SC00369	NANDA BALLABH	INF
SC00370	SHASHI BHUSHAN	INF
SC00371	JAY PRAKASH JOSHI	ARTY
SC00372	VISHNU KUMAR MAURYA	AAD
SC00373	MATHEW KA	INF
SC00376	RANDHIR SINGH GILL	INF
SC00380	CHACKO VD	MECH INF
SC00381	RATTAN SINGH THUKRAN	INF
SC00383	MUFTI MASOOD AHMAD	AC
SC00385	KALYANA SUNDARAM S	ARTY
SC00387	ARJUN PRASAD	INF
SC00389	KISHOR KUMAR SINGH	INF
SC00391	SUNIL S PILLAI	AC
SC00394	ROOP LAL PANHOTRA	ASC

---09 Jun 2014

SL No	NAME	ARMS	Effective Date
SL-04822	VIKRAM S DHAYAL	APTC	11 DEC 2006

SANKAR BOSE
Dy Dir
MS 8C

No. 8, dated 26th December 2014—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
MAJ TO BE LT COL

IC NO	NAME	ARMS/SERVICES
47029	BHAGAT P KAMAL	INF

---16 DEC 2004

IC NO.	NAME	ARMS	DATE OF PROMOTION
IC-53272	Jagannath B Nisonko	Engrs	21 Oct 13
IC-55384	Savalge Vikas B	ASC	21 Oct 13
IC-55737	Anil Kumar Chauhan	AOC	21 Oct 13
IC-56057	S Kuswaha	Inf	21 Oct 13
IC-56261	Man Mohan Singh	Arty	21 Oct 13
IC-56268	Nitin Sahai	Arty	21 Oct 13
IC-56290	Rajeev Kumar	EME	21 Oct 13
IC-56337	Praveen Jain	EME	21 Oct 13

IC NO.	NAME	ARMS	DATE OF PROMOTION
IC-56377	Gurminder Pal Singh	EME	21 Oct 13
IC-56431	Kanwaljit Singh Bajwa	Int	21 Oct 13
IC-56452	Clinton Reuben	Inf	21 Oct 13
IC-56484	Neeraj Kumar	Sigs	21 Oct 13
IC-56514	Vandana Tiwari	AEC	21 Oct 13
IC-57535	Amandeep Singh	AC	21 Oct 13
IC-58414	Harish Chandra Pant	EME	21 Oct 13
IC-58492	Manish Singh Bist	Inf	21 Oct 13
IC-58533	Govind R Faria	EME	21 Oct 13
IC-59053	Manoj Kumar Singh	Engrs	21 Oct 13
IC-59182	Om Prakash Mishra	Inf	21 Oct 13
IC-59259	S Suneel Reddy	Sigs	21 Oct 13
IC-59455	Diwakar Kumar	ASC	21 Oct 13
IC-59458	Dev Kumar Singh	Inf	21 Oct 13
IC-59468	J Naveen Kumar	Arty	21 Oct 13
IC-59740	Sandeep Kumar	ASC	21 Oct 13
IC-59822	Deepak Kumar	ASC	10 Jun 13
IC-59849	TN Unnikrishnan	Inf	21 Oct 13
IC-59857	Naresh Kumar	Inf	21 Oct 13
IC-59901	Santanu Das	Sigs	10 Jun 13
IC-59915	Deepak Dobriyal	ASC	21 Oct 13
IC-59972	Himanshu	Arty	21 Oct 13
IC-60071	Atre Devdutta Prabhakar	Engrs	21 Oct 13
IC-60269	Puneet Sharma	Engrs	09 Dec 13
IC-61253	Sanjay Malik	Engrs	21 Oct 13
IC-61993	K S Silva Kumar	Sigs	21 Oct 13
IC-64840	Alok Shukla	JAG	04 Nov 13
IC-64844	Shakum Kamboj	EME	04 Nov 13
IC-64847	V Rai	Inf	04 Nov 13
IC-64878	Tushar Parey	Inf	04 Nov 13
IC-64909	P Suresh	Arty	04 Nov 13
IC-64931	Prasad Santosh Krishna	Arty	04 Nov 13
WS-00654	S Sehgal	Sigs	21 Oct 13
SC-00117	Thankan MK	INT	21 Oct 13
SC-00137	Rajinder Kumar Sharma	Inf	21 Oct 13
SC-00189	Yogendra Pal	Engrs	21 Oct 13
SC-00195	Prakash KT	ASC	21 Oct 13
SC-00248	Harkesh Kumar	EME	21 Oct 13
SC-00272	Gracian Sequiera	EME	10 Jun 13
SC-00275	J Mathew	EME	21 Oct 13
SC-00277	DK Tripathi	Sigs	21 Oct 13

IC NO.	NAME	ARMS	DATE OF PROMOTION
SC-00288	Raghunath Singh	Inf	21 Oct 13
SC-00296	Shaju TJ	M. Inf	09 Dec 13
IC-59759	VA Rastogi	Inf	10 Jun 13
IC-59961	Pawar Jayesh Madhukar	AC	10 Jun 13
IC-60456	Sachin Pandey	Engrs	09 Dec 13
IC-59823	Hartej Pal Singh	Sigs	10 Jun 13
IC-62477	Shiv Shankar Singh Hazari	Engrs	11 Jun 13
SL-04542	Vikram Singh Chhikara	SL B/R	21 Oct 13
IC60135	SUNIL KUMAR	ENGRS	09 Dec 2013
IC60156	AJIT KUMAR REDDY	EME	09 Dec 2013
IC60158	PUNEET CHAUHAN	ENGRS	09 Dec 2013
IC60170	AMNINDER SINGH BAINS	INF	09 Dec 2013
IC60333	OMPAL SINGH	AC	09 Dec 2013
IC60352	KAMLESH SINGH RATHORE	ARTY	09 Dec 2013
IC60390	LALIT MOHAN MISHRA	INF	09 Dec 2013
IC60428	UPENDRA KUMAR SRIVASTAVA	ARTY	09 Dec 2013
IC60465	GAGAN DEEP SINGH	ASC	09 Dec 2013
IC62936	MANDAR CHANDRASHEKAR KODNIKAR	ENGRS	10 Dec 2013
IC62937	RAJNEESH SHUKLA	INT	10 Dec 2013

WS NO.	NAME	ARMS	Date of Promotion
00693	KV SUDHA	ENGRS	07 Mar 14
00702	INDERJEET KAUR	EME	07 Mar 14
00703	AGRAWAL ANUPAMA OMPRAKASH	ENGRS	07 Mar 14
00727	SIMI BASHEER	SIGS	07 Mar 14
00732	NAMRITA WAGHRAY	EME	07 Mar 14
00734	AMRITA SINGH	EME	07 Mar 14
IC-64855	ASTHA KOTNALA	AEC	02 Mar 14

VIHAG SNEHAL
Dy Dir
MS 8C

No. 9, dated 29th December 2014—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
CAPT TO BE MAJ

IC No.	Name	Arm	Date of Subs Maj
66535	GURVINDER SINGH BHATTI	ENGRS	17 OCT 10
66688	SANTOSH KUMAR BHARMORIA	INF	17 APR 13

IC No.	Name	Arm	Date of Subs Maj
66689	RANJEET SINGH	AC	17 APR 13
66690	CHANDAN KHARYAL	ARTY	17 APR 13
66691	ADWIT PATNAIK	INF	17 APR 13
67973	KULDEEP KUMAR DABRAL	INF	10 JUN 12
IC-69117	KANADE AMEY DILIP	ARTY	09 Jun 13
IC-69162	AJAY BENIWAL	INF	09 Jun 13
IC-69510	KARTIK SOOD	AEC	09 Jun 13
IC-69658	KARTHICKRAJ P	ASC	10 Dec 13
IC-69694	SUMANT MAHAJAN	ARTY	10 Dec 13
IC-69748	VARUNESH RAO	AAD	10 Dec 13
IC-69749	A CHAUDHARY	ENGRS	10 Dec 13
IC-70015	MD. HAYAT	ARTY	10 Dec 13
IC-70103	MANIK PANWAR	MECH INF	10 Dec 13
IC-73323	SHAKTI POONIA	ENGRS	22 Apr 14
IC-73331	RAJENDER SINGH PHARTYAL	ENGRS	22 Apr 14
IC-73432	AMIT BHARDWAJ	ARTY	22 Apr 14
SS-42695	TIWARI SANDIP KUMAR SHRIRAM	ENGRS	22 Apr 14
SS-42728	ASHUTOSH RAWAT	ENGRS	22 Apr 14
SS-42810	RUPESH CHAKRABORTY	ENGRS	22 Apr 14

IC No	Name	Arm/Service
70182	VAIBHAV SINHA	AC
70183	RUDRA PRATAP SINGH RANA	INF
70185	DIPAK CHANDRA JHA	AOC
70186	LOKESH SHUKLA	INF
70187	RAJA G	INF
70188	SUNDEEP KARWASRA	INF
70189	T SHEKAR	ENGRS
70190	AVNEESH KUMAR PAYAL	AAD
70191	UMESH PHALSWAL	ASC
70192	RAJENDER KUMAR	ENGRS
70193	NIKHIL MOHAN	MECH
70194	SUMEET BHARDWAJ	SIGS
70195	AMIT KHARE	ARTY
70196	VIKASH	INF
70197	SUNDEEP KUMAR POONIA	INF
70198	NEERAJ KUMAR SINGH	INF
70199	VIKAS KUMAR RAYWAR	ARTY

IC No	Name	Arm/Service
70200	NISAL RAHUL TUKARAM	ARTY
70201	NAYYER SIDDIQI	ARTY
70202	DINESH YADAV	INF
70203	SHIVAM GOSWAMI	MECH
70204	VIVEKBALA B	ARTY
70205	KARAMJEET SANGWAN	AC
70206	SURAJ SINHA	ENGRS
70207	ARUNKUMAR NAMADEV BANASODE	INF
70208	KAPIL KUMAR	EME
70209	BHUPENDER TYAGI	INF
70210	PRADEEP POONIA	INF
70211	AWADH GUNJAN	INF
70212	SUNIL KUMAR	ARTY
70213	PRASHANT SINGH BAGHEL	INF
70214	SHIVESH TIWARI	INF
70215	NAVEEN KUMAR	AAD
70216	PRASHANT CHANNAPPA MURAL	ARTY
70217	KANE HARSHAD SURESH	ARTY
70218	PRAVEEN P K	INF
70219	SIDDHARTH SINGH	INF
70220	ADITYA SHARMA	AC
70221	HIMANSHU BHANDARI	ARTY
70222	ASHISH RANJAN	ARTY
70223	RAJU MONDAL	INF
70224	ABHISHEK KUMAR	INF
70225	NITIN SEHRAWAT	INF
70226	GURBHEJ SINGH	ARTY
70227	RAJESH KUMAR	ARTY
70228	SATYENDRA PANDEY	ARTY
70229	ABHISHEK SINHA	INF
70230	RAJIV YADAV	EME
70231	ASHWIN S	ARTY
70232	PULIN UPMANYU	AC
70233	SHYAM KISHORE DWIVEDI	ARTY
70234	YOGESH KUMAR	AOC
70235	SATWIK PATJOSHI	ARTY
70236	ABHISHEK SINGH GOBARI	SIGS
70237	PRAPHUL KUMAR BHARDWAJ	INF
70238	ANKUSH RANA	ARTY
70239	SUNIL KUMAR PHOGAT	AOC
70240	SIDDHARTHA YADAV	ENGRS

IC No	Name	Arm/Service
70242	MANOJ KUMAR	ASC
70243	RAHUL MANDAL	ARTY
70244	RAJIV KUMAR	MECH
70245	PANKAJ BISHT	INF
70246	KUSHAGRA ARORA	MECH
70247	SANGAM KUMAR	INF
70248	PRASHANTH BHAT	ARTY
70249	SHUBHAM TRIPATHI	ARTY
70250	PRAVIN KUMAR SONKAR	ENGRS
70251	KARAN LANG	ARTY
70252	VIKRAMJIT SINGH KHANNA	INF
70253	ALOK KUMAR	INF
70254	ANKIT SAXENA	ARTY
70255	SUJIT KUMAR SWAIN	ARTY
70256	SANA PAVAN KUMAR	ARTY
70257	HRIDAY KANT BHARDWAJ	INF
70258	SOMENDRA KUMAR	INF
70259	SURAM SINGH	INF
70260	ASHISH SHARMA	ARTY
70261	HARVINDER SINGH CHEEMA	ARTY
70262	DEEPAK CHAUHAN	AC
70263	SANDEEP KUMAR YADAV	INF
70264	AJAY KANT BHADOURIA	ASC
70265	GAURAV JUNEJA	EME
70266	HARSH BHATNAGAR	AAD
70269	AMAN KUMAR	MECH
70270	MANDAN OJHA	INF
70271	GANESH R	INF
70272	HARENDER SINGH RAUTELA	ENGRS
70273	VIKAS SINGH DAHIYA	SIGS
70274	NEERAJ MEHTA	INF
70275	AVINASH KUMAR	INF
70276	HARSHAL DNYANDEV BOROLE	INF
70277	SHUBHAM LAKHERA	INF
70278	TATHAGATA HOTA	AAD
70279	KULDEEP SINGH MANOLA	INF
70280	PATIL KRISHNA TUKARAM	ENGRS
70281	VIJAY KUMAR PANDEY	ARTY
70282	SURYANARAYAN PATRA	INF
70283	NEERAJ SINGH BAGHEL	ARTY
70284	KISHOR KUMAR SINGH	AC

IC No	Name	Arm/Service
70285	VINOD GURUNG	AOC
70286	CHILWAL MOHIT PANSINGH	ARTY
70287	AMRITPAL SINGH	INF
70288	JACOB PANICKER M	INF
70289	NITHIN BABU S	ARTY
70290	SAILESH THAPA	MECH
70291	RAHUL KATIYAR	INF
70292	ARAVINTHAN K S	INF
70293	ANKIT TYAGI	ARTY
70294	HIMANSHU PANDEY	ASC
70295	AMIT KUMAR MALIK	ENGRS
70296	MANISH POKHRIYA	INF
70297	RAJESH KUMAR	ARTY
70298	MANOJ MATHPAL	INF
70299	SOUMYA RANJAN PATI	INF
70300	ABHINAV SHARMA	AOC
70301	BIJENDRA PRASAD SINGH	ARTY
70302	HEMANT KUMAR	AOC
70303	GAGAN JETLI	INF
70304	ATISH RANJAN	AAD
70305	ANAND SINGH	ARTY
70306	BRIJPAL SINGH VIRK	AC
70307	TARUN KALAKOTI	SIGS
70308	PRASHANT AGRAWAL	EME
70309	VENKATA SUDHEER BABU P	INF
70310	KARAN THAKUR	ENGRS
70311	KIRAN K NAIR	INF
70312	ANIMESH MANDAL	ARTY
70313	PAWAN SHARMA	EME
70314	ANSHIT SRIVASTAVA	ARTY
70315	SIDDHARTH BHARDWAJ	ARTY
70316	PAWAN KUMAR JAISWAL	INF
70317	ASHISH NEGI	EME
70318	ROHAN KANHAI	ARTY
70319	K PRAVEEN KUMAR	INF
70320	MANISH BHANDARI	INF
70321	SHARMA SAMARKANT RAJANIKANT	INF
70322	ASHISH SINGH	MECH
70323	PANKAJ KUMAR YADAV	AOC
70324	VINIT KUMAR CHETTRI	ASC
70325	PRADEEP KUMAR SANGWAN	INF

IC No	Name	Arm/Service
70326	MOHAMMED KARAM ABBASI	AAD
70327	AMIT SHARAN ANAND	INF
70328	DINESH KUMAR S	ENGRS
70329	SUNIL KUMAR DHANKHAR	AC
70330	MD NOORUDDIN AHMED	INF
70331	RAHUL RANA	INF
70332	DIGVIJAY PATHANIA	AC
70333	AWADESH SINGH	INF
70334	ABHISHEK DATTA	ARTY
70335	AMRIT KUMAR SAO	INF
70336	TAYO CHEUM TAYUM	INF
70337	DALJEET SINGH	INF
70338	VAIBHAV AMMANA RAYANADE	SIGS
70340	ABHIJEET PRAKASH PAWAR	AC
70341	PRASHANT KUMAR	INF
70342	ANIRBAN GHOSH	ARTY
70343	NEERAJ KUMAR	INF
70344	NAVOM CHAUHAN	INF
70345	GAURAV SINGH RAGHAV	ENGRS
70346	BRIJESH THAPLIYAL	INF
70347	HIMANSHU PANT	ARTY
70348	PANKAJ SHARMA	ARTY
70349	ROHIT RANJAN	INF
70351	PREM RAJ SINGH	AC
70352	JIJESH K P	AC
70353	AMARDEEP SINGH DEHAL	ENGRS
70354	SUMIT JOSHI	MECH
70355	AMARDEEP SINGH GILL	INF
70356	RAJAT BHATIA	INF
70357	DEEPAK JOSHI	ARTY
70358	MUKUL MOHAN JETHWANI	ARTY
70359	DHAMI CHANDER SHEKHAR	AOC
70360	SHIV KUMAR SANGWAN	INF
70361	PRANAY KALA	ARTY
70362	SRINIVAS GURURAJ VAIDYA	INF
70363	PREM SINGH	ARTY
70364	ATUL SINGH	INF
70365	VIKALP CHANANA	ARTY
70366	ROHIT LIONEL RASQUINHA	AC
70367	MANOJ RATHEE	INF
70369	ADITYA THAKUR	INF

IC No	Name	Arm/Service
70370	SANJEEV BALIYAN	INF
70371	NEERAJ BHASI	AAD
70372	RAVINDER SINGH PUNDIR	ENGRS
70373	NITIN KUMAR	INF
70374	NAVEEN KUMAR SHARMA	ARTY
70375	DEEPAK BADONI	ENGRS
70376	ANKUR MATHUR	INF
70377	AMIT KUMAR	AC
70378	MUTHU KRISHNAN U	INF
70379	CHANDRA PRAKASH	INF
70380	SUMIT CHHABRA	ARTY
70381	SHISHIR SHUKLA	INF
70382	ALOK PRASAD	AOC
70383	RAJENDER SINGH NEGI	INF
70384	KULDEEP KUMAR SHARMA	ARTY
70386	UDAY RANJAN	AOC
70387	CHIKANE AKHIL YUVARAJ	MECH
70388	AJAY VIKRAM SINGH	INF
70389	ANKIT CHATURVEDI	ARTY
70390	TAKHELLAMBAM SHENGOI SINGH	INF
70391	ROHIT KUMAR MISHRA	ARTY
70392	MAYANK PUN	ARTY
70393	PANKAJ BHATT	ARTY
70394	JANGA BAHADUR CHHATHRI	ARTY
70395	VIRAJ SUNIL KAMBLE	SIGS
70396	KAMLESH KUMAR	INF
70398	UDAY SINGH RANA	INF
70399	GAJAY SINGH TANWAR	INF
70400	MUDALIAR ROHAN JAGDISH	AAD
70401	VIPUL SINGH PARIHAR	INF
70402	M S MANURAJ	ARTY
70403	AMIT VIJAY MANE	INF
70405	JITENDRA TOMAR	ARTY
70406	SONU RAI	AOC
70407	ROHIT SHARMA	INF
70408	JAI KISHAN NARANG	AOC
70409	BIRENDRA SINGH	ARTY
70410	SWAPNIL POPATRAO ZENDE	ARTY
70411	SWINDER SINGH	MECH
70412	RAMESH KUMAR SHARMA	EME
70413	AMAN DEEP SINGH	INF

IC No	Name	Arm/Service
70414	M S ARUN	AC
70415	ANSHUL ASWAL	AOC
70416	AJAY KUMAR SHARMA	AC
70417	VIKRAM SINGH SHEKHAWAT	AAD
70418	WASIM AHMED	ARTY
70419	SARBJEET SINGH	ARTY
70420	DURGESH CHANDRA GAUR	ENGRS
70421	PUSHPENDRA K SINGH	ARTY
70422	PRIYANSHU GOYAL	ARTY
70423	AVINASH LALANIYA	INF
70424	RAHUL SHARMA	ARTY
70426	KARAN SHARMA	MECH
70427	SWATANTRA SINGH KASHYAP	INF
70428	VARUN KHAJURIA	INF
70429	SHIRISH ASHOK SAYANAKAR	INF
70430	NITESH TEOTIA	SIGS
70431	SUDHANSHU MISHRA	ARTY
70432	VAIBHAV VISHESH	INF
70433	NITIN NARULA	ENGRS
70434	SATENDRA SINGH	INT
70435	NIKETAN SINGH	AOC
70436	PANKAJ SHARMA	AAD
70437	KARNVEER RAJAWAT	ASC
70438	BIRESWAR RAY	INF
70439	VIKAS KUMAR	ARTY
70440	SABYASACHI KHETI	MECH
70441	AKASH KUMAR	ASC
70442	GAURAV SINGH	ARTY
70443	SHIVAM PANDEY	ARTY
70444	SUDIP SINGH KANWAR	EME
70445	KANNAO SWAPNIL SUDHAKAR	INF
70446	PRAMOD KUMAR PRASAD	INF
70447	PRAVEEN KUMAR SINGH	ARTY
70448	SHASHI KUMAR JHA	INF
70449	CHANDER PRAKASH SINGH	INF
70450	KAPISTHALAM G GOUTHAM	ENGRS
70451	SAURABH SINGH KATHAIT	INF
70452	NITIN KUMAR	AC
70453	SANDEEP KUMAR	INF
70454	SUBHASH BHAKAL	INF
70455	THAKUR SURAJ PRAKASH	INF

IC No	Name	Arm/Service
70456	YUVRAJ SINGH	INF
70457	AMIT MADHUKAR	ASC
70458	SWAROOP P	ARTY
70459	JAGDEEP KUMAR VASHIST	INF
70460	ARJUN KUMAR BUTOLA	INF
70461	NEEL KANT SWARUP SAXENA	AOC
70462	SAGAR PADMAKAR JOSHI	INT
70463	SATAWALEKAR SHRINIVAS SURESH	INF
70464	VARUN KUMAR	ENGRS
70465	VIRENDRA SINGH CHAUHAN	INF
70466	AJIT SINGH RATHORE	INF
70467	ZUBIN SOLANKI	INF
70468	PONNAPPA NN	AOC
70469	RISHABH SRIVASTAVA	INF
70470	KHADKA UPENDRA KHADAK	INF
70471	GOURI SHANKAR PANDEY	ENGRS
70472	RAHUL	ARTY
70473	PREM ANANTH J	ARTY
70474	ANUJ SHARMA	AC
70476	MANASH DAS	SIGS
70477	TUSHAAR MENON	INF
70478	RAKESH KUMAR	INF
70479	SAURABH SINGH BORA	ARTY
70480	PRASHANT KUMAR	INF
70481	MANDIP SHAW	INF
70482	PALVINDER SINGH MANHAS	INF
70484	VAIBHAV AGARWAL	INF
70485	GAGANDEEP SINGH	ASC
70486	VAIBHAV SHAH	INF
70487	MAHENDER KUMAR	SIGS
70488	AMIT DUGGAL	AC
70489	VIKRANT SHARMA	INF
70490	AYUSH KHATTRI	INF
70491	SANTOSH SAHEBRAO GHADGE	EME
70492	ANUVANSH RAWAT	INF
70494	RAJINDER SINGH	ARTY
70495	MOHD IRSHAD KHAN	MECH
70496	HARSHENDU JAICHAND	AC
70497	GURPAL SINGH GILL	ASC
70498	MAHADEV SINGH RATHORE	AC
70499	SAHENDER KUMAR	INF

IC No	Name	Arm/Service
70500	PATHANIA MUKUL RAGHU	INF
70501	SANJEEV SHARMA	MECH
70502	AMIT SHAH	ENGRS
70503	ANSHUMAN BHARDWAJ	ARTY
70504	ASHUN REDHU	INF
70505	SANDEEPRAHA ROY	AOC
70506	ADITYA BENIWAL	AAD
70507	SAYANTAN DAS	ARTY
70508	HIMANSHU PANDE	ARTY
70509	MANISH KUMAR SINGH	INF
70510	MAHULI OMKAR MOHAN	ARTY
70511	DEEPAK SINGH	ENGRS
70512	SIDDHARTH PANDEY	ARTY
70513	LAV SHRIVASTAVA	ARTY
70514	RAVI BHUSHAN	INF
70515	VARUN KUMAR DEVRANI	ARTY
70516	KAMAL KISHOR	ARTY
70517	ANKOLEKAR PRASHANT KRISHNA	ARTY
70518	SHASHI BHUSHAN SINGH	EME
70519	MD FAZAL HAQUE	ARTY
70520	MANISH KUMAR	INF
70521	ABHISHEK KUMAR SINGH	AC
70522	MAYANK DALAL	SIGS
70523	KESAR PRASAD RAI	INF
70524	SUKHPREET SINGH SALUJA	ENGRS
70525	VISHVAMITRA KUSHWAHA	ARTY
70526	ROHIT JATAIN	INF
70527	AJAY KUMAR	MECH
70528	PRANJAL S PARADKAR	INF
70529	DIWAKAR SHARMA	AC
70530	HIMANSHU BISHT	INF
70531	MANOJ KUMAR SINGH	AAD
70532	K SACHIN SINGHA	ARTY
70533	VISHAL GOYAL	ARTY
70534	TULASI SHANKAR K	ASC
70536	ABHIJIT DEORI	INF
70537	SUNIL KUMAR	INF
70538	ANURAG KUMAR GUPTA	MECH
70539	DADDA SANTOSH KUMAR	INF
70540	PRASHANT YADAV	INF
70541	DONGRE AMEY ANIL	ARTY

IC No	Name	Arm/Service
70542	RAKESH ROUSHAN	INF
70543	MOHAN SINGH RATHORE	INF
70544	SOMNATH MISHRA	INF
70545	ASHWANI KUMAR JHA	INF
70546	JANARDAN SHARMA	INF
70547	SUDEEP KRISHNA	ARTY
70548	SHASHANK KUMAR BHARDWAJ	INF
70549	TAOREM BIRJIT KUMAR	INF
70550	KABRA ATUL ARVIND KUMAR	ARTY
70551	DEEPU MOOLAYIL	EME
70552	RAVINDRA SINGH RAJPUT	ARTY
70553	ANIRUDH DHANKHAR	INF
70554	MOHIT SAXENA	AOC
70555	KABIR DUTT	AC
70556	UDAY PANDURANG BAROTE	ARTY
70557	SAURABH BANERJEE	ARTY
70558	JEETU SINGH CHAUHAN	AOC
70559	NIRAJ KUMAR	INF
70560	VIVEK CHATURVEDI	INF
70561	PRASHANT RAWAT	INF
70562	RAKESH MALHOTRA	AOC
70563	SHIVAYOGI SHIVARAJ PATIL	EME
70564	MANOJ PARMAR	INF
70565	PULKITENDRAKAR SINGH	ARTY
70566	ASHISH KUKRETI	ARTY
70567	BHUPENDER SINGH CHHIKARA	INF
70568	VISHVESH KUMAR MISHRA	AC
70569	ASHISH MAHAJAN	ARTY
70570	VIGNESH JAGADALE G	ENGRS
70571	BINOD KUMAR SINGH	INF
70572	DEEPAK SAINI	INF
70573	PRADEEP SINGH	AC
70574	HANS RAJ SINGH	MECH
70575	MAYANK SHARMA	INF
70576	KANWAL PREET	INF
70577	SHUBHAM TRIPATHI	ARTY
70579	VISHWA BANDHU SHARMA	ENGRS
70580	ABHIJEET BANERJEE	SIGS
70581	JITENDRA VERMA	MECH
70583	KUMAR GAURAV	INF
70584	GERRY MATHEW	INF

IC No	Name	Arm/Service
70585	SHOBHIT AWASTHI	ENGRS
70586	ALOK MEHTA	AAD
70587	ROSHAN FRANCIS ALAPPAT	INF
70588	VIPUL KUMAR	ARTY
70589	VIKAS MISHRA	ARTY
70590	RITESH BAJPAI	INF
70591	LALESH KUMAR SINGH	INF
70592	RAHUL YADAV	ENGRS
70593	DENNIS	EME
70594	PRARIT KAPOOR	AOC
70595	AKSHAY GHORPADE	INF
70596	SANDEEP KUMAR	AOC
70598	VISHNU R CHIKKORDE	ARTY
70599	SANTOSH KUMAR SINGH	ASC
70600	RAVISH DUA	ARTY
70601	NITIN KUMAR CHAUDHRY	AOC
70602	SUTAR ALOUKIK VIJAY	ENGRS
70603	AVANEESH GOSWAMI	MECH
70604	MANGESH RAGHUNATH DESHMUKH	ENGRS
70605	SANDIPAN DEY	ARTY
70606	JAI NAITHANI	SIGS
70607	RAHUL SRIVASTAVA	EME
70608	KULDEEP SINGH NAGRA	SIGS
70609	ANAND JHA	ARTY
70610	ADITYA PRAKASH MAURYA	EME
70611	VIKRAM SHAHI	INF
70612	PUSHPENDRA NATH GHOSH	ENGRS
70613	RAJAN SINGH	EME
70614	MARATHE AKSHAY ARUN	ARTY
70615	IQBALJEET SINGH DHILLON	INF
70616	SANJAY KUMAR YADAV	ENGRS
70617	MOHIT ARORA	ASC
70618	V SANDEEP	INF
70619	SUDHIR RANJAN BEHERA	INF
70620	VIBHOR JAIN	ENGRS
70621	SHAILESH ANEEL JOSHI	ARTY
70622	PRATEEK MEHTA	ENGRS
70623	ASHISH CHHIKARA	ASC
70624	MANE SWAPNIL SATISH	EME
70625	SHEKHAR OHLAN	AC
70626	ANKIT AGGARWAL	AAD

IC No	Name	Arm/Service
70627	GAURAV THAKUR	EME
70628	SURAJ PAL	INF
70629	SUMIT KUMAR	ARTY
70630	VIVEK SINGH CHAUHAN	SIGS
70631	BHAVY KULSHRESTHA	INF
70632	VIKRAMADITYA SINGH	AC
70633	NITESH BHARDWAJ	SIGS
70634	ROHIT CHUGH	EME
70635	JHA ABHISHEK KUMAR	MECH
70636	RAMAKANT YADAV	AC
70637	MANAS BAJPAI	SIGS
70638	SAMRAT SINGH DHINDSA	ARTY
70639	VINAY GUPTA	ENGRS
70640	SOURAV GOSWAMI	INF
70641	VARUN SEGAN	AC
70642	PRATEEK SINGH CHAUHAN	INF
70643	AMAL SALI	INF
70644	SANJEEB MAHAPATRA	ARTY
70645	R KRISHNA CHAITANYA	INF
70647	LOKESH AHLAWAT	ARTY
70648	RUCHIT SINGH	INF
70649	PRASHANT LALOTRA	ENGRS
70650	SHALABH SAXENA	AAD
70651	S HARSHAVARDHANAN	AOC
70652	SOUGATA NANDY	SIGS
70653	P ADITYA DEEPAK	ENGRS
70654	MURALEEKRISHNA K	AC3
70655	ANAND VARDHAN	ENGRS
70656	ANSHUL BAHL	EME
70657	SHYAM JI MISRA	AOC
70658	LAICHOMBAM MANISANA SINGH	INT
70659	PRADEEP KUMAR	ARTY
70661	BHASKAR SINGH	ARTY
70662	VINAY CHANDRASHEKAR KARGUDRI	EME
70664	KARTHICK M	INF
70665	CHAVAN RAHUL VISHNU	INF
70666	INDRA PRATAP SINGH	AC
70667	A RIAZ KHAN	ARTY
70668	NITIN RAVINDRAN	SIGS

IC No	Name	Arm/Service
72683	AMANAT JAGJIT SINGH	AC
72684	D KRISHNA KUMAR	ENGRS
72685	MANIKANDAN M	AC
72686	WAIKAR ANAND DEEPAK	EME
72687	BANAHATTI KARAN SINGH	ENGRS
72688	RAHUL DEV A	ARTY
72689	ABHAYJIT MEHLAWAT	SIGS
72690	DEBMALYA MOOKHERJEE	ARTY
72691	ANUBHAV PANT	INF
72692	RISHI R	MECH INF
72694	SIMANT KAMAL DUTTA	AAD
72695	JAGADEESH SHETTEPPA NANDIHAL	ENGRS
72696	TILANI NIMESH CHIMANLAL	ENGRS
72697	ATUL THAPA	SIGS
72699	BHAVYA SINGH SHISHODIA	EME
72700	SIMRAT PAL SINGH THIND	EME
72701	ANUJ SINGH CHAUHAN	ENGRS
72702	ANKUR SRIVASTAVA	SIGS
72703	SIMRANJEET SINGH	EME
72704	RISHABH YADAV	SIGS
72706	NITESH KUMAR SANGWAN	AOC
72707	KARAN VASUDEV	ARTY
72708	GAURAV MITTAL	SIGS
72709	SANJEEV SINGH	EME
72710	DINESH KUMAR YADAV	EME
72711	RAJ KUMAR	EME
72712	ANKIT SINGH RAWAT	EME
72713	M DEEPAK	EME
72714	BIRENDRA SINGH	ENGRS
72715	HARPREET SINGH LIDDAR	ENGRS
72716	ADITYA KAUSHIK	SIGS
72717	RAVI JAMWAL	EME
72718	MANJUL RAJ	ENGRS
72719	NIKHIL SHARMA	EME
72720	SACHIN DHIMAN	EME
72721	RAVINDER SINGH JODHA	ASC
72722	BIBHUTI BHUSAN BORBORUA	ENGRS
72723	RAVINDRA SINGH MAHLA	ENGRS
72724	UDIT CHATURVEDI	SIGS
72725	DURGA PRASAD MISHRA	SIGS
72726	SATNAM SINGH	ENGRS

IC No	Name	Arm/Service
72727	ABHINAV SHARMA	ENGRS
72728	PRUNO ROBERT	ENGRS
72729	SHYAM BIHARI TRIPATHI	SIGS
72730	MOHIT	AOC
72731	SHAILENDRA SAIWAL	SIGS
72732	RISHABH SOOD	SIGS
72733	SANKALP DOGRA	SIGS
72734	ABHINAV CHAUHAN	ENGRS
72735	DILDEEP SINGH CHAHAL	AC
72737	VIKAS KUMAR SRIVASTAVA	ENGRS
72738	MAYANK MATHUR	ENGRS
72739	AMIT KUMAR JHA	EME
72740	ANIMESH DUBEY	SIGS
72741	TAPAN SODHI	EME
72742	SUSHANT DWIVEDI	SIGS
72743	DEEPAK BOHRA	MECH INF
72744	KUMAR AMIT YADAV	SIGS
72745	THIMMAIAH I B	ENGRS
72746	NAGENDRA PRATAP SINGH	ENGRS
72747	AMIS THAMPY JOHN	EME
72748	HARSHVARDHAN SINGH SALATHIA	SIGS
72749	RAGHAVENDRA PRASAD G M	EME
72750	SYED NAZIM MEHDI	AAD
72751	ROHAN VERMA	ENGRS
72752	SAKET JHA	MECH INF
72753	KULDEEP KUMAR	ENGRS
72754	ANKUSH SHARMA	AC
72755	GURPREET SINGH FENG	AAD
72756	SUCHIT PANDEY	ENGRS
72758	BHARAT MOHAN	INF
72759	SACHIN SINGH RAWAT	INF
72760	YASHWANT SUHAG	EME
72761	ABHAY KUMAR SINGH	SIGS
72763	ATUL PARASHAR	ENGRS
72764	GAURAV KATHAIT	ARTY
72765	SHISHIR MAKWANA	ENGRS
72766	NAVANEETH GOPINATHAN	EME
72767	ABHAS SHARMA	EME
72768	DEPINDER DHANJAL	SIGS
72770	HARI SHANKAR R NAIR	SIGS
72771	ABHAY SIROHI	EME

IC No	Name	Arm/Service
72772	JERIN MARTIN	AAD
72773	KRANTHI KANAL	ARTY
72774	SHEKHAR KUMAR	ENGRS
72775	YAJUVENDRA KUMAR GAUTAM	ENGRS
72776	RATTAN BHANDARI	ENGRS
72777	MANISH MAKHLOGA	AAD
72778	BHRUGU VYAS PATRO	ASC
72779	VEERENDER CHOUDHARY	ENGRS
72780	ABHIMANYU MAHAJAN	EME
72781	OMKKAR UDAY BHADBHADE	ENGRS
72782	ARUN PUNDIR	EME
72784	ANKUR TYAGI	EME

----12 Jun 14

IC NO	NAME	ARMS/ SERVICES
73318	KANISHKA GAUR	INF
73319	ASHUTOSH TRIPATHI	INT
73320	NAVIN NIROLA, SC	INF
73321	AMRITPAL SINGH AULAKH	INF
73322	AJIT PAL SINGH	INF
73324	JERSON GEORGE	AAD
73327	S SAKTHI KOMAHAN	ARTY
73328	TIKEN OINAM	INF
73330	INDERJEET GOTHWAL	INF
73332	DHARMINDER SINGH CHOUHAN	INF
73333	SAMEER KAUSHAL	INF
73334	ANIL URS	INF
73336	CHUNGTHUNG JAMATIA	ENGRS
73337	KADAK SWAPNIL ANIL	INF
73338	SHAKTI SINGH NEGI	ENGRS
73339	DEEPAK CHOUDHARY	ARTY
73340	SANDEEP SINGH DADHWAL	INF
73341	DEEPAK SUMBRIA	INF
73342	VIPUL NARAYAN	INF
73343	ABHAY GUPTA	INF
73344	SARTAJ GULERIA	ARTY
73345	TUSHAR SHARMA	AC
73346	NITIN KUMAR TEWARI	INF
73347	PUSHAP RAJ	INF
73348	PRADEEP U K	INF

IC NO	NAME	ARMS/ SERVICES
73349	SURYA PRATAP SINGH	ARTY
73350	SIDDHANT CHHIBBER	INF
73353	PRABHAT UNIYAL	SIGS
73354	MANISH KUMAR	INF
73355	AMAN KUMAR NAIN	INF
73356	SHIVENDRA SINGH	INF
73358	REJOICE PHAOMEI	INF
73360	SUNNY GUSAIN	INF
73361	MANOJ JOSHI	INF
73362	PARAMJEET SINGH	SIGS
73363	PANICKER SHIVAKUMAR UNNIKRISHNA	INF
73364	SAMARJEET	INF
73365	VINAYAK IYER	INF
73366	BHANU PRATAP SINGH	INF
73367	MOHIT KUMAR BANSAL	INF
73368	AMIT CHAUDHARY	INF
73369	SISIR SHETTY	EME
73370	MANOJ KUMAR SANKHYAN	INF
73372	SILAS SINJALEE	AOC
73374	SHOZAB RAHMAN	INF
73375	VISHAL CHHETRI	INF
73376	PRAVESH SHAH	INF
73378	NAVNEET SINGH	INF
73379	LOKENDRA SINGH	ARTY
73382	DEEPAK KUMAR BISTA	INF
73385	ARUN GEORGE ABRAHAM	INF
73387	HARISH YADAV	INF
73389	NITIN SLATHIA	INF
73392	ANUPAM YADAV	ARTY
73393	SAROJ KUMAR BAITHA	ASC
73394	JHA AMITKUMAR BHOGENDRA	EME
73395	TUIYUNG SHATSANG	INF
73396	PRANIT SINGH	INF
73398	KARANVIR SAHDRA	INF
73399	SANMEET SINGH GREWAL	AC
73400	VIJAY SINGH	JAG
73401	ADITYA KAPILA	AAD
73402	NITIN SHARMA	AOC
73403	GOVIND SINGH	ARTY

IC NO	NAME	ARMS/ SERVICES
73405	ARJUN SHARMA	ARTY
73406	HIMANSHU KUMAR	INF
73408	AMIT SINGH	ARTY
73409	KOMMARAJU AVINASH RAO	INF
73410	NITESH KATWAL	INF
73411	RAJESH MALIK	ARTY
73412	SUMAIL AHMED SIDDIQUI	AC
73413	PRITOM CHOUDHURY	INF
73414	RAKESH R KRISHNAN, SC	INF
73415	AFTAB MANSURI	ARTY
73416	RAVINDER KUMAR	INF
73419	SUNDER SINGH	INF
73420	ABHILEKH SHUKLA	INF
73421	DEEPAK SHARMA	INF
73423	JITENDER KUMAR SINGH	INF
73424	SUKESH CHOUDHARY	INF
73425	ARVIND KUMAR SHIVRAIN	MECH
73427	DEEPAK TEWARI	ENGRS
73428	ASHISH VIJAYVERGIA	ARTY
73430	PRASHANT SHARMA	AOC
73431	VISHAL KUMAR	JAG
73433	SUNNY VAIDYA	INF
73434	GOURAV VERMA	JAG
73436	VIEKKRAM DAX	AC
73438	MISHRA KRISHNA KUMAR HIRALAL	INF
73439	PARTHASARATHY N	ARTY
73441	ROHIT KAR	ARTY
73442	SOUGRAKPAM JITESHWOR SINGH	INF
73443	AMAY KHANNA	INF
73444	RAUNAK SHARMA	AAD
73445	SUDIPTA SANYAL	SIGS
73447	ABHISHEK RAWAT	INF

----- 22 APR 2014

PERMANENT COMMISSION (WSES)

CAPT TO BE MAJOR

IC NO	NAME	ARM	DATE OF SUBSTANTIVE MAJ
IC73296	PASHINE MONAL NIKHILKUMAR	JAG	17 MAR 14
IC73310	PARUL	AEC	22 MAR 14

IC NO	NAME	ARM	DATE OF SUBSTANTIVE MAJ
IC73311	SIMARJIT KAUR	AEC	22 MAR 14
IC73312	NISHA VATS	AEC	22 MAR 14
IC73313	RENU YADAV	AEC	22 MAR 14

SHORT SERVICE COMMISSION(MEN)

CAPT TO BE MAJ

SS No.	Name	Arm	Initial Date of Seniority	Course	Adjusted Date of Seniority for Promotion	Date of grant of Subs rank of Maj
42662	JAI KUMAR MISHRA	MECH	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42663	BALAMURUGAN R	AC	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42673	SATISH MANGALMURTI GADRE	AOC	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42693	SACHIN ANDOTRA	ASC	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42717	GOSAVI KUNAL MUNNAGIR	ARTY	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42719	VISHAL RAKSHE	SIGS	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42724	NARENDER SINGH	JAG	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42727	BHAWANI SINGH	AC	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42730	K TONY JOSEPH	SIGS	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42731	SACHENDRA SINGH	ARTY	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42733	S MANICKAVEL	AAD	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42736	SANJAY GULERIA	AC	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42738	PAVELJEET SINGH	AOC	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42759	PAWAN SETHI	MECH	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42762	S SAJAN CHAKRAVARTHY	INF	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42777	SONCY JOSEPH	EME	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42778	NISHANT SHUKLA	EME	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42785	ASHOK KUMAR KHANDELWAL	AAD	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42791	KAILASH V	SIGS	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42795	ASHISH BANIWAL	ASC	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42817	DHARMENDAR KUMAR	AC	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42828	SANDEEP SAHI	MECH	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14
42831	AMIT MOHAN SHARMA	ARTY	22 Sep 07	SSC-84(NT)	22 Apr 08	22 Apr 14

SHORT SERVICE COMMISSION(WSES)

CAPT TO BE MAJOR

WS-No	NAME	ARM	COURSE	REVISED DATE OF SENIORITY FOR PROMOTION	DATE OF SUB MAJOR
WS01280	ANUPEKSHA RAWAT	SIGS	WESO-29 (NT)	17 Mar 08	17 Mar 14
WS01283	NEHA JAIN	AAD	WESO-29 (NT)	17 Mar 08	17 Mar 14
WS01285	PRIYANKA KANDPAL	AOC	WESO-29 (NT)	17 Mar 08	17 Mar 14
WS01287	DEEPIKA SAINI	ASC	WESO-29 (NT)	17 Mar 08	17 Mar 14
WS01297	ASHA KUNTAL	AOC	WESO-29 (NT)	17 Mar 08	17 Mar 14
WS01313	CHARUL BHATT	JAG	WESO-29 (NT)	17 Mar 08	17 Mar 14
WS01322	SANGEETA	ASC	WESO-29 (NT)	17 Mar 08	17 Mar 14
WS01323	VAISHALI SHARMA	JAG	WESO-29 (NT)	17 Mar 08	17 Mar 14
WS01330	VIJAY PADMAJA	AOC	WESO-29 (NT)	17 Mar 08	17 Mar 14
WS01331	RITIKA SHARMA	AOC	WESO-29 (NT)	17 Mar 08	17 Mar 14
WS01343	RITU SOLANKI	ASC	WESO-29 (NT)	17 Mar 08	17 Mar 14
WS01348	ARADHANA	ASC	WESO-29 (NT)	17 Mar 08	17 Mar 14
WS01350	UPASANA YADAV	ASC	WESO-29 (NT)	17 Mar 08	17 Mar 14

PERMANENT COMMISSION

LT TO BE CAPT

IC No.	Name	Arm	Date of Subs Capt
66535	GURVINDER SINGH BHATTI	ENGRS	17 Oct 2006
66688	SANTOSH KUMAR BHARMORIA	INF	17 Apr 2009
66689	RANJEET SINGH	AC	17 Apr 2009
66690	CHANDAN KHARYAL	ARTY	17 Apr 2009
66691	ADWIT PATNAIK	INF	17 Apr 2009
73135	KRIPA SHANKAR SHARMA	ARTY	16 Apr 2009

IC No	Name	Arms/ Services
73639	ARAVINDAR SINGH C	MECH
73643	ANIL NEHRA	ARTY
73645	DIGVIJAY SINGH CHAUHAN	ENGRS
73646	BHUPESH KUMAR	ARTY
73648	RAKESH KUMAR KANDARI	ARTY
73650	PRASHANT JANKAR	ARTY
73651	DESAI ADITYA SATISH	ENGRS
73652	NARENDRA SINGH	AAD
73653	VARUN KUMAR SINGH	INF
73655	RITURAJ AHLAWAT	INF
73658	CHANDRA SHEKHAR GIRI	ARTY
73660	KUMAR SUMANT	ARTY
73663	GROVER INDERJEET SINGH SURJEET SINGH	INF

IC No	Name	Arms/ Services
73664	ASHUTOSH SHRIVASTAVA	ARTY
73665	VIJENDER KUMAR	AAD
73666	RAJEEV SHARMA	AC
73667	RISHIV SALATHIA	ARTY
73668	LUNKIM PAOLENTHANG KHONGSAI	INF
73670	JAGVEER SINGH BIDAWAT	ARTY
73673	JAGJEET SINGH	INF
73674	SHASHI KUMAR	INF
73675	ADITYA SHARMA	AAD
73676	KASI TRINADH NETTI	AC
73677	ABHITOSH	ARTY
73678	KRISHAN KUMAR	AC
73680	VIVEK YADAV	MECH
73681	M SANTHOSH	ARTY
73682	V VENKAT RAGHAVAN	ARTY
73683	TALUNVIR SINGH DHILLON	INF
73685	RAHUL SINGH BAGHEL	AC
73686	ASHISH SIDHAWAT	EME
73688	RAJAN KUMAR	INF
73689	PUSHPENDRA PRATAP BHATT	ARTY
73690	S KIRAN	EME
73693	PIYUSH KUMAR TRIPATHI	ARTY
73694	VIJENDRA S YADAV	AC
73697	SUNEEL KUMAR TADI	ARTY
73698	LOUREMBAM BISWAPREM MEITEI	ARTY
73699	SANJESH KUMAR BHAWNANI	MECH
73700	GOMIT DUBEY	INF
73702	RAVI PRATAP SINGH	EME
73704	ALOK SINGH	AC
73705	MAHESH KUMAR JAKHAR	ARTY
73706	PARIKSHIT PANWAR	INF
73710	VINEET CHHILLAR	ARTY
73712	K KARTHIK	ARTY
73713	JAVED HUSSAIN	ARTY
73714	SHANTANU HARDE	INF
73715	KH SHEM	INF
73717	AVTAR SINGH	AAD
73718	NAMEIRAKPAM DEEPAK SINGH	INF
73719	RAVINDER SINGH SAINI	INF
73720	GURPREET SINGH SOKHEY	ARTY
73721	AJAY SINGH	ARTY

IC No	Name	Arms/ Services
73722	CHANDAN SINGH	ARTY
73723	DEEPAK KANWASI	AC
73724	SATYENDRA	ENGRS
73726	AJAY LOCHAB	INF
73727	CHAVAN NIKHIL ARVIND	AAD
73728	GOKHALE KETAN DILIP	INF
73729	RAJNEESH PRATAP SINGH	INF
73731	VIVEK SINGH	ARTY
73732	AMIT SHARMA	ARTY
73734	ARNAB GHOSAL	AC
73736	SHASHANK GAUR	ARTY
73737	KARTHIKEYA SAINI	INF
73738	SHAKTI SINGH	INF
73739	VISHAL TIWARI	INF
73740	VINOD KUMAR PANDEY	ARTY
73741	DUSHYANT BISHNOI	INF
73743	IRFAN AHMED KHAN	AAD
73744	KANCHAN KUMAR	INF
73748	SHIVA SAIGAL	ARTY
73751	GAUTAM SINGH	INF
73753	BHARTENDU GAUTAM	ARTY
73754	VIRENDRA SINGH CHANDEL	INF

---- 20 APR 2011

76421	BHANU PRATAP SINGH MANKOTIA	AC
76422	SANDEEP KUMAR YADAV	ENGRS
76423	UDAY BHAN SINGH CHANDEL	ENGRS
76424	RAMMOHAMMAD SINGH	AC
76425	ABHAY SHARMA	INF
76426	MORE SANDIP KUMAR	AOC
76427	ABHISHEK ANAND	INF
76428	PRIYANKU SINGH	AAD
76429	ANUJ SOOD	MECH
76430	SHASHANK SINGH	INF
76431	N HARISH	EME
76432	VIKRANT VISHWASRAO DESHMUKH	INF
76433	ARJUN THAPA	INF
76434	NAVEEN SIGER	INF
76435	VINIT YADAV	SIGS
76436	KARNEE PRATAP SINGH	INF
76437	RAVI KUMAR RATHI	ASC

IC No	Name	Arms/ Services
76438	LODH OMKAR BHAVESH	ARTY
76439	TRIVENDRA SINGH CHAUDHARY	ARTY
76440	T PRAO	INF
76441	VIJAY SINGH THAKUR	INF
76442	VINOD KUMAR SHARMA	INF
76443	PULIPANDIAN R	INF
76444	BIMLESH KUMAR	ARTY
76445	DEBAPRATIM DAS	AAD
76446	ABHILEKH MISHRA	INF
76447	PRIYESH WAGHELA	ASC
76448	ASHISH CHHIKARA	INF
76449	YENGKHOM DRUGESH SINGH	INF
76450	YANKUSH AHLAWAT	ARTY
76451	RAVI RANJAN KUMAR	ARTY
76452	SAGAR KUMAR	INF
76453	JAPPANPREET SINGH	AC
76454	VAASU GUPTA	MECH
76455	ANSHUL TORA	INF
76456	YUVRAJ PRATAP SINGH PARMAR	MECH
76457	B SANTHOSH	EME
76458	NIKHIL YADAV	ENGRS
76459	VIVEK KUMAR TIWARI	ARTY
76460	YIMVOLONG AO	ASC
76461	ROHIT KUMAR	ARTY
76462	CHONJAGIN LUNKIM	AVN
76463	SAURABH KUMAR DEVA	ARTY
76464	AJAY SINGH	INF
76465	DIPIN DUHAN	INF
76466	VIKRAM SINGH DANGI	AC
76467	MANISH KUMAR	AOC
76468	MANOV GURUNG	INT
76469	ACHYUT GUPTA	ARTY
76470	RACHIT SONI	ARTY
76471	SANTHOSHH C	ARTY
76472	RAVI KUMAR	INF
76473	KRISHNA KUMAR	AOC
76474	DEBRAJ DAS	ARTY
76475	VANSHAJ PATIL	INF
76476	ASHWIN VASANT SHETTI	AAD
76477	PRATEEK PANWAR	INF
76478	GAURAV BHARDWAJ	INF

IC No	Name	Arms/ Services
76479	UTKARSH SINGH PARIHAR	INF
76480	SUDHIR PARASHAR	INF
76481	ROBIN KUMAR	INF
76482	KISHOR KUNAL	INF
76483	ROHIT	INF
76484	BALVINDER SINGH	SIGS
76485	VIVEK KUMAR	ASC
76486	VARINDER SINGH	EME
76487	ABHISHEK CHAUHAN	ARTY
76488	SACHIN SANDHU	INF
76489	SIDHANT MALIK	INF
76490	DHEERAJ RANJIT NIMBALKAR	INF
76491	SACHIN MISHRA	AC
76492	ALOK THAKUR	AVN
76493	SIDHANT SHEKHAR	ARTY
76494	HEMANT KUMAR SINGH	AC
76495	NISHANT THAPA	ARTY
76496	AKASH PATHANIA	MECH
76497	S K RAHAMAT ALI	ARTY
76498	ANEESH ANAND	ARTY
76499	PASALA ANVESH	AAD
76500	RAMIZ RAJA	INF
76501	GAURAV BRAR	AOC
76502	NISHANT SHARMA	INF
76503	ARUN KUMAR BALYAN	ENGRS
76504	PATHIVADA PRADEEP KUMAR	ARTY
76505	SANTOSH KUMAR OJHA	INF
76506	AASHISH KHANDKA	INF
76507	TEJPAL SINGH	ASC
76508	SUMIT SHRIDHARRAO PAWAR	INF
76509	SIDDHANT SAXENA	ARTY
76510	MRIDUL SHARMA	INF
76511	SUMIT DOGRA	ARTY
76512	PUSHPENDER GURUNG	INT
76513	BRAHMANAND MISHRA	MECH
76514	SURAJ SINGH TOMAR	INF
76515	SANDEEP CHETTRI	AOC
76516	RAM NARAYAN DUKIYA	INF
76517	JITENDER PUNIA	INF
76518	RANPAL SINGH	AC
76519	ANIRUDH KOHLI	AC

IC No	Name	Arms/ Services
76520	VISHAKH NAMPOOTHIRI	ARTY
76521	ABHILASH PUNDIR	SIGS
76522	SAMRAT SONBA DIVEKAR	ARTY
76523	JACOB CHERIAN	EME
76524	ROJIN RAJAN	ARTY
76525	SANJOY GHOSH	ARTY
76526	SAURABH KUMAR	ASC
76527	SANDEEP KUMAR	AAD
76528	MAHENDRA SINGH RATHORE	INF
76529	MOHIT SINGH CHAUHAN	INF
76530	SONU KUMAR	INF
76531	BIBEK RAI	AAD
76532	SOHAIL BAWA	ARTY
76533	CHANDRA SHEKHAR	SIGS
76534	AMITESH RANJAN	INF
76535	PARDEEP KUMAR	ARTY
76536	ADITYA SAHAI	ARTY
76537	GAURAV VERMA	MECH
76538	AMANDEEP SINGH	ARTY
76539	RANGANI SANJAY JIVRAJBHAI	ARTY
76540	SAURABH KUMAR	INF
76541	RANVIJAY KUMAR	AC
76542	AVNEESH YADAV	INF
76543	ADITYA KUMAR	ARTY
76544	DINESH KUMAR	INF
76545	NIRMAL R	ARTY
76546	DAVINDER PAL SINGH	INF
76547	BHARAT MISHRA	INF
76548	ANKUSH LUTHRA	ASC
76549	SHASHANK SHARMA	INF
76550	SUMAN KUMAR YADAV	AOC
76551	BHUVAN M S	ARTY
76552	RAGHAV SURI	ENGRS
76553	DHARMENDRA SINGH	AC
76554	BIJENDER SINGH	AOC
76555	RAJPAL SINGH RATHORE	INF
76556	PANKAJ	INF
76557	RATHANKUMAR H S	ARTY
76558	DHIRAJ KUMAR VIVEK	ARTY
76559	MISHRA DEEPAK UMASHANKAR	ARTY
76560	KUSHAL SINGH RANA	AAD

IC No	Name	Arms/ Services
76561	OMPRAKASH SINGH	EME
76562	NAVDEEP SINGH SHAN	SIGS
76563	CHAWAN PRANAY PRAKASH	INF
76564	AKSHAT AGNIHOTRI	INF
76565	HIJAM IBOHAL SINGH	INF
76566	BHOPINDER SINGH SUDAN	MECH
76567	PRAKHAR ARORA	AVN
76568	DEEPANSHU GAUR	INF
76569	VISHNU R J	ARTY
76570	PARTH SAREEN	INF
76571	MANISH KUMAR SUPAKAR	ARTY
76572	PREET JOSHI	INF
76573	AMRIT PAL SINGH KHERA	INF
76574	RAHUL GUPTA	MECH
76575	NAGARAJ SUBHAS YAMBHATNAL	AAD
76576	ATUL KUMAR SINGH	INF
76577	SURINDERPAL SINGH	AC
76578	DHANANJAYAN L	ARTY
76579	MUKESH JOSHI	INF
76580	DEEPAK KUMAR	ARTY
76581	PRANAV NAUNI	ENGRS
76582	LAL BAHADUR YADAV	ARTY
76583	KAMLESH PANDEY	INF
76584	TUSHAR	ARTY
76585	NISHANT KAUSHIK	AAD
76586	CHANDRAKANT MISHRA	AOC
76587	AMIT KUMAR SONI	ARTY
76588	ABHISHEK DUBOLIA	ARTY
76589	MANOJ SINGH BHOJ	INF
76590	PRASHANT KISHORE	EME
76591	ANKIT HODKASIA	ARTY
76592	ROHIT KUMAR SHARMA	INF
76593	NIPUL KATOCH	INF
76594	NITESH KUMAR	INF
76595	J ABHIMANAN	ARTY
76596	VAIBHAV MAMGAIN	ASC
76597	LAIRENLAKPAM SURANDEV SINGH	INF
76598	HARPREET SINGH	AC
76599	NEERAJ KUMAR	INF
76600	ANUJ YADAV	INF
76601	SUMEET GROHWAL	INF

IC No	Name	Arms/ Services
76602	GANDHI YUMNAM	INF
76603	ROHIT AHLAWAT	AOC
76604	ABHISHEK KUMAR	ARTY
76605	SHUBHAM MITTAL	SIGS
76606	PANKAJ SINGH	ARTY
76607	ANKIT TIWARI	AC
76608	NAVIN KUMAR	AAD
76609	BHADORIA AJAYSINGH JAIPALSINGH	INF
76610	KARAMBELKAR SALEEL SUNIL	ASC
76611	ATUL SHARMA	INF
76612	ABHISHEK MAHAJAN	INF
76613	VIBHUTI VAIBHAV	ASC
76614	RAKESH VASHISTH	AVN
76615	SANJEEV RANTA	MECH
76616	SAPATNEKAR NARENDRA SUHAS	INF
76617	VISHAL KUMAR YADAV	INF
76618	KAUSHIK KUMAR DUTTA	AOC
76619	AKHIL RAJ R V	INF
76620	NEERAJ SINGH KOSHYARI	AC
76621	PRASHANT KUMAR	ARTY
76622	PUSHKAR SINGH RAUTELA	INF
76623	AASHISH KUMAR SINGH	INF
76624	SUMIT BAMMI	INF
76625	SRIKANT PRASAD	EME
76626	S LOVEJOY BAITE	ARTY
76627	ANIRUDH SINGH RATHORE	ASC
76628	HIMANSHU CHANDRA SINHA	INF
76629	NAVNEET KAUSHIK	INF
76630	SADANAND SINHA	ENGRS
76631	SUSHANT CHANDRAKANT JADHAV	INF
76632	GANGESH KUMAR	ARTY
76633	VIKAS KUMAR	INF
76634	HIMANJAN SARMA	ARTY
76635	KAUSHIK MITRA	AAD
76636	VAIDYA SACHIN RAMESH	ARTY
76637	AMIT KUMAR	INF
76638	BALWANT SINGH RANA	ARTY
76639	SHIV KUMAR	AC
76640	MANEO FRANCIS P F	INF
76641	JITENDAR	INF
76642	DEEPAK KUMAR	INF

IC No	Name	Arms/ Services
76643	NIKHIL MATHEW GEORGE	ARTY
76644	MAHESH KADAM	AC
76645	ADARSH KUMAR	INF
76646	ANKUSH THAKUR	INF
76647	AMIT KUMAR RAI	INF
76648	VIKRAM UTTAM INGLE	MECH
76649	VIVEK THAKUR	ASC
76650	RAM NIWAS	ARTY
76651	SUJIT THAPA	ARTY
76652	SAGAR DEELIP MAHATME	ARTY
76653	NANDHAKUMAR P	EME
76654	NIRAJ RAMRAO JADHAV	INF
76655	RAWAT NARESHKUMAR PRATAPSINGH	ARTY
76656	KARLE ABHISHEK ABHAY	INF
76657	KONTHOUJAM ROSHANKUMAR SINGH	ASC
76658	E KRISHNA CHANDRAN	AAD
76659	NITISH DOGRA	INF
76660	SAMIT KUMAR SINGH	INF
76661	VIRENDER SINGH	MECH
76662	NEERAJ SHARMA	INF
76663	SUMEET BAWA	INF
76664	ADITH	INF
76665	MAYUR KUMAR PATEL	AAD
76666	AMMIREDDY KARRI	ENGRS
76667	CHANDER VEER SINGH	ARTY
76668	NEERAJ RAKHOLIA	INF
76669	BIKASH KUMAR GUPTA	ARTY
76670	RAHUL VERMA	ARTY
76671	SAURABH SHUKLA	INF
76672	GAURAV SINGH RAWAT	INF
76673	ROHIT SINGH KUSHWAHA	EME
76674	KRASHYAP RAJORA	INF
76675	GAUTAM MISHRA	AC
76676	DEEPENDRA SINGH GUSAIN	ENGRS
76677	PRABHAKAR KUMAR	INF
76678	YOGENDRA SINGH NARWARIYA	ARTY
76679	NAVEEN CHAUHAN	INF
76680	MANOOP K M	SIGS
76681	ASHISH TIWARY	ARTY
76682	BHANU PRATAP SINGH	AC

IC No	Name	Arms/ Services
76683	NISHANT KUMAR TIWARI	AOC
76684	NIKHIL KHURANA	MECH
76685	SHRIKANT SINGH	AVN
76686	GURPREET SINGH	ARTY
76687	MANJIT SINGH SANGWAN	ASC
76688	DEVESH VIKRAM SINGH	INT
76689	NATERPAL	INF
76690	BHUSHANSINH AMARSINH PATIL	INF
76691	NOOKALA ADVAITHA REDDY	INF
76692	AMIT KUMAR PRAJAPATI	ARTY
76693	VIVEK KUMAR SINGH	AAD
76694	RAVENELA DEV	AC
76695	SINGH RANJIT RAMANAND	SIGS
76696	RAJEEV RANJAN BHARTI	INF
76697	PAWAN KUMAR	ARTY
76698	SUMUKH SWAROOP C R	ENGRS
76699	ELISEN Y JAMI	INF
76700	GOURAV KUMAR MISHRA	INT
76701	RANJEET KUMAR	INF
76702	TARUN VERMA	INF
76703	SAHIL MASAND	INF
76704	KHWAIRAKPAM VICTORJIT	ARTY
76705	PAWAN KUMAR SHARMA	ARTY
76706	SUKHWINDER PAL SINGH	INF
76707	RAKESH G WADKAR	ARTY
76708	KSHITIJ SAMUEL MESTON	INF
76709	BHUWAN PRATAP SINGH	AC
76710	SYAMKUMAR M S	ASC
76711	GIREESH KUMAR	EME
76712	LOVKUSH SINGH	MECH
76713	SHASHI KANT SINGH	AAD
76714	SHASHIKANT SHIVAJI GAIKWAD	ARTY
76715	MAYANK GOVITRIKAR	INF
76716	LAISHRAM ROBATSON SINGH	INF
76717	ANKUR SODHI	INT
76718	ANKIT SHARMA	ARTY
76719	GONSALVES GREGORY	ASC
76720	TUHIN DEY	ASC
76721	SHANTANU SINHA	INF
76722	ABHINAV KUMAR	AOC
76723	KAPIL ADHIKARI	INF

IC No	Name	Arms/ Services
76724	SARVESHWAR SHUKLA	AC
76725	IZHAR AHMED KHAN	AC
76726	DEEPAK DHAWAN	ARTY
76727	ANUP SINGH PAL	ENGRS
76728	PARAMJEET SINGH	ARTY
76729	CHANDAN KUMAR GOUDA	ASC
76730	RAHUL SHARMA	INF
76731	MANOJ DHAUNDIYAL	INF
76732	VINAY KUMAR	INF
76733	AJAY KUMAR TIWARI	INF
76734	SUDHEERKRISHNA CHANNAPPA PUJARI	ARTY
76735	GURJEET SINGH MALHI	AAD
76736	GOURAVENDRA PRATAP SINGH PARMAR	MECH
76737	SUJEET SAHA	ARTY
76738	MANOJ SARASWAT	AVN
76739	DEEPAK YADAV	EME
76740	VIKRAM MANVENDRA SINGH	ARTY
76741	DINOOJ N	AOC
76742	NEERAJ BANDRAL	INF
76743	SOLOMUN JOHN	INF
76744	R PRAVEEN	ENGRS
76745	ANUPAM CHOUDHARY	INF
76746	SANJEET PODDAR	AOC
76747	ANIKET SINGH	INF
76748	KIRAN KUMAR YENDA	ARTY
76749	ARAVA LAXMIKANT	AOC
76750	SATINDER SINGH	INF
76751	GAUTAM ROY	ARTY
76752	ROHIT SADDI	ARTY
76753	RAHUL RAWAT	AC
76754	RAVI KUMAR	ARTY
76755	SHIROTE ABHINANDAN ANNASO	ARTY
76756	AMAN CHAUDHARY	ARTY
76757	SUDESH RAWAT	INF
76758	ARVIND KUMAR SINGH	INF
76759	SANDEEP	INF
76760	RAHUL MEHTA	INF
76761	VIPIN KUMAR SINGH	ARTY
76762	SUNDEEP KUMAR	EME

IC No	Name	Arms/ Services
76763	PRATEEK SHARMA	AC
76764	RANJITH KP	ASC
76765	MANISH KUMAR	INF
76766	ANURAG VERMA	ARTY
76767	NIRAJ KUMAR PANDEY	INF
76768	VINEET KUMAR PANDEY	SIGS
76769	ABHIGYAN PATNAIK	INF
76770	RAGHUNATH	INF
76771	DIVYA KANT SHARMA	ASC
76772	VARUN VASISHT	AAD
76773	VIJAY KUMAR YADAV	ENGRS
76774	VIVEK KUMAR GAUR	INF
76775	BALBINDER SINGH CHAUHAN	ARTY
76776	AUNSHUMAN JHA	AVN
76777	ROHIT GAMBHIR	INF
76778	PAWAN KUMAR SHARMA	MECH
76779	SARVESH SHARMA	AAD
76780	NAVEEN BHARATH KAVALA	ARTY
76781	MAYANK GUSAIN	ASC
76782	AMRIT RAJ	INF
76783	SATVINDER SINGH GILL	EME
76784	BRIJESH TRIPATHI	INT
76785	ANJANI KUMAR	AOC
76786	RANVEER SINGH CHOUHAN	ARTY
76787	RITESH KUMAR	ARTY
76788	SANTHOSH KUMAR J	ARTY
76789	JASHPAL SINGH	INF
76790	ANURAG MISHRA	INF
76791	VIPIN KUMAR SINGH	AAD
76792	NIKHIL KARMACHANDRAN	INF
76793	KRISHNAKUMAR K	SIGS
76794	YUVRAJ KHUSHALRAO GAJBHIYE	ENGRS
76795	DHARM KUMAR DIXIT	ASC
76796	KARAN PARMAR	ARTY
76797	PRASHANT YADAV KSHIRSAGAR	INF
76798	SOURABH SUSHANT	INF
76799	VARUN GAUR	AC
76800	ANURAG KANWAR	INF
76801	AZEEM AHMED SIDDIQUI	AOC
76802	SHAHARE VIRENDRA KISHOR	ARTY
76803	MURLIDHAR	ARTY

IC No	Name	Arms/ Services
76804	GAURAV PANWAR	MECH
76805	MOHITE SANTOSH BALASAHEB	INF
76806	RIPUDAMAN SINGH RATHORE	INF
76807	HARJINDER SINGH TOMER	AVN
76808	VARUN SALARIA	INF
76809	SANDEEP KUMAR TIWARI	SIGS
76810	SANJU KURIAN JACOB	INF
76811	ADITYA KUMAR	INF
76812	VISHWA PRATAP SINGH	ARTY
76813	SOURABH BAJPAI	ARTY
76814	ADWAITH P V	INF
76815	NAIMISH M BADVA	AC
76816	SAHIL NISCHAL	AC
76817	ARJUN R	INF
76818	SUMAN SAURABH	AOC
76819	HEMANT BAGRI	AVN
76820	GIRISH BHARDWAJ	AOC
76821	RAVINDER KUMAR	ARTY
76822	YOGESH TOMAR	MECH
76823	SANJAY SINGH THAKUR	ENGRS
76824	SHANKAR DAYAL SINGH	INF
76825	ANSHUL TIWARI	INF
76826	PRATIK ROY	INF
76827	KAVISH KUMAR	INF
76828	DEEPAK TIWARI	INF
76829	SUMIT RANJAN JENA	ASC
76830	GAURAV SAXENA	INF
76831	MADHUSUDAN SHARMA	AC
76832	RAVI KUMAR PANT	ASC
76833	GAURAV KUMAR	INF
76834	NANDIT GEORGE	INF
76835	ANGAD ANTHONY MALIK	ARTY
76836	PANDE SAKET SHANTARAM	AAD
76837	VIPIN SHARMA	ENGRS
76838	ANKIT SETHI	EME
76839	AMIT RAUTELA	ARTY
76840	ASHITH KRISHNAN C	MECH
76841	HIMANSHU	INF
76842	ANKUR SRIVASTAVA	AAD
76843	HARJYOT SINGH DHILLON	ARTY
76844	PRASHANT KUMAR VERMA	INF

IC No	Name	Arms/ Services
76845	BHABUK SHARMA	INF
76846	PRIYAM JENA	EME
76847	RAJYAVARDHAN SINGH RATHORE	AC
76848	SIDDHARTH BAHADUR	INF
76849	RUPESH KUMAR	INF
76850	VINAY KUMAR	ARTY
76851	NAWENDU SHEKHAR	AAD
76852	PIYUSH KUMAR	ARTY
76853	AMIT KUMAR CHOUBEY	ARTY
76854	PAWAN SHARMA	INF
76855	BIGYANCHANDRA RAJKUMAR	ARTY
76856	SANDIP KUMAR SINGH	ARTY
76857	A SRINIVAS REDDY	INF
76858	MOHD ABDULLAH QURASHI	AOC
76859	HARVINDER SINGH	MECH
76860	ANMOL MEHTA	INF
76861	RAHUL ARORA	ASC
76862	RANJEET SINGH	ARTY
76863	APOORVE GUPTA	SIGS
76864	PARMESHWAR TIWARI	ARTY
76865	MANISH CHAKRABORTY	ARTY
76866	D PRAVEEN	ARTY
76867	RAVI KUMAR RAWAT	INF
76868	CHAITANYA SHARMA	AC
76869	ABHISHEK MAHAJAN	SIGS
76870	NITIN DHADWAL	ENGRS
76871	TUSHAR BALASAHEB JAGADALE	ENGRS
76872	CHINMAY S GHARPURE	EME
76873	BENIT	INF
76874	KAMAL KOUSHIK	ENGRS
76875	TARUN RATHEE	SIGS
76876	EIZZAPU REDDY CHANDAN	EME
76877	VIKAS BHAMBHU	AVN
76878	ROHIT UNIYAL	ENGRS
76879	AJAY ANTIL	SIGS
76880	VINAY KUMAR DAHIYA	AC
76881	SUDARSHAN NARENDRA GAIKWAD	ENGRS
76882	SUSHANT SHARMA	SIGS
76883	RAJEEV DWIVEDI	SIGS
76884	NEERAJ SAINI	ARTY
76885	ROHIT RAWAT	SIGS

IC No	Name	Arms/ Services
76886	SUMIT KUMAR GANGWAR	EME
76887	GAURANG DIXIT	ENGRS
76888	TAHIR AHMED KHAN	ARTY
76889	TEJAS SHIVAJI MORE	ENGRS
76890	VIVEK CHAUDHARY	EME
76891	PRAVEEN KUMAR SOLANKI	SIGS
76892	PRAVIN DINKAR PATIL	INF
76893	RAJASEKHAR KAMIDI	EME
76894	HARNEET SINGH BADSHAH	ARTY
76895	RUPESH KUMAR	ARTY
76896	CHITTRANJAN KUMAR GARG	SIGS
76897	RAM CHANDRA YADAV	EME
76898	PRATAP SINGH	ENGRS
76899	N IMANDAR SINGH	INT
76900	NIRAJ KUMAR SINGH	ENGRS
76901	ANSHU KUMAR	SIGS
76902	ASHISH DUHAN	ENGRS
76903	AMIT KUMAR DHANDA	EME
76904	PRIYESH TRIPATHI	SIGS
76905	NEERAJ KUMAR SHARMA	INF
76906	VINEET SANGWAN	EME
76907	RUPENDER DAHIYA	ENGRS
76908	NEERAJ KOKATE	SIGS
76909	AMIT KHATRI	AAD
76910	JATINDER PREET SINGH	ARTY
76911	RAJAN KUMAR	SIGS
76912	KULWINDER SINGH AOULAKH	SIGS
76913	BHOITE VAIBHAV SUNIL	EME
76914	MATHEWS M SHEPHERD	ENGRS
76915	BHUVNENDRA SINGH CHAUHAN	EME
76916	ARVIND KUMAR	INF
76917	BERAD HARSHAL BHAGWAN	EME
76918	SURAJ SOPAN GAIKWAD	ENGRS
76919	NITIN KUMAR CHAUDHARY	EME
76920	ANUBHAV CHOUDHRY	MECH
76921	SANDEEP SIWACH	INF
76922	DEEPAK SINGH BOHRA	ENGRS
76923	TUSHAR SHARMA	INF
76924	RAVI KUMAR SINGH	ENGRS
76925	RAVI KUMAR SANWARIYA	INF
76926	JASVIR GILL	INF

IC No	Name	Arms/ Services
76927	ADITYA JAGANNATHAN	AAD
76928	SANAT KONDAL	EME
76929	SIDHANT SHARMA	SIGS
76930	NEELKAMAL SHARMA	SIGS
76931	RATNESH SINGH PANWAR	AC
76932	ANSHUMAN SINGH CHAUHAN	ENGRS
76933	GURKIRPAL SINGH	EME
76934	ANIL SHARMA	INF
76935	NAREN PANDE	AAD
76962	BIBEK PRADHAN	AEC
77009	RAJIV KUMAR ROY	AEC
77059	SANJEET SINGH RANDHAWA	AEC
77071	S SREEJITH	AEC

----09 JUN 2014

78120	PRATEEK DHANKHAR	SIGS
78121	SOURAV MAITY	ENGRS
78122	PRABHJOT SINGH VIRK	AC
78123	ABHISHEK SINGH BHADAURIA	ARTY
78124	UPMANYU GAUR	ENGRS
78125	APURV GUPTA	ARTY
78127	PARDEEP BALHARA	INF
78128	ISHAN RAZDAN	INF
78129	ANGAD SINGH BRAR	AC
78130	YASHWANT	INF
78131	JAGDISH JOSHI	INF
78132	AMAN NANDA	AC
78134	PRADEEP KUMAR KADIAN	MECH
78135	NALIN RAM	EME
78136	SWAPNIL CHANDRA	SIGS
78137	ABHINAV THAKRE	ARTY
78138	VINEET RAI	ENGRS
78139	SHASHI SHEORAN	ARTY
78140	JEGANATH VITTAL A S	AC
78141	ABHINAV SHARMA	ARTY
78142	KUMAR ROHIT	ENGRS
78143	SANDEEP SINGH SIDHU	EME
78144	NETROJIT GOHAIN	AC
78145	VIKSIT SACHDEVA	EME
78146	ADITYA CHANDRA ROY	EME
78147	RAHUL KUMAR PUNDHIR	ARTY

IC No	Name	Arms/ Services
78148	RAHUL KALA	EME
78149	NITIN CHAUDHARY	INF
78150	RAVINDER SINGH PANESAR	MECH
78151	AASHISH DHONCHAK	INF
78152	HIMANSHU SINGH	ENGRS
78153	ATHUL JAMES	ENGRS
78154	NISHANK SHARMA	SIGS
78155	DAMANPREET SINGH	ARTY
78156	SNEHASHIS CHAKRAVARTY	ARTY
78157	SATYENDRA KUMAR	SIGS
78158	ATUL SINGH PARIHAR	EME
78159	HARPREET SINGH	INF
78160	AMIT DALAL	SIGS
78162	RAVI GOEL	EME
78163	ASHISH BHARADWAJ	ENGRS
78164	HARISH RAMCHANDRA MAGDUM	ENGRS
78165	AHAD BAJAJ	EME
78166	ARUN ATHIKKAL	AVN
78167	PANKAJ BISHT	ARTY
78168	VIKAS SINGH	INF
78169	ABHINAV MATHUR	INF
78170	PRATEEK SINGH	EME
78171	YASH JOSHI	SIGS
78172	SAWANT ASHISH PRADIP	INF
78173	RAHUL JAGGI	ARTY
78174	NAVEEN RATHEE	SIGS
78175	PRATEEK SINGH BEDI	ARTY
78176	MAYANK YADAV	AAD
78177	ANKIT SHARMA	SIGS
78178	MOHAMMED SHAHID	AAD
78179	ESHAN VERMA	SIGS
78180	SACHIN SINGH CHAUHAN	INF
78181	ABHINAV SHARMA	EME
78182	KUMBHAR SIDDHESH DATTA	EME
78183	GOURISHANKAR ISHAN SINGH	ASC
78184	VIVEK BHAGAT	ENGRS
78185	SRIVASTAV UJJAWAL PRADEEPKUMAR	ENGRS
78186	ANURAG KUMAR	SIGS
78187	DEEPAK ADHANA	EME
78188	F DARENDRA SINGHA	EME

IC No	Name	Arms/ Services
78189	VIPIN NATH	ENGRS
78190	VISHVENDRA SINGH SISODIA	AAD
78191	PARVEEN KUMAR	EME
78192	HEMANT RANA	INF
78193	VISHNU DEV	ARTY
78194	PANKAJ PANDEY	EME
78195	GURSIMAR SINGH	AAD
78196	SHIVRAJ V UDAMESHI	ARTY
78197	GOURAV KALSOTRA	ENGRS
78198	KARAN PAL SINGH CHHINA	INF
78199	SATISH SAIKHOM	ENGRS
78200	ANKUR LAGHATE	ENGRS
78201	UJJWAL GUPTA	INF
78202	RAKSHIT DESHPANDE	INF
78203	AKSHAT DUREHA	SIGS
78206	MANDAOGADE MOHAN YASHWANT	AAD
78207	KUMAR PRASENJEET SARKAR	SIGS
78208	ABHAY PRATAP SINGH NEGI	ENGRS
78209	HIMANSHU SHARMA	ENGRS
78210	VIKRAM SINGH SIKARWAR	AOC
78211	LOKESH SOGARWAL	MECH
78212	DEEPAK PANDEY	INF
78213	ANANT MAHESHWARI	ARTY
78215	KANWARTEJ SINGH UPPAL	EME
78216	SANGAMESH PATIL	SIGS
78217	ROHIT VATSA	EME
78218	VINOD K	INF
78219	ADITYA VIR SINGH	SIGS
78220	GURYOG SINGH GHUMAN	MECH
78221	SHUBHAM SHUKLA	EME
78222	KUNAL V JOSHI	ENGRS
78223	ABHISHEK SINGH	ARTY
78224	DEEPINDER SINGH AUJLA	EME
78225	SANJAY BHATT	ENGRS
78226	JITENDRA YADAV	ASC
78227	VISHAL BHASIN	INF
78228	ARUL V BHARATHI	INF
78229	ASHUTOSH SINGH	AAD
78230	ANAND U	INF
78231	JASPREET SINGH ANAND	AOC
78232	SANKALP DWIVEDI	INF

IC No	Name	Arms/ Services
78233	SAUMYA PRATIK	ASC
78234	NISHANT ROY	INF
78235	SADASIVUNI VIJAYESH MURTY	EME
78236	VISHAL VENUGOPAL	INF
78238	AKASH CHAUDHARY	MECH
78239	JAGDEEP U	SIGS
78240	ABHISHEK RAJESH THAKKAR	ENGRS
78241	SACHIN TOMAR	INF
78242	SHUKLA SHIVAM RAMAKANT	EME
78243	KAPIL YADAV	ENGRS
78244	DEEPENDRA SINGH TETARWAL	SIGS
78245	BOPANNA K K	INF
78246	HIMANSHU VERMA	ASC
78247	DEBASISH DASH	INF
78248	MUKUL MOHALE	ARTY
78249	KAMLENDRA SINGH RAO	ARTY
78250	AMAR DEEP	ENGRS
78251	MANISHKUMAR YADAV	ENGRS
78252	NAVJOT SUHAG	INF
78253	SOURAV HALDER	ARTY
78254	MAYANK KUMAR SHARMA	INF
78255	RANDEEP SINGH	SIGS
78256	ABHINAV YADAV	AC
78258	NARENDRAN D	ARTY
78259	ANURUP SINHA	ARTY
78260	AKASH BANERJEE	ENGRS
78261	SUDHIR KUMAR RAI	EME
78262	LALIT KUMAR SHISHODIA	EME
78263	HANEET SINGH SUDAN	INF
78264	AMRINDER SINGH CHAUHAN	SIGS
78265	SHASHANK SINGH	EME
78266	VINAY KUMAR SHARMA	ARTY
78267	RAHUL YADAV	ARTY
78268	PANKAJ KUMAR	INF
78269	ASHISH AHLUWALIA	EME
78272	HIMANSHU CHOUBEY	EME
78273	VIDYASHANKAR BALASUBRAMANYA IYER	EME
78274	ANKUR AJAY BANSAL	SIGS
78275	PANIGRAHI ARUN RABINDRA	ENGRS
78276	SHAHENSHAH JAFFRI	INF

IC No	Name	Arms/ Services
78277	VIJESH T	ENGRS
78278	JAGMIT SINGH	INF
78279	KAMLESHWAR BHATTACHARJEE	ENGRS
78280	CHARANJIT SINGH	ARTY
78281	VARUN	SIGS
78282	SAMEER PATRO	SIGS
78283	KABTHIYAL PRASHANT RAJANIKANT	EME
78284	DANDAWATE ROHAN NARESH	MECH
78285	ARIJIT BOSE	AOC
78286	ANIVESH KUMAR SINGH	ARTY
78287	SUNNY SINGHAL	ENGRS
78288	GOGINENI KIRIT PRASAD	EME
78289	AVINASH SHARMA	ARTY
78290	GOKUL L	EME
78291	ALKESH TIWARI	ENGRS
78292	AKASH DUBEY	AOC
78293	RISHI ARYA	INF
78294	MUNESH KUMAR KAUSHIK	SIGS
78295	KARAN PREET SINGH ARORA	ARTY
78296	ABHISHEK KHOWALA	EME
78297	AKASH KADAM	ENGRS
78298	NAGESH DESHWAL	AOC
78299	NIKET KUMAR MISHRA	SIGS
78300	AARYAN	INF
78302	ABHISHEK VYAS	ASC
78303	UDAY SHANKAR ROY	ENGRS
78304	DEEPAJ SINGH MAKHLOGA	SIGS
78305	DIVYANSHU CHATURVEDI	INF
78306	PRASAD SHAILENDRA MAHATMA	ENGRS
78307	RAUSHAN KUMAR	ASC
78308	PARIMAL KUMAR	EME
78309	BHUPENDRA SINGH	SIGS
78310	INDERJIT SINGH	EME
78311	NITISH KUMAR OJHA	INF
78312	ISHAN CHAUHAN	ARTY
78313	ANAND MISHRA	ARTY
78314	INDERPREET SINGH CHAHAL	AC
78315	PRAVEEN KUMAR BOHRA	EME
78316	NAVPREET SINGH	AVN
78317	AJAY B N	ARTY
78318	JANARDHAN G V V	ASC

IC No	Name	Arms/ Services
78320	NIKHIL SAKLANI	AOC
78321	SUSHIL KUMAR SINGH	INF
78322	MANKAR DHANANJAY DATTATRAYA	AOC
78323	ASHOK R	ENGRS

----10 JUN 2014

PERMANENT COMMISSION (SC)

LT TO BE CAPT

SC No.	Name	Arm/Service
00675	VINOD KUMAR SHARMA	AC
00676	AMIRTHANATHAN J	INF
00677	RAVINDRA R SALUNKHE	ENGRS
00678	EZHILARASAN V	ARTY
00679	KIRSHEN KUMAR, SM	AOC
00680	UMA SHANKAR PILLAI	INF
00681	SANJAY SINGH RAWAT	EME
00682	SUSHANT THAPA	INT
00683	JOGINDER SINGH	MECH
00684	BRIJ LAL	AAD
00685	AMIT SINGH	MECH
00686	PRADEEP KUMAR	ARTY
00687	VIKASH SAHI	EME
00688	RAJDEEP	ASC
00689	J GOPU	SIGS
00690	BALWANT SINGH	INF
00691	SOWRAPU MALLIKARJUNA	ARTY
00692	PRADEEP SINGH RAWAL	INF
00693	T EKAMBARAM REDDY	ENGRS
00694	NITIN JAMWAL	INF
00695	SANJAYA KUMAR SAMAL	ARTY
00696	NAVEEN KUMAR	INF
00697	ASHISH GURUNG	AAD
00698	KISHORE VARGHESE	INF
00699	KUNDAN KUMAR	ENGRS
00700	DEEPAK KUMAR	INF
00701	SHANKAR V BORAGAVI	ENGRS
00702	BIRESWAR DEKA	ARTY
00703	TSEWONG DORJEE	INF

SC No.	Name	Arm/Service
00704	SANTOSH KUMAR TIWARI	SIGS
00705	JAI SINGH	ARTY
00706	VISHAL SAHI	EME
00707	RAKESH PANI	SIGS
00708	HARI CHANDRA	ARTY
00709	PANKAJ KUMAR	INF
00710	BHASKAR VIJAY TUKARAM	INF
00711	GURVINDER SINGH NAGRA	ARTY
00712	GAURAV JEET	AC
00713	AJIMON C A	AOC
00714	LAD UTKARSHA VASANTRAO	ASC
00715	ANIL KUMAR	INF

---09 JUN 2014

SANKAR BOSE
Dy Dir
MS 8C

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015
www.dop.nic.in